

॥ श्रीः ॥

# हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला


२२२

॥ श्रीः ॥

## सन्धिचन्द्रिका

कारक-समास-तिङन्त-कृदन्तादिपरिशिष्टसहित  
सम्पादकः

पण्डित श्री रामचन्द्र झा व्याकरणाचार्य



चौरवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी

१९७७

प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी  
मुद्रक : चौखम्बा प्रेस, वाराणसी  
संस्करण : द्वितीय, वि० सं० २०३४  
मूल्य : ₹-००

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office  
K. 37/99, Gopal Mandir Lane  
Post Box 8, Varanasi-221001 ( India )  
Phone : 63145

अपरं च प्राप्तिस्थानम्  
चौ खम्बा अ म र भा र ती प्र का श न  
के० ३७/११८, गोपाल मन्दिर लेन  
पो० बा० नं० १३८, वाराणसी-२२१००१ ( भारत )

## प्राकथन

संस्कृत भाषा विश्वकी प्राचीनतम भाषाओं में अत्यन्तम है। भारतीय पु रातत्वके विषयमें पूर्ण और यथार्थ ज्ञानके लिए संस्कृत ही एकमात्र अनन्य साधारण साधन है। बहुत ही संतोष और प्रमोदका विषय है कि संस्कृत शिक्षा-पद्धतिके मुधारकी ओर भी स्वतन्त्र भारतकी सरकारका ध्यान आकृष्ट हुआ है और अनुदिन हो रहा है। 'आवश्यकता आविष्कारकी जननी होती है' अतः राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वीकृत होनेके पश्चात् जब संस्कृत अनिवार्य रूपसे पढ़नेकी आवश्यकता हो गयी है तब विद्वानोंने भी विविध इति कर्त्तव्यतामय स्वल्प श्रममें अधिक लाभप्रद ग्रन्थोंके प्रणयनमें यथेष्ट ध्यान दिया है। प्रस्तुत पुस्तिका भी उन्नीका हेतुमूल है। अगर अल्प वयस्क बालकों को इससे कुछ भी लाभ पहुँचा तो मैं अपने श्रमको सफल समझूँगा।

इस पुस्तकके प्रणयनमें मित्रवर श्री पं० शोभित मिश्र जी न्यायव्याकरणा-चार्यने विशेष सहायता प्रदान की है तदर्थ मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। साथ ही साथ जिन ग्रंथों से मुझे आंशिक सहायता मिली है मैं उन ग्रन्थकारोंका भी विशेष आभारी हूँ।

अन्तमें इस पुस्तकके प्रकाशक 'चीखम्बा संस्कृत पुस्तकालय' के अव्यज श्रेष्ठिवर स्व० बाबू हरिदासजी गुप्त के सुपुत्र बाबू जयकृष्णदासजी गुप्तका आभार प्रदर्शित करना भी मेरा पुनीत कर्त्तव्य है। अंग्रेजके शासनकालमें जब संस्कृत मृत भाषा कही जा रही थी, उम समय भी आपका उत्साह कम नहीं था। संस्कृतके उत्थानके लिये ६२ वर्षोंसे निरन्तर आप भगिरथ प्रयत्न कर रहे हैं। अपने ही हाथों से एक सहस्रसे अधिक प्राचीनसे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंको प्रकाशित कर आपने भगवती सुरभारतीकी जो सेवा की है वह सराहनीय है और इसके लिए स्वतंत्र भारत आपका कृतज्ञ है।

श्रावणी झूला

वि० सं० २००६

विनीत

श्री रामचन्द्र झा

## विषय-सूची

संज्ञाप्रकरण	...	...	१
सन्धिप्रकरण	...	...	८
स्वर-सन्धि	...	...	१०
व्यञ्जन-सन्धि	...	...	२१
त्रिसर्ग-सन्धि	..	..	३०
कारक-विचार	...	...	३८
समान-विचार	...	...	४४
तिङ्ङन्त-विचार	...	...	५१
कृदन्त-विचार	...	...	५७
संख्यासंज्ञा गणनाक्रम	...	...	६५
गुणाचुद्धिदर्शन	...	...	६२
उपसर्ग-विचार	...	...	६६
अनुवादोपयोगिवान्वर्थ	...	...	६७
व्याकरणादिलक्षण	...	...	७३
त्रिद्यार्थी-शिआसूत्र	...	...	७४





# सन्धि-चन्द्रिका

१७७६६

## संज्ञाप्रकरण

ओङ्कारं सुरलीघरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरम्  
भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरैरासेव्यपादाम्बुजम् ।  
वन्दे रासविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवं  
श्रीराधादिसमस्तगोपवनितासंसेव्यमानं प्रभुम् ॥

अइउण् १ । ऋलृक् २ । एओङ् ३ । ऐऔच् ४ ।

हयवरट् ५ । लण् ६ । ञामङ्गणनम् ७ । झभञ् ८ ।

घढधष् ९ । जबगडबश् १० । खफछठथचटतव् ११ । कपय् १२ ।

शषसर् १३ । हल् १४ ।

इहीं चतुर्दश (१४) सूत्रोंके आधार पर महर्षि पाणिनिने समस्त व्याकरणकी सभी बातें सरलरूपेण संक्षेप में कही हैं। ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र अण्, अक्, अच् इत्यादि संज्ञा ( प्रत्याहार ) सिद्धिके लिए हैं। (आचार्य पाणिनिने भगवान् शंकरके अतिशय प्रिय डमरूके शब्दोंसे इन सूत्रोंको उपलब्ध किया था।)

नोटः—आचार्य पाणिनि और कात्यायन दोनों पाटलिपुत्र (पटना) के महा-प्राज्ञ श्री ५० उपवर्षाचार्यजीके शिष्य थे। सतीर्थ्यों होनेके कारण दोनोंमें परस्पर शाश्वतिक विरोध रहता था। एकदा कात्यायनसे परास्त होकर पाणिनि दीर्घराज प्रयागमें अक्षयव्रतके नीचे वहाँ अतकादि ऋषि गण तप कर रहे थे वहाँ जाकर घोर तपस्या करते लगे। अतन्तर तपस्त्रियाकी दिक्कत तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर आधुतोष भगवान् शङ्करने ताण्डव नृत्य करते हुए उन लोगोंको दर्शन दिया और १४ बार अपना डमरू बजाकर तपस्त्रियोंका अभीष्ट सिद्ध किया। जैसा कि नन्दिकेश्वर विरचित 'काशिका' में लिखा है :—

‘नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नव-पञ्चवारम् ।

उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शो शिवसूत्रजालम् ॥

(विस्तृत समीक्षा ‘इन्दुमती’ टीका सहित ‘लघुकौमुदी’ की प्रस्तावना में देखो)

इन चतुर्दश सूत्रोंके अन्तिम वर्ण (ण्, क्, आदि) इत्संज्ञावाले हैं ‘हलन्त्यम्’ सूत्रसे इनकी इत्संज्ञा हो जाती है। हकारादि वर्णोंमें संमिलित जो अकार हैं वे केवल वर्णोच्चारण करनेके लिये हैं—इत्संज्ञाके लिये नहीं। ‘लण्’ सूत्रके मध्यमें (लकारोत्तरवर्ती) जो अकार है वह इत्संज्ञक है—उच्चारण मात्रके लिये नहीं। क्योंकि उससे ‘र’ प्रत्याहारकी सिद्धि होती है।

### ( १ ) इलन्त्यम्—

उपदेश अवस्थामें जो अन्त्य हल् (व्यञ्जन वर्ण) उनकी इत्संज्ञा होती है।

नोटः—आद्य (प्रथम) उच्चारणको ‘उपदेश’ कहते हैं।

व्याकरण शास्त्रके प्रवर्तक पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि मुनिका जो आद्योच्चारण है उसीका नाम ‘उपदेश’ है। कहा भी है—

घातु-सूत्र-गणोणादि-वाक्य-लिङ्गानुशासनम् ।

आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥

### ( २ ) तस्य लोपः—

जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है।

नोटः—प्रसक्त ( शास्त्रतः वा अर्थतः विद्यमान—प्राप्तोच्चारण ) का जो अदर्शन (श्रवणाभाव) वह लोपसंज्ञक होता है—उस अभावको लोप कहते हैं।

### ( ३ ) आदिरन्त्येन सहेता—

अन्त्य इत्संज्ञक वर्णके साथ उच्चारित आदि वर्ण अपने तथा मध्यवर्ती वर्णोंका भी बोधक हैं।

नोटः—‘अ इ उ ण्’ सूत्रवचक ‘अण्’ प्रत्याहारमें अन्त्य इत्संज्ञक ‘ण्’ के सहित उच्चारित आदिवर्ण हुआ ‘अ-ण्’। वह ‘अण्’ अपने बीचमें इ, उ, का तथा अपना अर्थात् ‘अ’ का भी संज्ञक हुआ (एत्रम् अन्यत्रापि)।

यथा ‘अण्’ प्रत्याहार अ, इ, उ वर्णोंका संज्ञा (बोधक) है, तथा अच्, हल् आदि प्रत्याहारों को भी जानना चाहिये। प्रत्याहार निम्न होते हैं।

## शिवसूत्र-प्रत्याहार

स्यादेको डञ्जणवटैः, षेण द्वौ, त्रय इह कणमैश्च ।  
चत्वारश्च चयाभ्यां, पञ्च रेफेण, शलाभ्यां षट् ॥

अक्—अ, इ, उ, ऋ, लृ ।

अच्—अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ ।

अञ्—अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ,  
औ, ह, य, व, र, ल, ज, म, ड,  
ण, न, झ, भ ।

अट्—अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ,  
औ, ह, य, व, र ।

अण्—अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ,  
औ, ह, व, र, ल ।

अम्—अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ,  
औ, ह, य, व, र, ल, ज, म, ड, ण, न

अल्—अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ,  
औ, ह, य, व, र, ल, ज, म, ड,  
ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व,  
ग, ड, ब, ख, फ, छ, ठ, थ, च,  
ट, त, क, प, श, ष, स, ह ।

अर्—अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ,  
औ, ह, य, व, र, ल, ज, म, ड,  
ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज,  
व, ग, ड, द ।

इक्—इ, उ, ऋ, लृ ।

इच्—इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ ।

इण्—इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ,  
ह, य, व, र, ल ।

उक्—उ, ऋ, लृ ।

एङ्—ए ओ ।

एच्—ए, ओ, ऐ, औ ।

ऐच्—ऐ औ ।

खय्—ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त,  
क, प ।

खर्—ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व,  
प, श, ष, स ।

ङम्—ङ, ण, न ।

चय्—च, ट, त, क, प ।

चर्—च, ट, त, क, प, श, ष, स ।

छव्—छ, ठ, थ, च, ट, त ।

जश्—ज, व, ग, ड, द ।

झय्—झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड,  
द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प

झर्—झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग,  
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट,  
त, क, प, श, ष, स ।

झल्—झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग,  
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट,  
त, क, प, श, ष, स, ह ।

झर्—झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द

झष्—झ, भ, घ, ढ, ध ।

बश्—ब, ग, ड, द ।

भय्—भ, घ, ढ, ध ।

मय्—म, ड, ण, न, ऋ, भ, घ, ढ, ध,  
ज, व, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ,  
थ, च, ट, त, क, प ।

यञ्—य, व, र, ल, ज, म, ड, ण, न,  
ऋ, भ ।

यण्—य, व, र, ल ।

यम्—य, व, र, ल, ज, म, ड, ण, न ।

यय्—य, व, र, ल, ज, म, ड, ण, न,  
ऋ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द,  
ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प

यर्—य, व, र, ल, ज, म, ड, ण, न,  
ऋ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड,  
द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त,  
क, प, श, ष, स ।

रल्—र, ल, ज, म, ड, ण, न, ऋ, भ,  
घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द, ख,

फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प,  
श, ष, स, ह ।

वल्—व, र, ल, ज, म, ड, ण, न, ऋ,  
भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द,  
ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क,  
प, श, ष, स, ह ।

वश्—व, र, ल, ज, म, ड, ण, न, ऋ,  
भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द

शर्—श, ष, स ।

शल्—श, ष, स, ह ।

हल्—ह, य, व, र, ल, ज, म, ड, ण,  
न, ऋ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग,  
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट,  
त, ऋ, प, श, ष, स, ह ।

हश्—ह, य, व, र, ल, ज, म, ड, ण,  
न, ऋ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, द ।

### (४) ऊक लोडवम्भदीर्घप्लुतः—

उकार, ऊकार, उधकार ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) के समान उच्चारण काक ही जिसका वह 'अच्' प्रकारसे लृप्त, दीर्घ, प्लुत संज्ञावाला ही ।

नोटः—'नारायण' काकको कहते हैं । नुराणि उच्च 'हु-कु-कुश्' से एक वी, तीन नारायणों उच्चारण क्रमिक मरठ प्रतीत होता है, अतः उकार ही दृष्टान्त रूप में दिया गया है । लृप्तमात्रिक का अर्थ—

एकमात्रो भवेद्व्यस्यो द्विमात्रो द्वीर्घ उच्यते ।

त्रिमात्रस्य प्लुतो गोत्रो वाचुरो च धीमात्रिस्य ।

वहूः लृप्त, दीर्घ, प्लुतसंज्ञक ) प्रत्येक 'अच्' उदात्त, अनुदात्त, स्वरित वर्णद्वयेप्ये तस्य तस्य प्रकाशका होता है ।

१. तालु अर्धदि तमालीके उर्ध्वे भाग से उच्चारित जो 'अच्' वह 'उदात्त' कहलाता है ।

२. तालु आदि स्थानों के अधोभागमें उच्चारित जो 'अच्' वह 'अनुदात्त' कहलाता है ।

३. उदात्त और अनुदात्त जिस स्वर ने संमिलित हैं उसे 'स्वरित' कहते हैं । वह (उदात्त, अनुदात्त स्वरितभेदेन) नौ प्रकारका ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक 'अच्' पुनः अनुनासिक और अननुनासिक भेदमें दो दो प्रकारका होता है ।

( ४ ) मुखनासिकाश्चनौऽनुनासिकः—

मुख और नासिका ( उभय ) से जिस वर्णका उच्चारण हो वह अनुनासिक संज्ञक वर्ण कहलाता है ।

नोटः—इस प्रकारसे 'अ, इ, उ, ऋ' इन वर्णोंमें प्रत्येकके १८ भेद होते हैं । दीर्घ न होनेके कारण 'लृ' वर्णके ( १८ भेद न होकर ) १२ भेद होते हैं । एवं (ह्रस्व न होनेके कारण) 'एच्' वर्णके प्रत्येकका भी ( अठारह-अठारह भेद न होकर ) १२ भेद होते हैं ।

स्वर्णोंका अष्टादश भेदज्ञापक चक्र—

अ इ उ ऋ लृ	अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ	अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ
ह्रस्वभेद	दीर्घभेद	प्लुत भेद
१ ह्रस्व उदात्तानुनासिक	७ दीर्घ उदात्तानुनासिक	१३ प्लुत उदात्तानुनासिक
२ ,, उदात्ताननुनासिक	८ ,, उदात्ताननुनासिक	१४ ,, उदात्ताननुनासिक
३ ,, अनुदात्तानुनासिक	९ ,, अनुदात्तानुनासिक	१५ ,, अनुदात्तानुनासिक
४ ,, अनुदात्ताननुनासिक	१० ,, अनुदात्ताननुनासिक	१६ ,, अनुदात्ताननुनासिक
५ ,, स्वरितानुनासिक	११ ,, स्वरितानुनासिक	१७ ,, स्वरितानुनासिक
६ ,, स्वरिताननुनासिक	१२ ,, स्वरिताननुनासिक	१८ ,, स्वरिताननुनासिक

५. परस्पर-परस्पर-संज्ञा-वर्णम्—

जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तालु आदि स्थान आभ्यन्तर प्रयत्न एक हो वह परस्पर संज्ञा-वर्ण संज्ञावाला होता है ।

नोटः—ऋ-लृ वर्णकी (भिन्न स्थान होनेपर भी) परस्पर संज्ञा होती है ।

## स्थानचिह्नः—

१. अ-अकार, कु-कवर्ग, ह-ओर विसर्ग का उच्चारणस्थान कंठ है—अतः इनको कण्ठ्य वर्ण कहते हैं। २. इ-इकार, चु-चवर्ग, 'य' और 'श' का उच्चारणस्थान 'तालु' है—अतः इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। ३. ऋ-ऋकार, टु-टवर्ग, 'र' और 'प' का उच्चारणस्थान 'मूर्धा' है—अतः इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ४. लृ-लृकार, तु-तवर्ग, 'ळ' और 'स' का उच्चारणस्थान 'दन्त' है—अतः इनको दन्त्य वर्ण कहते हैं। ५. उ-उकार, पु-पवर्ग और उपध्मानीय (—प—फ) का उच्चारणस्थान 'ओष्ठ' है—अतः इनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ६. 'अ-म-ड-ण-न' का उच्चारणस्थान 'नासिका' तथा 'कण्ठ-तालु-मूर्धा-दन्त-ओष्ठ' भी हैं—अतः इनको नासिका तथा कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य और ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। ७. एकार-ऐकारका उच्चारणस्थान कंठ और तालु है—अतः इनको कंठ्य, तालव्य दोनों कहते हैं। ८. ओकार-औकारका उच्चारणस्थान कंठ और ओष्ठ है—अतः इनको 'कंठ्योष्ठ्य' वर्ण कहते हैं। ९. वकार का उच्चारणस्थान दन्त तथा ओष्ठ है—अतः इनको 'दन्त्योष्ठ्य' वर्ण कहते हैं। १०. —क—ख का उच्चारणस्थान जोभका मूक (जड़ भाग) है—अतः इनको जिह्वामूलीय कहते हैं। ११. अनुस्वार का उच्चारणस्थान नासिका है।

## वर्णोद्भवस्थान ज्ञापक चक्र—

कंठ	तालु	मूर्धा	दन्त	ओष्ठ	नासिका	कं. ता.	कं. ओ.	दं. ओ.	जि. मू.	नासिका
अ	इ	ऋ	ऌ	उ	अ	र	ओ	व	(क	
क	च	ट	ठ	प	म	प	औ			
ख	ख	ठ	थ	फ	ड				(ख	
ग	ग	ड	ड	ब	ण					अनुस्वार
घ	घ	ड	ध	भ	न					
ङ	ङ	ण	न	म						
ह	य	र	ळ	(य						
।	श	ष	स	(ऌ						

## प्रयत्नचिह्नः—

यत्नो द्विधा—यत्न (प्रयत्न) दो प्रकार का होता है—आभ्यन्तर और बाह्य।  
 नोटः—“प्रकृत्यो यत्नः प्रयत्नः” अर्थात् वर्णोच्चारणके पूर्व हृदयमें जो यत्न

करना पड़ता है, उसी प्रयत्नको 'आभ्यन्तरप्रयत्न' कहते हैं। इसका अनुभव उच्चारण करने वालेको ही होता है। दूसरा प्रयत्न मुखसे वर्ण निकलते समय होता है। इसका अनुभव सुनने वालेको भी होता है, अतः वह 'बाह्यप्रयत्न' कहा जाता है। इसका उपयोग सवर्णसंज्ञामें नहीं होता, किन्तु आन्तरतम्य-परीक्षा अर्थात् कई वर्णोंमें परस्पर अत्यन्त समानताका अन्वेषण करनेके समय इसकी आवश्यकता पड़ती है।

पहला—'आभ्यन्तर' प्रयत्न, पांच प्रकारका है १. स्पृष्ट, २. ईषत्स्पृष्ट,

३. ईषद्विवृत, ४. विवृत और ५. संवृत।

इन पांचोंमें स्पृष्ट प्रयत्न (स्पर्शका) 'क' से 'म' पर्यन्त वर्णोंका है। ईषत्स्पृष्ट—प्रयत्न (अन्तःस्थोंका) य व र ल वर्णोंका है। ईषद्विवृत—प्रयत्न (ऊष्माका) शल् वर्णोंका है। विवृत—प्रयत्न (स्वरका) अच्का है, संवृत—प्रयत्न ह्रस्व अकारका प्रयोगावस्थामें—परिनिष्ठित सिद्ध रूपमें, होता है। किन्तु प्रक्रिया-दशा (साधनिकावस्था) में विवृत ही रहता है।

दूसरा बाह्यप्रयत्न' ग्यारह प्रकारके होते हैं—१. विवार, २. संवार, ३. श्वास, ४. नाद, ५. घोष, ६. अधोष, ७. अल्पप्राण, ८. महाप्राण, ९. उदात्त, १०. अनुदात्त और ११. स्वरित।

नोटः—जिन वर्णोंका उच्चारण करते समय कंठका विकास हो उनको 'विवार' तदतिरिक्तको 'संवार' एवं जिन वर्णोंका उच्चारण करते समय श्वास चलता हो उनको 'श्वास' जिनका उच्चारण नादसे हो उनको 'नाद' तथा जिन वर्णोंका उच्चारण करनेपर गूँज होता हो उनको 'घोष' तदतिरिक्तको 'अधोष' एवं जिनके उच्चारण करनेमें प्राणवायुका अल्प उपयोग हो उन्हें 'अल्पप्राण' और अधिक उपयोग हो उन्हें महाप्राण कहते हैं।

१ खर्—प्रत्याहारका विवार, श्वास और अधोष प्रयत्न है। १ हृश्—प्रत्याहारका संवार, नाद और घोष प्रयत्न है। ३. वर्णोंके प्रथम (क च ट त प) तृतीय (ग ज ड द ब), पंचम (ङ ञ ण न म) तथा यण् (य व र ल) का अल्पप्राण प्रयत्न है। एवं वर्णोंके द्वितीय (ख छ ठ थ फ), चतुर्थ (घ ङ ढ ध भ) तथा 'शल्' (श ष स ह) का महाप्राण प्रयत्न है। ४. 'क' से 'म' पर्यन्त (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग) वर्ण स्पर्श कहलाते हैं।

नोटः—जीभके अग्र (चोटी) उपाग्र (अग्रके समीपस्थ प्रदेश), मध्य

( बीच ) और मूल ( आदि ) भागद्वारा कण्ठ, तालु प्रभृति स्थानोंका स्पर्श करके कवर्गादि वर्णोंका उच्चारण होता है अतः इनका नाम स्पर्श वर्ण है ।

५ यण्—( य व र ल ) अन्तःस्थ कहलाते हैं ।

नोटः—अन्तःस्थ का मतलब है बीचवाला । 'य व र ल' स्वर और व्यंजन के बीचके हैं ।

६. शल्—श ष स ह ऊष्मा कहलाते हैं—जिन वर्णोंके उच्चारणमें गर्म वायु का प्राधान्य हो उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं ।

७. अच्—( अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ) स्वर कहलाते हैं । ( क ) ख —यहाँ ककार, खकारसे पूर्व विसर्गाद्यं ( ँ ) के समान जो ध्वनि है वह जिह्वा-मूलीय है । ( प ) फ—यहाँ पर पकार, फकारसे पूर्व विसर्गाद्यंके समान जो ध्वनि है वह उपध्मानांय है । अं अः—यहाँ पर अकारसे पर जो ध्वनि है वह यथाक्रमसे अनुस्वार, विसर्ग वाचक है ।

नोटः—'न' और 'म' के स्थानमें अनुस्वार तथा 'रिफ' के स्थानमें विसर्ग होता है अतः अनुस्वार-विसर्ग पृथक् वर्गोंमें नहीं गिने जाते ।

### आभ्यन्तर और बाह्यप्रयत्न ज्ञापक चक्र—

आभ्यन्तर- प्रयत्न	सृष्ट		ईषत्सृष्ट	ईषद्विवृत	विवृत	संवृत		
संज्ञा	स्पर्श		अन्तःस्थ	ऊष्मा	स्वर	उदात्त, अनु- दात्त, स्वरित		
व्यञ्जन, स्वर	क प च ट त	ख फ झ ठ थ	ग ब ज ड द	ङ भ झ ढ न	य व र ल	श ष स ह	अ इ ए उदात्त, अनु- दात्त, स्वरित	अ इ ए उ ऋ ॠ ऌ ॡ प्रयोग में
बाह्यप्रयत्न	अ.प्रा. म.प्रा. विवार	अल्प.प्रा. संवार	म.प्रा. संवार	अल्प. संवार	म.प्रा. विवार	म.प्रा. सं.	अल्पप्राण संवार	अल्प. संवार
	श्वास	नाद	नाद	नाद	श्वास	ना	नाद	नाद
	अघोष	घोष	घोष	घोष	अघोष	घो.	घोष	घोष



(६) अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः

जो विधान किया जाय वह प्रत्यय और तद्भिन्न अप्रत्यय कहलाता है। एवं च सूत्रार्थ यह हुआ कि — जिसका विधान न किया गया हो ऐसा अणु (प्रत्याहार) और उदित् ( कु डु डु तु पु ) अपने सवर्णके बोधक हों। फल यह हुआ कि 'अस्य च्चौ' ह्रस्व अकारसे दीर्घ आकारका भी ग्रहण हुआ और उससे 'गाङ्गी' भवतिमें 'गङ्गा' के आकारका ईत्वविधान सफल हुआ।

नोटः—केवल इसी ( अणुदित् ) सूत्रमें 'अणु' प्रत्याहार पर ( 'लणु' सूत्रस्थ ) णकारसे समझना चाहिये। तथा च हरिकारिका—

परेणैवेणुग्रहाः सर्वे पूर्वेणवाणुग्रहा मताः।

ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु ॥

सन्धिप्रकरण

दो वर्ण परस्पर अत्यन्त निकटवर्ती होनेसे जो मिल जाते हैं, उस मिलनको 'सन्धि' कहते हैं।

सन्धि ३ प्रकारकी होती है। १. स्वर-सन्धि, २ व्यञ्जन-सन्धि और ३. विसर्ग-सन्धि।

सन्धिकी व्यवस्था—

'सन्धिरेकपदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः।

नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षतेऽ॥'

एक पदमें, धातु और उपसर्गकी तथा समासमें नित्य (निश्चितरूपेण) सन्धि होती है, किन्तु वाक्यमें विवक्षाकी अपेक्षा रखती है अर्थात् वाक्यमें वक्ताकी इच्छा पर सन्धि होती है।

ॐ १. 'पद' 'नृत्तिङन्तं पदम्' 'नुप्' अथवा तिङ् प्रत्यय जिसके अन्तमें हो वह पद कहलाता है। ( भ्याम् आदि हलादि विभक्तिके पूर्व जो हो वह भी 'पद' कहा जाता है। )

२ 'धातु' भूवादयो धातवः' जिन 'लू' प्रभृति शब्दोंमें क्रियाका ज्ञान ही हो उन्हें धातु कहते हैं।

३ 'समास' उपसर्गः क्रियायोगे'—क्रियाके साथ योग होनेपर—प्र.परा.अप.सम् अनु-अव निस्-निर्-दुस्-दुर्-वि-आङ्-नि-अधि अपि-अति सु-उत्-अभि-प्रति-परि-उ शब्दोंको उपसर्ग कहते हैं। ४. 'समास'दो अथवा उससे अधिक शब्दोंके मेलका नाम 'समास' है।

## उदाहरण—

१. एक पदमें—ने + अयनम् = नयनम् । भो + अति = भवति ।
२. धातु और उत्सर्ग में—अधि + आगच्छति = अध्यागच्छति ।
३. समासमें—राज्ञः + अश्वः = राजाश्वः ।
४. वाक्यमें—द्राविशे एव वर्षे इन्दुमती अधिजगाम नाकम् ।

## स्वर सन्धि

स्वर वर्णको स्वर वर्ण के साथ जो सन्धि होती है उसे 'स्वर-सन्धि' कहते हैं ?

## ( १ ) अकः सवर्णे दीर्घः

'अक' प्रत्याहार वटक वर्णसे अव्यवहित परमें कोई भी सवर्ण (सजातीय) 'अच्' प्रत्याहार वटक वर्ण हो तो दोनो मिलकर दीर्घ हो जाता है\* (यह सूत्र गुण और यण का वाचक है) ।

## उदाहरण—

१. अ + अ = आ—दंत्य + अरिः = दैत्यारिः । आ + आ = आ—  
विद्या + आलयः = विद्यालयः । अ + आ = आ—कमल + आकरः = कमला-  
करः । आ + अ = आ—श्रद्धा + अस्ति = श्रद्धास्ति ।

२. इ + इ = ई—फणि + इन्द्रः = फणीन्द्रः । ई + ई = ई—श्रो +  
ईशः = श्राशः । ई + इ = ई—महती + इच्छा = महतीच्छा । इ + ई = ई—  
कवि + ईश्वरः = कवीश्वरः ।

३. उ + उ = ऊ—भानु + उदयः = भानूदयः । ऊ + ऊ = ऊ—भू +  
ऊर्ध्वम् = भूर्ध्वम् । ऊ + उ = ऊ—वधू + उत्सवः = वधूत्सवः । उ + ऊ =  
ऊ—लघु + ऊर्मिः = लघूर्मिः ।

४. ऋ + ऋ = ॠ—होतृ + ऋकारः = होतृकारः । ऋ + ॠ = ॡ—होतृ +  
लृकारः = होतृलृकारः ।

ॐ 'शकन्वादिषु पररूपं वाच्यम्'—शकन्वु आदिके विषयमें जिस प्रकार उनकी सिद्धि हो वैसे पररूप करना चाहिये । इसलिये—शक + अन्धुः = शकन्धुः, कर्क + अन्धुः = कर्कन्धुः । इन स्थानों में दीर्घ नहीं होता ।

शकन्वादि 'आकृतिगण' है—'आकृत्या = स्वरूपेण, कार्यदर्शनेन, गण्यते = परिचोयते' इति 'आकृतिगणः' । अत एव—मृत + अण्डः = मृतण्डः सम + अर्थः = समर्थ इत्यादिकी भी सिद्धि होती है ।

( २ ) आद्गुणः—

अवर्णसे पर 'अच्' ऋ ( इ-उ-ऋ-लृ वर्णों ) हो तो पूर्व-परके स्थानमें गुण एक आदेश होता है ।

उदाहरण—

१. अ + इ = ए-उप + इन्द्रः = उपेन्द्रः । अ + ई = ए-देव + ईशः = देवेशः । आ + इ = ए-महा + इन्द्रः = महेन्द्रः । आ + ई = ए-रमा + ईशः = रमेशः ।

२. अ + उ = ओ-सूर्य + उदयः = सूर्योदयः । अ + ऊ = ओ-प्रासाद + ऊर्ध्वम् = प्रासादोर्ध्वम् । आ + उ = ओ-गङ्गा + उदकम् = गङ्गोदकम् । आ + ऊ = ओ-दया + ऊनः = दयोनः ।

३. अ + ऋ = अर्-देव + ऋषिः = देवर्षिः । अ + ऋ = अर्-उप + ऋकारीयति = उपकारीयति । आ + ऋ = अर्-ब्रह्मा + ऋषिः = ब्रह्मर्षिः । आ + ऋ = अर्-देवता + ऋकारः = देवतर्कारः ।

४. अ + लृ = अल्-प्लुत + लृकारः = प्लुतलृकारः । आ + लृ = अल्-आ + लृकारः = अलृकारः ।

नोटः—विशेष रूपसे कहे गये कार्योंके प्रति सामान्य रूपसे कहे गये कार्य बाधित हो जाते हैं । यथा-( गुण बाधक वार्तिक )—

( क ) अक्षाद्ब्रह्मिण्यामुपसंख्यानम् — 'अक्ष' शब्दसे पर 'ऊहिनी' शब्द हो तो पूर्व परके स्थानमें ( अ + ऊ मिलकर ) वृद्धि एकादेश ( औ ) होता है ।

यथा—अक्ष + ऊहिनी—अक्षौहिणी ( परिणाम विशेष विशिष्ट सेना ऋ )

( ख ) स्वादोरेरिणोः—स्व शब्दसे पर 'ईर' वा 'ईरिन्' शब्द रहे तो अ ई मिलकर वृद्धि ऐ होता है ।

यथा—स्व + ईरः = स्वैरः ( स्वाधीनता ) स्व + ईरिन् = स्वैरी ( स्वच्छन्दचारी )

( ग ) 'प्रादूहोढोढ्येषैष्येषु — प्र उवसर्गके बाद ऊह, ऊढ, ऊढि और एष

ऋ हल + ईषा = हलीषा, लाङ्गल + ईषा = लाङ्गलीषा, इन जगहोंमें गुण न होकर "शकृन्वादिषु पररूपं वाच्यम्" से पररूप हो जाता है ।

ऋ जिस सेनामें २१८७० हाथों हों और इतने ही रथ हों तथा ६५६१० घोड़े हों, १०९३५० पैदल चलनेवाले हों उन विशिष्टसेनाओंका नाम 'अक्षौहिणी' है प्रमाण अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खान्नाष्टकैर्द्विकैर्गजैः । रथैरेतैर्हयैस्त्रिंशत्सैः पञ्चस्रश्च पदातिभिः महाभारत ।

एष्य शब्द रहे तो अ+ऊ मिलकर 'औ' तथा अ+ए मिलकर वृद्धि 'ऐ' होता है ।

यथा—प्र+ऊहः = प्रौहः ( उत्तम तर्क ) । प्र+ऊढः = प्रौढः ( विचारवान, निपुण ) प्र+ऊढिः = प्रौढिः ( प्रौढता ) ॐ प्र+एषः = प्रैषः = ( प्रेरणा । प्र+एष्यः = प्रैष्यः ( नौकर ) ।

( घ ) 'ऋते च वृतीयासमासे'—अवर्ण से पर ऋत शब्द हो तो ( वृतीया समासमें ) अवर्ण और ऋवर्णके स्थान में वृद्धि 'आर्' होता है ।

यथा—( मुखेन ऋतः ) सुख+ऋतः = सुखातः ।

( ङ ) 'प्रवत्सतरकम्बलवसनाणदशानामृणे'—प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन ऋण और दश शब्दोंसे पर यदि 'ऋण' शब्द हो तो पूर्व-पर ( अ+ऋ ) मिलकर वृद्धि 'आर्' होता है ।

यथा—प्र+ऋणम् = प्राणम् । वत्सतर+ऋणम् = वत्सतराणम् । कम्बल+ऋणम् = कम्बलाणम् । वसन+ऋणम् = वसनाणम् । ऋण+ऋणम् = ऋणाणम् ( ऋण चुकानेके लिए लिया हुआ दूसरा ऋण ) । दश+ऋणः = दशार्णः । ( दश ऋणानि = दुर्गभूमयः यस्मिन् प्रदेशे सः । इस प्रयोगमें ऋण शब्द का दुर्गभूमि अर्थ है । विन्ध्यप्रदेशका नाम 'दशार्ण' प्रसिद्ध है । )

### ( ३ ) वृद्धिरेचि—

अवर्णसे पर 'एच्' हो तो पूर्व-परके स्थानमें वृद्धि एकादेश हो \* ।

नोटः—'वृद्धिरादेचि' इस सूत्रने आ और ऐच्की वृद्धिसंज्ञा होती है । एवं च आ-ऐ-औ इन वृद्धिसंज्ञक वर्णोंमें अतिशय सादृश्यात् अकार-एकारके स्थानमें पूर्व पर मिलकर 'ऐ' और अकार-ओकारके स्थानमें पूर्व-पर मिलकर 'औ' हो ताहै ।

उदाहरण—

१. अ+ए=ऐ—कृष्ण+एकत्वम् = कृष्णैत्वम् । अ+ऐ=ऐ—

ॐ प्र+एः तथा प्र+एष्यः में 'एङि पररूपम् सूत्र ६ से पररूप प्राप्त था ।

\* "निरवकाशो विधिरपवादः"—जिस विधिका अवकाश कहीं नहीं हो उसे 'अपवाद' कहते हैं । 'वृद्धिरेचि' की जहाँ प्राप्ति होती है, वहाँ आदृगुणः अवश्य प्राप्त होता है । अतः 'वृद्धिरेचि' अपवाद हुआ और अपवाद विधि बलवान् होती है इसलिये जहाँ वृद्धिकी प्राप्ति होगी वहाँ आदृगुण नहीं लगेगा ।

देव + ऐश्वर्यम् = देवेश्वर्यम् । अ + ओ = औ — दिव + ओकसः = दिवोकसः ।

अ + औ = औ — कृष्ण + औत्कण्ठ्यम् = कृष्णोत्कण्ठ्यम् ।

२. आ + ए = ऐ — सदा + एव = सदेव । आ + ऐ = ऐ — महा + ऐरावतः = महैरावतः । आ + ओ = औ — गङ्गा + ओषः = गङ्गौषः । आ + औ = औ — महा + औचित्यम् = महौचित्यम् ।

### ( ४ ) एत्येधत्पूठसु —

अवर्णसे पर एजादि इण् धातु (एति), और एध् धातु (एधते) तथा ऊठ् रहे तो अ + ए मिलकर 'ऐ' और अ + ऊ मिलकर वृद्धि 'औ' होता है । यह सूत्र पररूप और गुण का बाधक है ।

उदाहरण—

१. उप + एति = उपैति ।

२. उप + एधते = उपैधते ।

३. प्रष्ठ + ऊहः = प्रष्ठौहः (यहां 'वाह्' को "वाह ऊठ्" सूत्रसे 'ऊठ्' आदेश होनेसे 'ऊहः' बनता है) ।

### ( ५ ) उपसर्गादिति धातौ —

अवर्णान्ति उपसर्गसे पर ऋकारादि धातु हो तो पूर्व-परके स्थानमें वृद्धि 'आर्' होता है । ( यह सूत्र गुणका बाधक है )

उदाहरण —

१. प्र + ऋच्छति = प्राच्छति । उप + ऋच्छति = उपाच्छति । प्र + ऋणाति = प्राणाति । प्र + ऋच्छन् = प्राच्छन् । उप + ऋच्छन् = उपाच्छन् ।

### ( ६ ) एङि पररूपम् —

अवर्णान्ति उपसर्गसे पर एङादि धातु हो तो पूर्व-परके स्थानमें पररूप एकादेश हो अर्थात् पूर्व वर्ण (अ) का दर्शनाभाव हो जाय । (यह सूत्र वृद्धिका बाधक है)

— उदाहरण —

१. प्र + एजते = प्रेजते ।

२. उप + ओषति = उपोषति ।

## ( ७ ) ओमाडोश्च—

अवर्णसे पर 'ओम्' अथवा 'आड्' हो तो पूर्व-परके स्थानमें पररूप एकादेश हो । ( यह सूत्र वृद्धि का बाधक है )

उदाहरण—

शिवाय + ओं नमः = शिवायों नमः ।

( आ + इहि = एहि ) शिव + एहि = शिवेहि ।

## ( ८ ) इको यणचि—

इक् प्रत्याहारके बाद यदि अच् प्रत्याहार हो तो इक् प्रत्याहारके स्थान में यण् प्रत्याहार होता है ।

नोट :—( क ) इवर्णके बाद इवर्णभिन्न स्वरवर्ण रहनेपर इवर्णके स्थानमें 'य्' होता है ।

( ख ) उवर्णके बाद उवर्णभिन्न स्वरवर्ण परे रहने पर उवर्णके स्थानमें 'व्' होता है ।

( ग ) ऋवर्णके बाद ऋ-लृभिन्न स्वरवर्ण रहनेपर ऋवर्णके स्थानमें 'र्' होता है और र् पूर्व वर्णसे युक्त हो जाता है ।

( घ ) लृवर्णके बाद लृ-ऋभिन्न स्वरवर्ण रहनेपर लृके स्थानमें 'ल्' होता है और ल् पूर्व वर्णसे युक्त हो जाता है ।

उदाहरण—

१. इ + अ = य् - अति + अन्नम् = अत्यन्नम् । इ + आ = य् - दधि + आनय = दध्यानय । ई + आ = य् - देवी + अर्चा = देव्यर्चा । ई + आ = य् - देवी + आगच्छति = देव्यागच्छति । इ + उ = य् - प्रति + उपकारः = प्रत्युपकारः । इ + ऊ = य् - अति ऊचुः = अत्यूचुः । ई + उ = य् - लुधी + उपास्यः = सुध्युपास्यः । ई + ऊ = य् - सखा + ऊहः = सख्यूरुः । इ + ऋ = य् - अभि + ऋकारः = अभ्युकारः । ई + ऋ = य् - देवी + ऋषभः = देव्यृषभः । ई + ऋ = य् - देवी + ऋकारोयति = देव्युकारीयति । इ + लृ = य् - अति + लृकारः = अत्यलृ वारः ॐ इ + ए = य् - प्रति + एकम् = प्रत्येकम् । इ + ऐ = य् - मति + ऐक्यम् =

ॐ ऋकार और लृकारघटित प्रयोगोंका प्रचुर व्यवहार लोक में नहीं होता । पा० महाभाष्य आदि ग्रन्थोंमें ऐसे अधिक प्रयोग देखे जाते हैं ।

मत्यैक्यम् । ई + ए = य-गौरी + एवम् = गौर्यैवम् । ई + ऐ = य-लक्ष्मी + ऐश्वर्यम् = लक्ष्म्यैश्वर्यम् । इ + ओ = य-दधि + ओदनः = दध्योदनः । इ + औ = य-अति + औदास्यम् = अत्यौदास्यम् । ई + ओ = य-देवी + ओजः = देव्यौजः । ई + औ = य-सखी + औपम्यम् = सख्यौपम्यम् ।

२ उ + अ = व-वस्तु + अत्र = वस्वत्र । उ + आ = व-लघु + आचारः = लघ्वाचारः । ऊ + अ = व-वधू - अन्वेषणम् = वध्वन्वेषणम् । ऊ + आ = व-वधू + आगमनम् = वध्वागमनम् । उ + इ = व-लघु + इन्दुः = लघ्विन्दुः । उ + ई = व-मधु + ईशः = मध्वीशः । ऊ + इ = व-ततू + इन्द्रः = तन्विन्द्रः । ऊ + ई = व-वधू + ईक्षणम् = वध्वीक्षणम् । उ + ऋ = व-लघु + ऋणम् = लघ्वृणम् । उ + ऋ = व-सु + ऋकारः = स्वृकारः । उ + लृ = व-मधु + लृतः = मध्व्लृतः । उ + ए = व-अनु + एषणम् = अन्वेषणम् । उ + ऐ = व-साधु + ऐक्यम् = साध्वैक्यम् । ऊ + ए = व-वधू = एका = वध्वैका । ऊ + ऐ = व-ततू + ऐश्वर्यम् = तन्वैश्वर्यम् । उ + ओ = व-साधु + ओकः = साध्वोकः । उ + औ = व-लघु + औदार्यम् = लघ्वौदार्यम् । ऊ + ओ = व-हन्तू + ओषधिः = हन्त्वोषधिः । ऊ + औ = व-करभू + औडलोमिः = करभ्वौडलोमिः ।

३. ऋ + अ = र-पितृ + अर्थम् = पित्रर्थम् । ऋ + आ = र-मातृ + आकृतिः = मात्राकृतिः । ऋ + अ = र-कृ + अर्थम् = क्रर्थम् । ऋ + आ = र-कृ + आकृतिः = काकृतिः । ऋ + इ = र-मातृ + इच्छा = मात्रिच्छा । ऋ + ई = र-पितृ + इहितम् = पित्रोहितम् । ऋ + उ = र-पितृ + उदकम् = पित्रुदकम् । ऋ + ऊ = र-मातृ + जनः = भ्रात्रुनः । ऋ + ए = र-धातृ + एवम् = धात्रेवम् । ऋ + ऐ = र-मातृ + ऐश्वर्यम् = भ्रात्रैश्वर्यम् । ऋ + ओ = र-जामातृ + ओकः = जामात्रोकः । ऋ + औ = र-पितृ + औदार्यम् = पित्रौदार्यम् ।

४. लृ + अ = ल-लृ + अर्थम् = लर्थम् । लृ + आ = ल-लृ + आकृतिः = लाकृतिः ।

### ( ६ ) एवोऽयवादावः—

‘एच्’ प्रत्याहारके बाद ‘अच्’ प्रत्याहार रहे तो एच्—(ए ओ ऐ औ) के स्थानमें, क्रमसे अच्, अच्, आय्, आव् आदेश हों ।

## उदाहरण—

१. ए + अ = अय्—ने + अनम् = नयनम् । ए + आ = अय्—रमे + आ = रमया । ए + इ = अय्—शे + इत् = शयितः । ए + ई = अय्—शे + ईत् = शयोत् । ए + उ = अय्—मृगे + उः = मृगयुः । ए + ऊ = अय्—मे + ऊरः = मयूरः । ए + ऋ = अय्—गृहे + ऋत्विक् = गृहयात्विक् । ए + लृ = अय्—वने + लृत्कः = वनयलृत्कः । ए + ए = अय्—हरे + ए = हरये । ए + ऐ = अय्—शे + ऐ = शये । ए + ओ = अय्—वने + ओः = वनयोः । ए + औ = अय्—से + औ = सयौ ।

२. ऐ + अ = आय्—रै + अकः = रायकः । ऐ + आ = आय्—रै + आन् = रायाम् । ऐ + इ = आय्—रै + इत् = शायितः । ऐ + ई = आय्—रै + ईशः = रायाशः । ऐ + उ = आय्—ऐ + उः = आयुः । ऐ + ए = आय्—रै + ए = राये । ऐ + ओ = आय्—रै + ओः = रायोः । ऐ + औ = आय्—सखै + औ = सखायौ ।

३. औ + अ = अव्—भो + अनम् = भवनम् । औ + आ = अव्—गो + आन् = गवाम् । औ + इ = अव्—गो + इ = गवि । औ + ई = अव्—और्णो + ईत् = और्णवीत् । औ + उ = अव्—अजुहो + उ = अजुहवुः । औ + ए = अव्—गो + ए = गवे । औ + ओ = अव्—गो + ओः = गवोः ।

४. औ + अ = आव्—गौ + अकः = पात्रकः । औ + आ = आव्—ग्लौ + आ = ग्लावा । औ + इ = आव्—अभौ + इ = अभवि । औ + उ = आव्—अदादौ + उच्चन्ताम् = अदादावुच्चन्ताम् । औ + ऊ = आव्—भ्वादाँ + ऊचुः = भ्वादावुचुः । औ + ए = व्—ग्लौ + ए = ग्लावे । औ + ओ = आव्—गौ + ओः = गावोः । औ + औ = आव्—गौ + औ = गावौ ।

( १० )

अत्रर्णोर्भक्त्यदादावकार-वकारका लोप हो, विकल्पसे अशके परे । यहाँ लोप होने पर सन्धि नहीं होती है । )

## उदाहरण—

१. हरे + इह = हर इह—हरविह ।
२. विष्णोः + इह = विष्ण इह—विष्णविह ।



३. देव्यै + अर्पय = देव्या अर्पय देव्यायर्पय ।  
 ४. रशी + अस्तङ्गते = रशा अस्तङ्गते रशावस्तङ्गते ।

(११) एङः पदान्तादति—

जड़के अन्तमें स्थित 'एङ्' के बाद 'अत्' (ह्रस्व अकार) रहे तो अकारका पूर्वरूप होता है अर्थात् श्रवणाभाव हो जाता है ।

उदाहरण—

१. हरे + अव = हरेव । मुने + अत्र = मुनेत्र ।  
 २. विष्णो + अव = विष्णोव । गुरो + अव + गुरोव ।

(१२) अवङ् स्फोटायनस्य—

अच् परे रहने पर पदान्त विषयमें एङन्त गोशब्दको अवङ् आदेश हो, विकल्पसे ।

(१३) सर्वत्र विभाषा गोः—

अत् ( ह्रस्व अकार ) परे रहने पर पदान्त एङन्त गोशब्द ( गोशब्दाक्षय ओकार) को विकल्पसे प्रकृतिभाव हो अर्थात् सन्धि नहीं हो ।

नोटः—अच् परे रहने पर पदान्तमें स्थित गोशब्दके ओकारको १२ वाँ सूत्रसे 'अवङ्' आदेश होकर १ ला सूत्रसे सवर्ण दीर्घ हो जाता है अथवा १३वाँ सूत्रसे प्रकृतिभाव होता है ( ज्यों का त्यों रह जाता है ) अथवा ११ वाँ सूत्रसे अकारका पूर्वरूप होजाता है ।

उदाहरण—

गो + अग्रम् = गवाग्रम्—गो अग्रम्—गोग्रम् ।

(१४) इन्द्रे च—

इन्द्र शब्द परे रहने पर गो शब्दके ओकारको नित्य ही, 'अवङ्' होता है ( अवादेश होने पर अ-इ मिलकर गुण ए होजाता है । )

उदाहरण—

गो + इन्द्रः = गवेन्द्रः ।

२ स० च०

## ( स्वरसन्धि—निषेधप्रकरण )

### ( १ ) दूराद्धूते च—

दूरसे सम्बोधन (नामोच्चारणकर पुकारने, में प्रयुक्त वाक्यको टि की विकल्प से प्लुत हो (अर्थात् कोई भो सन्धि नहीं हो केवल प्लुतका चिन्ह (३) रह जाय)

उदाहरण—

आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्वरति । भो मित्र (३) इन्दुमतां त्वां नमस्करोति ।

### ( २ ) ईदूदेद्धिवचनं प्रगृह्यम्—

स्वर वर्ण परे रहनेपर द्विवचन में निष्पन्न—ईकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त पदकी सन्धि नहीं होती ।

उदाहरण—

१. हरी + एतौ = हरी एतौ ! कवी + आगच्छतः = कवी आगच्छतः ।

२. विष्णु + इमौ = विष्णु इमौ । ऋतू + अतांती = ऋतू अतीती ।

गङ्गे + अमू = गङ्गे अमू । बालिके + उच्चलतः = बालिके उच्चलतः ।

### ( ३ ) अदसो मात्—

स्वरवर्ण परमें रहने पर अदस् शब्द निष्पन्न 'अमी' और 'अमू' पदकी सन्धि नहीं होती ।

उदाहरण—

१. अमी + ईशाः = अमी ईशाः । अमी + अश्नन्ति = अमी अश्नन्ति ।

२. रामकृष्णावमू + आसाते = रामकृष्णावमू आसाते । अमू + अत्तः = अमू अत्तः ।

### ( ४ ) ओत्—

स्वरवर्ण परे रहनेपर ओकारान्त निपात । (अव्यय) को सन्धि नहीं होता ।

उदाहरण—

अहो + ईशाः = अहो ईशाः । अहो + आश्चर्यम् = अहो आश्चर्यम् ।

### ( ५ ) निपात एकाजनाङ्—

एक स्वर मात्र निपात ( अव्यय ) की सन्धि नहीं होती ।

उदाहरण—

अ × अच्युतः = अ अच्युतः । आ × अर्धं किलतत् = आ एवं किल तत् ।  
इ × इन्द्रः = इ इन्द्रः । उ × उनेमः = उ उनेमः ।

नोटः—ईषत् ( अल्प ) अर्थ समझने से एवं क्रिया के साथ योग होनेसे तथा मर्यादा और अभिविधि अर्थ से एक स्वर मात्र निगत होते हुए भी आइ ( आ ) की सन्धि होती है । इसी लिए उपर्युक्त सूत्रमें 'अताइ' (आइवृजित) कहा गया है ।

उदाहरण—

१. ईषत् अर्थमें—आ × उष्णम् = ओष्णम् ( योडा नर्म )
२. क्रिया के योगमें—आ × इहि = एहि । ( आओ )
३. मर्यादा ( सीमा ) अर्थमें—आ × अम्बुधेः = आम्बुधेः ( समुद्रतक )
४. अभिविधि ( मर्यादाका प्रभेद 'व्याप्ति' अर्थमें—आ × एकदेशात् = एकदेशात् ( एकदेश व्यापकर )

सन्धि करो—

१. त्रिपुर × अरिः । महा + आलयः । अभि + इष्टम् । प्रति + ईक्षणम् ।  
मातृ + उदयः । तनू + उर्ध्वम् । पितृ + ऋणम् ।
२. देव + इन्द्रः । गण + ईशः । यथा + इति । उमा + ईशः । हित + उप-  
देशः । एक + ऊनविंशतिः । गङ्गा × उत्तरम् । महा + अरुः । शुभ्र +  
ऋषिः । ह्रस्व + लृकारः ।
३. जन + एकता । महा + ऐश्वर्यम् । जल + ओषः । सुखस्य + औपयिकम् ।
४. अव + एति । प्र + एघते । विश्व + ऊहः ।
५. प्र × ऋणोति । उप + ऋच्छन् ।
६. अव + एजते । उप + एजते । प्र + ओपति ।
७. का + ओम् । या + ओम् । अद्य + ओढा । कदा + ओढा । अव + एहि ।  
अद्य + अश्यात् ।
८. दधि + अत्र । वस्तु + इदम् । बधू + आननम् । सुधी + ऊहितम् ।  
मातृ + अर्थम् । गम्लु + अर्थम् ।
९. चे + अनम् । लो + अनम् । चै + अकः । स्ती + अकः । मुने + ए ।

- गुरो + ए। के + एते। अचै + इ। अलौ + इ। गुरौ + उत्कः। हरौ + औत्सुक्यम्। व्ये + एते।
१०. के + आसते। अस्मै + उद्धर। श्रियै + उद्यतः। द्वौ + अत्र। असौ + आदित्यः। हरे + इह। विष्णो + इह।
११. वायो + अत्र। कवे + अव। विभो + अव। हरे + अत्र।
१२. गो + अजिनम्। गो + ईशः। गो + उष्ट्रम्। गो + ओदनम्। गो + अक्षः। गो + अञ्जी। गो + अक्षु। गो + अग्।
१३. गो + अश्वम्। गो + अजिनम्। गो + अञ्जा। गो + अक्षु।

### विच्छेद करो—

१. शशाङ्कः। रत्नाकरः। लतान्तः। दधीव। लक्ष्मीशः। महीन्द्रः। क्षितीशः। विष्णुदयः। भूर्ध्वम्। ऊरुद्भवः। गुरुहः।
२. महेन्द्रः। देवेशः। ययेति। महेश्वरः। व्याघ्रोत्पातः। इतोर्ध्वम्। महोष्णम्। विद्योतः। हिमत्तुः। देवर्त्तः। महर्कारः। तवल्कारः। अल्कारः।
३. पञ्चैते। शुद्धैरावती। सैवम्। विद्यैश्वर्यम्। तवोदनः। चित्तौदास्यम्। महोचित्यम्।
४. अपैति। अवैषते। विश्वोहः।
५. प्राच्छन् उपाणोति।
६. प्रेषयति। अवोषति।
७. अवेहि। रामेहि।
८. अत्यव्यक्तः। ह्यर्गमनम्। नद्यम्बु। लक्ष्म्यागमनम्। मुन्युचितम्। इत्यूर्ध्वम्। सख्युपदेशः। नद्युष्णा। अत्युजुः। देश्युणम्। नद्योवम्। अद्यैरावती। लक्ष्म्येकता। पत्यैपमः। अद्योङ्कारः। अत्यौशरिकः (भूखसे व्याकृल)। नद्योषः। देव्यौदार्यम्। तन्वङ्गी। स्वागतम्। वध्वाचारः। चञ्च्वाघातः। साध्वदम्। धेन्वीरितः। सुअर्वाङ्कः। वध्वैवयम्। धेन्वोकः। जामात्रयम्। आत्रागमनम्। कर्त्रिदम्। दुहित्रीहितम्। आत्रुपकारः। प्रशास्त्रूर्ध्वम्। आत्रेकान्तः। पित्रैश्वर्यम्। पित्रोदनम्। कर्त्रौत्सुक्यम्। लर्थम्। लानय।
९. जयति। शयिष्यते। गृह्युदकम्। भूनतये। अनयोः। रायी। ग्लायति। मुनयागच्छ। सर्वस्मायिदम्। मायुः ( पित्त ) ग्लायेः। स्तवनम्। हविः।

- गवुत्सवः । गवैश्वर्यम् । स्मृतावौ । स्तावकः । स्मृतावा । श्रावयिष्यति ।  
 भावुकः । गवे । जनानौ ।
१०. ययिह । श्रियायुद्यतः । विधावुदिते ।  
 ११. केपि । देवोपि । पण्डितोसौ ।  
 १२. गवायनम् । गवोद्धः ।  
 १३. गवेन्द्रः ।  
 १४. एहि मित्र ३ अत्र पठेव । आगच्छ राम ३ इह मैथिली पुष्पं सञ्चिनोति ।  
 १५. कवी इमौ । शम्भू आगच्छतः । बालिके अधीयाते ।  
 १६. अमी अश्नन्ति । अमू आस्ताम् ।  
 १७. अथो अपि । अहो आगतः ।  
 १८. आ एवं नु मन्यसे । उ उमेशः ।

### शुद्ध करो—

रामात्र एहि, विष्णुभौ, कवीभौ, मृताण्डः, दिगेशः, स्वेरः, उपरोक्तम्, दिवो-  
 कसः, अक्षोहिणी, प्रोढः, सुखर्तः, प्रैजते, केशवौर्ध्वम्, तवैदम्, प्रैषयति, रामैहि,  
 उपैतः, प्रैपः, अवैहि, मालाच्छति, प्राच्छकः, देवोजः, बालांपति मालेजते, रामेति,  
 वेधसायोनमः, विष्णवायोनमः, वस्त्वुदकम्, दञ्चिदम्, पित्रणम्, रयोशः, गविन्द्रः,  
 भवुकः, देव अतति । हरौऽव, विष्णौऽव, चेऽनम् । गवै, चित्रगवाप्रम्, गो उष्ट्रम्,  
 गो ईशः, गो उद्धः ।

— X —

### व्यञ्जन-सन्धि

व्यञ्जन वर्णके साथ व्यञ्जन अथवा स्वर वर्णके मेलको 'व्यञ्जन—सन्धि' कहते हैं । यथा—तत् टीका = तट्टीका । तस्मिन् इति = तस्मिन्निति ।

(१) स्तोऽच्युताश्चुः—

सकार और तवर्गके स्थानसे सकार और चवर्गके वीग होनेपर (आगे या पीछे रहनेपर) दन्त्य सकारके स्थानसे तालव्य सकार और तवर्गके स्थानसे चवर्ग\* होता है ।

\*'शात्' सू० । सकारसे पर तवर्गको चवर्ग नहीं होता । यथा—विश्नः, प्रश्नः ।

उदाहरण—

रामस् + वीते = रामव्योते । रामस् + विनोति × रामविचनोति ।  
तत् + शिवः = तच्छिवः ।

सत् + चित् = सच्चित् । तत् + छविः = तच्छविः । एतद् + जलम् =  
एतज्जलम् । शार्ङ्गिन् + जय = शार्ङ्गिञ्जय ! तत् + झनत्कारः = तज्झ-  
नत्कारः । याच् + ना = याच्ना । यज् + नः = यज्ञः ।

( २ ) घृना घृः—

पकार या टवर्गके योगमें ( आगे या पीछे रत्नेपर ) दन्त्य सकारके स्थानमें  
मूर्धन्य पकार और तवर्गके स्थानमें यथाक्रमेण टवर्गः होता है ।

उदाहरण—

रामस् + पष्ठः = रामप्पष्ठ । रामस् + टीकते = रामष्टीकते ।  
तत् + टीका = तट्टीका । अग्निचित् + ठकारः = अग्निचिट्ठकारः । सोम-  
सुत् + डोनः = सोमसुड्डीनः । अद् + डति = अड्डति । चक्रिन् + डौकसे =  
चक्रिण्डौकसे । पेप् + ता = पेष्टा । अधिद् + धाता = अधिष्टाता ।

( ३ ) झलां जघोन्ते—

पदान्तमें † स्थित 'झल्' प्रत्याहारके स्थानमें 'जघ्' प्रत्याहार होता है ।

उदाहरण—

वाक् × ईशः = वागीशः । अच् + अन्तः = अजन्तः । पद् + विद्वांसः =  
पड्विद्वांसः । जग्त् + ईशः = जगदीशः । तत् + धनम् = तद्धनम् । युध् +  
भ्याम् = युद्भ्याम् । अप् + भाण्डः = अठभाण्डः ।

( ४ ) झयो होऽन्यतरस्याम्—

'झय्' प्रत्याहारके बाद आते इ-अ-उ-ए-ओ-को छोड़कर वर्गके किसी

\* 'न पदास्ताद्वोरनाम्' सू० । 'अनाम्-नवति-नगरीणामिति वाच्यम्' बा० ।  
पदान्त टवर्गमें पर ताम् नवति और चारों स्थित टवर्गके लकार और तवर्ग के  
स्थानमें घृत्व नहीं होता । अर्थात्— पद सप्तः, पद सः ।

† 'झलां जघ झयि' सू० । यदि अ पदान्तमें 'झल्' वर्गके पर 'झय्' वर्ण हो तो  
'झल्' के स्थानमें 'जघ्' ( वर्गका तीसरा ) होजाता है । 'सु ध् ध् य् उपास्यः'  
ऐसी स्थिति में 'ध्' को 'इ' होकर सु इ ध् य् उपास्यः' ऐसा बनता है ।

भी वर्णके आगे 'ह' रहे तो उस वर्णके स्थानमें उसी वर्णका तृतीय वर्ण ( ग्-ज्-झ-ञ्-ड-ढ-ड-ब् ) और 'ह' के स्थानमें क्रमसे उसी वर्णका चतुर्थ वर्ण ( ध्-झ-झ-घ-भ् ) विकल्पसे होता है ।

उदाहरण—

वाक् + हरिः = वाग्धरि-वाग्हरिः । तत् + हितम् = तद्धितम्-तद् हितम् ।  
तत् + हननम् = तद्धननम्-तद्हननम् । विमत् + हेतुः = विपद्धेतुः-विमद् हेतुः ।  
अच् + ह्रस्वः = अज्जह्रस्वः-अज् ह्रस्वः । षट् + हलानि = षड्ढलानि षड्ढलानि ।  
अप् + हरणम् = अब्भरणम्—अब् हरणम् ।

( ५ ) खरि च—

'खर्' परमें हो तो 'झर्' के स्थानमें 'वर्' ( क्-च्-ड-त्-प् ) होता है ।

उदाहरण—

१. उद् + धानम् = उत्थानम् । २. उद् + तम्भनम् = उत्तम्भनम् ।  
३. उद् + थापकः = उत्थापकः । दिग् + पालः । सम्पद् + कामः = सम्प-  
त्कामः । विराड्-पुरुषः = विराट्पुरुषः ।

( ६ ) तोलिः—

तवर्गना 'त्-द्-न्' अक्षरके बाद 'ल' रहे तो त्-द् के स्थानमें 'ल्' और 'न्' के स्थानमें सानुनासिक 'लँ' होता है ।

उदाहरण—

तत् + लयः = तललयः । तद् + लीनः = तल्लीनः । विद्वान् + लिखति =  
विद्वालँ लिखति ।

( ७ ) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा—

पदान्त 'यर्' से पर अनुनासिक वर्ण हो तो 'यर्' के स्थानमें विकल्पसे अपने वर्णका अनुनासिक वर्ण होजाता है ।

नोट—वर्णका पञ्चम ( ड्-झ-ण्-न्-म् ) वर्ण परमें रहनेसे पदके अन्त में विद्यमान वर्णका प्रथम वर्ण ( क्-च्-ड-त्-प् ) के स्थानमें उसी वर्णका पञ्चम वर्ण और तदभावसे तृतीय वर्ण होता है । परन्तु प्रत्यय परमें रहनेपर ( 'प्रत्यये आषायां नित्यम्' वा० से ) सिर्फ पांचवा वर्ण ही होता है ।

उदाहरण—

दिक् + नागः = दिङ्नागः-दिङ्नागः । षट् + मासाः—षण्मासाः--षड्-  
मासाः । एतत् + मुरारिः = एतन्मुरारिः--एतद्मुरारिः । अप् + मग्नः =  
अम्मग्नः-अब्मग्नः ।

प्रत्ययपरे रहने पर—तत् + मात्रम् = तन्मात्रम् ( मात्रच् प्रत्ययान्त )  
चित् + मयम् = चिन्मयम् ( मयट्प्रत्ययान्त । )

( ८ ) मोऽनुस्वारः—

व्यञ्जन वर्ण परमें रहनेपर पदके अन्तमें स्थित 'म्' के स्थानमें अनुस्वार  
होता है \* ।

उदाहरण—

हरिम् + वन्दे = हरिं वन्दे । पुष्पम् + सिञ्चति = पुष्पंसिञ्चति । गृहम् +  
गच्छति = गृहं गच्छति । ईश्वरं + भजति = ईश्वरं भजति ।

( ९ ) नश्चाऽयदान्तस्य झलि—

'झल्' परे रहनेपर अपदान्त में स्थित 'न्' और 'म्' के स्थानमें अनुस्वार  
हो जाता है ।

उदाहरण—

आक्रम् + स्यते = आक्रंस्यते । रम् + स्यते । रंस्यते । यशान् + सि =  
यशांसि । दन् + शनम् = दंशन्सम् ।

\*अपवाद—(क) 'सो राजि समः क्वौ' 'क्वप्' प्रत्ययान्त राजघातु परे होनेपर  
'सम्' के मकारके स्थानमें मकार ही आदेश होता है अर्थात् अनुस्वार नहीं होता ।  
यथा—सम् + राट् = सम्राट् ।

(ख) 'हे मपरे वा' । मकार परक हकार परमें होता मकारके स्थान में विकल्प  
से अनुस्वार होता है । यथा--किम् + ह्यालयति = किं ह्यालयति--किम् ह्यालयति ।

(ग) 'यवलपरे यवला वा' वा० । यकार, वकार और लकार परक हकारके  
पूर्व पदान्त मकार के स्थानमें विकल्पसे क्रमिक सानुनासिक यं-वं-लं हो जाता  
है । यथा--किम् + ह्यः = कियैह्यः--किह्यः । किम् + ह्यलयति = कियैह्यलयति--  
किह्यलयति । किम् + ह्यालयति = किल्ल्यालयति--किल्लयति ।

(घ) 'नपरे नः'—नकार परक हकार परे हो तो पदान्त मकार के स्थान में  
विकल्पसे नकार हो जाता है । यथा—किम् + ह्यते = किन्ह्यते--किह्यते ।



( १ ) अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः—

पदके मध्यमें स्थित अनुस्वार के बाद जिस वर्गका वर्ण रहता है अनुस्वारके स्थानमें उसी वर्गका पंचम वर्ण होजाता है ।

उदाहरण—

आशं + कते = आशङ्कते । वां + छति = वाञ्छति । उत्कं + ठते = उत्कण्ठते । शां + तः = शान्तः । पं + फुल्यते = पम्फुल्यते ।

( ११ ) वा पदान्तस्य—

पदान्तमें स्थित अनुस्वारसे पर 'यच्' प्रत्याहारकः कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वारके स्थानमें परसवर्ण अर्थात् परवर्णके वर्गका पांचवाँ अक्षर और परमें य् - ल् - व् हो तो क्रमिक अनुनासिक विशिष्ट य्-ल्ल् - व्व् विकल्पसे होता है ।

उदाहरण—

१. त्वं × करोषि = त्वङ्करोषि-त्वं करोषि । पुष्पं × चिनोति + पुष्पञ्चिनोति-पुष्पं चिनोति । ऊर्ध्वं × डीयते = ऊर्ध्वण्डीयते-उर्ध्वं डीयते । धनं × ददाति = धनन्ददाति-धनं ददाति । पुस्तकं × पठति = पुस्तकम्पठति-पुस्तकं पठति ।

२. सं × यन्ता = सय्यन्ता-संयन्ता । यं × लोकम् = यल्लोकम् यंलोकम् । वशं × वदः = वशव्वदः-वशां वदः । सम् × वत्सरः = सव्वत्सरः—संवत्सरः ।

( १२ ) नञ्छव्यप्रशान्—

'अम्' परक 'छव्' प्रत्याहार परे रहनेपर प्रशान् भिन्न नान्त पदके स्थानमें ह \* आदेश होता है ।

नोट—'प्रशान्' शब्दको छोड़कर अन्यत्र यदि पदान्तमें 'न्' रहे और उसके बाद च्-छ् ट्-ठ्-त्-थ् रहे तो 'न्' को स्त्व होकर च्-छ्-ट्-ठ्-त्-थ् के स्थान में क्रमसे च्-च्छ्-ट्-ठ्-त्-थ् तथा उसके पूर्व अनुनासिक अथवा अनुस्वार हो जाता है ।

\* 'ह' होनेके पश्चात्—'अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा" इससे अनुनासिक हो जाता है अथवा "अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः" से पूर्ण वर्ण को अनुस्वार का आगम होता है और "खरवसानयोर्विसर्जनीयः" से रेफको विसर्ग होजाता है । विसर्गके

उदाहरण—

गच्छन् + चकोरः = गच्छँश्चकोरः-गच्छँश्चकोर । महान् + छेदः =  
महाँश्छेदः-महाँश्छेदः । महान् + टीकाकारः = महाँष्टीकाकारः-महाँष्टीका  
कारः । महान् + ठक्कुरः = महाँष्ठक्कुरः-महाँष्ठक्कुरः । चक्रिन् + त्रायस्व =  
चक्रिँस्त्रायस्व-चक्रिँस्त्रायस्व । क्षिपद् + धुत्कारः = क्षिपँस्थूत्कारः-  
क्षिपँस्थूत्कारः

( १३ ) तश्च—

नान्न पदमे पर वन्त्य सकारसे पूर्व विकल्पसे घकार आजाता है और  
घकारको चर्त्तव्य तकार हो जाता है ।

उदाहरण—

सन् + सः = सन्त्सः सन्त्सः । मतिमान् + सन्तरति = मतिमान्त्सन्त-  
रति- मतिमान्त्सन्तरति ।

( १४ ) शि तुक्—

पदान्त तकारसे पर तालव्य शकार हो तो तकारके आगे विकल्पसे तकार  
आ जाता है ।

नोट—तकारका आगम होनेपर प्रथम सूत्रसे 'त्' को च् और 'न्' को इत्त्व  
'ज्' होता है और तदुपरान्त २० वां सूत्रसे शकारको विकल्पसे छकार होता है  
और छकार होनेपर चकारका विकल्पसे लोप \* हांजाता है ।

उदाहरण

सन् + शम्भुः = सञ्छम्भुः-सञ्छम्भुः--सञ्चशम्भुः--सञ्चशम्भुः ।

बाद—'विमर्जनीयस्य सः' से विसर्गके स्थानमे 'स' होता है । तदनन्तर-सन्भावना  
रहनेपर चर्त्तव्य इत्त्व और कहीं घृत्व होता है । इसी तरह कार्यको ऊपर 'नोट' करके  
बतलाया गया है । याद रहे कि जहाँ कहीं किसी वर्णके आगे किसी वर्णको 'ह'  
होगा वहाँ उपर्युक्त विमर्ग, सत्त्व और अनुनासिक अथवा अनुस्वार अवश्य होगा ।

नोटः—'ह' की प्रकरण है । एक अष्टक अक्षराके द्वितीयाक्षरमे 'ससञ्जुवो  
वः' और दूसरा अष्टक अक्षराके तृतीयाक्षरमे आरम्भका 'सन्तुवो वः सम्बुद्धौ  
छन्दसि' से 'सनात्रोडिभ' लगता है । इस द्वितीय अक्षरके सूत्राक्षर ही विहित 'ह'  
से पूर्व वर्णको अनुनासिक या अनुस्वार होता है । ऐसा सम्भ्रम चाहिये ।

\*लोप विधायक सूत्र—'शरो हरि सर्षो'—हल् से पूर्व शर्षा लोप हो  
सर्वर्ष शर के परे विकल्पसे ।

( १५ ) नृन् पे—

यदि प्रकार परे हो तो नृन्के तकारको विकल्पसे र (र्) होता है ।

( १६ ) कुप्वोः क पौ च ॐ—

कवर्ग या पवर्ग ( क, ख, प, फ ) परे हो तो विसर्गके स्थानमें विकल्पसे अर्ध विसर्ग ( ॐ ) होता है ।

नोट—रुत्व होनेपर १२ वां सूत्रोक्त (नोट) रीत्या अनुनासिक या अनुस्वार होनेके पश्चात् रेफको विसर्ग हो जाता है और विसर्ग होनेपर १६वां सूत्रकी प्राप्ति होती है ।

उदाहरण—

१. नृन् + पाहि = नृ पाहि-नृ पाहि-नृः-नृः पाहि-नृन्पाहि ।

२. ( कवर्गपरकका उदाहरण विसर्गसन्धिमें देखो )

( १७ ) समः सुटि—

‘सुट् ( सुट् के सकार ) परमें होनेपर ‘सम्’ के मकारको र (र्) होता है ।  
नोट—र (र्) होनेपर उससे पूर्व अकारको अनुनासिक वा अनुस्वार और रेफको विसर्ग होकर स् ङ हो जाता है ।

उदाहरण—

सम् + स्कृता = संस्कृता-संस्कृता । सम् + स्कारः = संस्कारः-संस्कारः ।

( १८ ) पुमः खय्यम्परे—

‘अम्’ परक ‘ख्य् परमें होनेपर पुम्के मकारके स्थानमें र (र्) होता है ।  
नोट—र होनेके बाद अन्य कार्य ‘सम् + स्कृता’ के समान होते हैं परन्तु सम्भावना रहनेपर कहीं वचुत्व और कहीं ष्टुत्व भी हो जाता है ।

उदाहरण—

पुम् + कोकिलः = पुँस्कोकिलः-पुँस्कोकिलः । पुम् + खनित्रम् = पुँस्खनित्रम्-पुँस्खनित्रम् । पुम् + चोरित्रम् = पुँस्चोरित्रम्-पुँस्चोरित्रम् । पुम् + टोका = पुँष्टीका = पुँष्टीका ।

\* इस सूत्रको विसर्ग सन्धिप्रकारणमें भी देखो ।

† सकार विधायक वार्तिक—‘संपुंक्तानां सो वक्तव्यः ।

## ( १९ ) डमो ह्रस्वादति डमुण् नित्यम्—

स्वर वर्ण परमें रहनेसे ह्रस्व स्वरके बाद पदान्त ड्-ण्-न्के स्थानमें द्वित्व (दो) ड्-ण्-न् हो जाता है ।

उदाहरण—

प्रत्यङ् × आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण् + ईशः = सुगण्णीशः ।  
सन् + अच्युतः = सन्नच्युतः ।

## ( २० ) शरछोऽटि—

पदके अन्तमें स्थित ज्य् प्रत्याहारके बाद तालव्य शकार हो तो शकारके स्थानमें विकल्पसे छकार होता है, अट्के परे ।

नोट—शकारके पूर्व तवर्ग रहनेसे तवर्ग को श्चुत्व होकर चवर्ग हो जाता है ।

उदाहरण—

तद् + शिवः = तच्छिवः-तच्छिवः । वाक् + शूरः = वाक्छूरः-वाक्शूरः ।

## ( २१ ) छे च—

ह्रस्वसे पर तुक् ( त् ), हो, छकार के परे ।

## ( २२ ) दीर्घात्—

दीर्घसे पर तुक् ( त् ) हो, छकारके परे ।

नोट—तुक् होनेके बाद 'त्' को श्चुत्व होकर च् होता है अर्थात्—स्वर वर्णके बाद 'छ' रहनेसे छ्के स्थान में 'च्छ' हो जाता है ।

उदाहरण—

२१. शिव + छाया = शिवच्छाया । २२. आ + छादयति = आच्छादयति ।

सन्धि करो

१. छष्णस् + शोने । तप्त + चिनोति । त्वयस् + छन्नः । सत् + चित्रम् । तद् + छविः । विपद् + बालम् । धीमन् + जप । बृहद् + शटिका । राज् + ना । जञ् + माने ।
२. त्रयम् + पट्टयति । वेत्रम् + टीकते । मत् + टीका । एतत् + उक्कुरः । महान् + इमरः । जगद् + टक्का । इप् + तः । षप् + धः ।
३. दिक् + अम्बरः । षट् + दर्शनम् । तत् + भवनम् । क्षुष् + भ्याम् । अप + अब्जम् ।

४. दिक् + हस्ती । अच् + हली । रत्नमुट् + हरति । ईषत् + हसितम् । सम्पद् + हर्षः ।
५. उद् + स्थापयति । भेद् + तुम् । लभ् + स्यते । दिक् + रक्षकः ।
६. महत् + लावण्यम् । एतद् + लीला । महान् + लामः ।
७. दिक् + मुखः । पट् + मुखोऽवतरति । मत् + मित्रम् । अप् + नायकः ।
८. पुस्तकम् + पठति । देवम् + भजति । दिव्यम् + सरः ।
९. पयान् + सि । संगम् + स्यते । जिवान् + सति । वृन् + हितम् ।
१०. अ + कितः । अं + चितम् । लुं + ठितः । गं + तव्यम् । गुं + फितः ।
११. कार्यं + करोति । इदं + चित्रम् । अयं + डप्ररुः । नदी + तरति । इदं + पुष्पम् । सं + पतति । ग्रामं + याति । घनं + लभते । हरि + वन्दे ।
१२. कस्मिन् + चित् । केशान् + छिनत्ति । महान् + टकारः । घीमान् + ठक्कुरः । महान् + तडागः । महान् + धुत्कारः ।
१३. घनवान् + स्वपिति । बुद्धिमान् + सहते ।
१४. मतिमान् + शोभते । अप्रज्ञावान् + शत्रुः ।
१५. नृन् + पालय । नृन् + प्रतिगच्छ ।
१६. सन् + स्कृतम् ।
१७. पुम् + कार्यः । पुम् + छविः ।
१८. प्रत्यङ् + आस्ते । सुगम् + अस्ति । हसन् + आगतः ।
१९. मनाक् + शूरः । जगत् + शान्तिः । त्वत् + स्वगुरः । अच् + शेषम् ।
२०. तरु + छाया । चे + छिद्यते । आ + छाद्यम् ।

### विच्छेद करो—

१. पयशीतम् । देवश्चिनोति । महच्चक्रम् । शरच्छटा । जगज्जीवनम् । राजञ्जय । वृहज्जरः । राज्ञी । जज्ञे ।
२. देवष्पष्टः । वृक्षष्टीकते । अग्निचिट्टीकते । उड्डयनम् । एतड्डकका । महाण्ड-सरः । राजण्डौकसे । हृष्टः । पुष्टः ।
३. वाग्दानम् । दिगीशः । अजन्तः । वषडिन्द्राय । अब्भाजनम् ।
४. वसिग्घसति । उद्धरणम् । ददधसति । तद्धेयम् ।
५. उत्तम्भते । छेतुम् । विराट् राजा । दिक्पालः ।

६. एतल्लय जगल्लीयते । ग्रन्थाल्लैलाति ।  
 ७. धिङ्मूर्ख ? । पण्णाम् जगन्निस्तारः । ककुम्नायकः ।  
 ८. ग्रामं शास्ति । रामं हासयति । तं हन्ति ।  
 ९. सरांसि । अक्रंस्यते । ध्वंस्यते । भ्रंस्यते ।  
 १०. अकितः । सञ्चिनम् । कुण्ठितः । क्षन्तध्यम् । शम्भुः ।  
 ११. मधुरङ्गायति । आम्रञ्चिनोति । कथण्डीयते । शङ्खन्धमति । रामम्भजति ।  
 देवयुं यजति । दिव्यल्लोकम् । सव्वत्सरः ।  
 १२. भास्वीश्वन्द्रः । महाँछेदः । उद्यंष्टङ्कारः । भवाँष्टकुरः । महाँस्तरः ।  
 महाँस्यकारः ।  
 १३. विद्वान्त्सहते । जलवान्त्सरोवरः ।  
 १४. विद्रुञ्छोभते । शिम्बूच्छायति ।  
 १५. नृप्रतपेधति । नृप्रतिकरोति ।  
 १६. संस्करोति ।  
 १७. पुँस्कर्व्यः । पुँश्चमत्कारः । पुँष्टिद्विभः ।  
 १८. धावन्नपतत् । एकस्मिन्नहनि । हसन्नागतः ।  
 १९. यावच्छक्यम् । विश्वमृच्छेते । मच्छरीरम् । षट्छ्यामाः ।  
 २०. वृक्षच्छाया । स्वच्छात्रः ।

### शुद्ध करो—

कृष्णश्चेते । तत्छविः । अधिस्थाता । ददत्क्षसति । महान्नात्मा । विषयान्नाह । जगत्नायकः । संचितः । गंगाजलम् । यम्लोकम् । गच्छचकोरः । मतिमान्छान्तः । पुङ्खनित्रम् । वाच्छूरः । वाक्मात्रेण । वटच्छाया ।

— × —

### विसर्ग—सन्धि

( १ ) खरवसानयोर्विसर्जनीयः—

अवसान \* में रेफ हो अथवा पदान्त रेफ के बाद वर्गोंके प्रथम, द्वितीय ( क ख च छ, ठ ठ, त थ, प फ ) और श ष स, का कोई वर्ण हो तो रेफके स्थान में विसर्ग होता है ।

विरामोऽवसानम् ॥सू०॥ जिस वर्णके उच्चारणोत्तर वर्णान्तरका उच्चारण नहीं किया गया हो उस वर्णको अवसान कहते हैं ।

विसर्ग दो प्रकार के होते हैं सजात और रजात ।

(क) (१) शब्द (२) विभक्ति \* (सुप्—तिङ्) अथवा (३) प्रत्यय सम्बन्धी सकार के स्थानों में 'र्' होकर जो विसर्ग होता है, उसे 'सजात' विसर्ग कहते हैं ।

उदाहरण—

१. निस् = निः । दुस् = दुः । शनैस् = शनैः । उच्चस् = उच्चैः ।  
नीचस् = नीचैः । हविस् = हविः । पयस् = पयः ।
२. देवस् = देवः । पठावस् = पठावः ।
३. एकशस् = एकशः । बहुशस् = बहुशः ।

नोट—कहाँ मूर्धन्य 'ष्' के स्थानों भी 'र्' होकर विसर्ग होता है ।

यथा—सजुष् = सजूः ।

(ख) (१) स्वाभाविक अथवा (२) ऋकारस्थानिक 'र्' के स्थानोंमें जो विसर्ग होता है उसे रजात विसर्ग कहते हैं । यथा—

१. स्वर = स्वः । अन्तर् = अन्तः । प्रातर् = प्रातः । पुनर् = पुनः ।  
निर् = निः । दुर् = दुः । धूर् = धूः ।

२. गोर् = गोः । पूर् = पूः । मातर् = मातः । पितर् = पितः । भ्रातर्  
भ्रातः । दुहितर् = दाहितः । जामातर् = जामतः । ज्ञातर् = ज्ञातः ।

नोट—कहीं 'न्' के स्थानोंमें भी 'र्' होकर विसर्ग होता है ।

यथा—अहन् = अहः ।

(२) कुप्वाः ( क ) पौ च—

क ख, और प फ परे रहनेसे विसर्ग के स्थानोंमें अर्धविसर्ग ( ँ ) होता है अथवा विसर्गका ही रहजाता है ।

उदाहरण—

कः + करोति = कः करोति, कः करोति । कः + खनति = क ( ँ ) खनति,  
कः खनति । कः + पचति = क ( ँ ) पचति, कः पचति । कः + फलति = क ( ँ ) फ  
लति-कः फलति ।

\*विभक्तिश्च ॥ सू० ॥ सुप् (सु-औ-जस्, अम्, -ओट्-शस्, टा-भ्याम्-भिस्, डे-भ्याम्-भ्यस्, डसि-भ्याम्-भ्यस्, डस-ओस्-आम्, डि-ओस्-सुप्) और तिङ् (तिप्-तस्-झि, सिप्-थस्-थ, भिप्-वस्-मस् । त-आताम्-झ-थास्-आथाम्-ध्वम्-इट्-वहि-माहङ्) को विभक्ति संज्ञा होती है ।

नोट—मि समास स्थलमें क ख, प फ के परे विसर्गके स्थानमें दन्त्य 'स्' होता है, अधः—पदम् = अधस्पदम् । शिरः + पदम् = शिरस्पदम् । भाः + करः = भास्करः । भाः + पतिः = भास्पतिः । वाचः + पति = वाचस्पतिः ।

( ३ ) अतःकृ-कृमि—अंस-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णी-ष्वनव्ययस्य समासमें—'कृ' और 'कम्' धातु निष्पन्न पद ( कार, कर, काम, कान्त ) और कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा तथा कर्णी शब्द परमें रहनेसे, अकार से पर अव्यय सम्बन्धिभिन्न विसर्गके स्थानमें दन्त्य 'स्' होता ।

उदाहरण—

अयः + कारः = अयस्कारः । श्रेयः + करः = श्रेयस्कारः । अयः + कामः = अयस्कामः । अयः + कान्तः = अयस्कान्तः । अयः + कंस = अयस्कंसः । पयः + कुम्भः = पयस्कुम्भः । पयः + पात्रम् = पयस्पात्रम् । अयः + कुशा = अयस्कृशा । अयः + कर्णी = अयस्कणी ।

( ४ ) नमस्पुसोर्गत्योः—

क ख, प फ के परे गतिसंज्ञक\* 'नमस्' और 'पुरस्' शब्द सम्बन्धी विसर्ग के स्थान में दन्त्य 'स्' होता है ।

उदाहरण—

नमः + कारः = नमस्कारः । नमः + करोति = नमस्करोति । पुरः + कारः = पुरस्कारः । पुरः + करोति = पुरस्करोति ।

( ५ ) तिरसोऽन्यतरस्याम्—

क ख, प फ के परे 'तिरस्' शब्द सम्बन्धी विसर्गके स्थानमें विकल्पसे दन्त्य 'स्' होता है ।

उदाहरण—

तिरः + करोति = तिरस्करोति—तिरः करोति ।

( ६ ) सोऽपदादौ—

पाश, कल्प, क और काम्य प्रत्ययके परे विसर्गके स्थानसे दन्त्य 'स्' होता है ।

\* "साक्षात्प्रभृतीनि च" इस सूत्रसे नमस् शब्द और पुरस् शब्दको गतिसंज्ञा होती है । ( साक्षात् प्रभृति गण आकृतिगण है ) ।



उदाहरण—

पयः + पाशम् = पयस्पाशम् । यशः + कल्पम् = यशस्कल्पम् ।

यशः + कम् = यशस्कम् । यशः + काम्यति = यशस्काम्यति ।

नोट—अव्यय सम्बन्धी विसर्ग के स्थान में 'स्' नहीं होता । यथा—प्रातः कल्पम् । एवं 'काम्य' प्रत्यय के परे रजात विसर्ग के स्थान में 'स्' नहीं होता । यथा—रातः काम्यति ।

( ७ ) इणः षः—

पाशादि प्रत्ययके परे इण्से परमें स्थित विसर्गके स्थानमें मूर्धन्य 'ष्' होता है ।

उदाहरण—

सर्पिः + पाशम् = सर्पिष्पाशम् । सर्पिः + कल्पम् = सर्पिष्कल्पम् । सर्पिः + कम् = सर्पिष्कम् । सर्पिः + काम्यति = सर्पिष्काम्यति ।

( ८ ) इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य—

क ख, प फ के परे इकार और उकारोपध\* अप्रत्यय सम्बन्धी विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य 'ष्' होता है ।

उदाहरण—

निः + कृतम् = निष्कृतम् । दुः + कृतम् = दुष्कृतम् । बहिः + कृतम् = बहिष्कृतम् । आविः + कृतम् = आविष्कृतम् । चतुः + कोणः = चतुष्कोणः । निः + फलः = निष्फलः । तिः + प्रत्यूहम् = तिष्प्रत्यूहम् ।

( ९ ) इसुसोः सामर्थ्ये—

क ख, प फ के परे इस् और उस् भागान्त शब्दके विसर्गके स्थानमें विकल्पसे मूर्धन्य 'ष्' होता है ।

उदाहरण—

सर्पिः + करोति = सर्पिष्करोति-सर्पिःकरोति । धनुः + करोति = धनुष्करोति-धनुःकरोति ।

( १० ) नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य—

समासमें क-ख अथवा प-फ के परे अनुत्तरपदस्थ 'इस्' और उस् भागान्त शब्दके विसर्गके स्थान में मूर्धन्य 'ष्' होता है ।

\*अलोल्ल्यात्पूर्वं उपधा ॥सू०॥ अन्त्य 'अल्'से पूर्व वर्णकी उपधासंज्ञा होती है ।

३ सं० च०

उदाहरण —

१. सर्पिः + कुण्डिका = सर्पिःकुण्डिका । हविः + कुण्डम् = हविःकुण्डम् ।

२. धनुः + खण्डम् = धनुःखण्डम् । धनुः + पाणिः = धनुःपाणिः ।

( ११ ) विसर्जनीयस्य सः—

खर् के परे विसर्गके स्थानमें सकार आदेश होता है ।

नोट—( १ ) च अथवा छ के परे विसर्गके स्थानमें दन्त्य सकार होता है और उसको भी श्चुत्व हाकर तालव्य शकार हो जाता है ।

( २ ) ट अथवा ठ परे दहनेसे विसर्गके स्थानमें दन्त्यसकार होता है और उसको भी घृत्व होकर मूर्धन्य पकार हो जाता है ।

( ३ ) त अथवा थ के परे विसर्गके स्थानमें केवल दन्त्य सकार मात्र होता है ।

उदाहरण—

१. बालः + चलति = बालञ्चलति । तरोः + छाया = तरोश्छाया ।

२. धनुः + टङ्कारः = धनुःटङ्कारः । चतुरः = ठक्कुरः = चतुरष्ठक्कुरः ।

३. विष्णुः + त्राता = विष्णुस्त्राता । क्षिप्तः + थुत्कारः = क्षिप्तस्थुत्कारः ।

( १२ ) वा शरि—

शर् के परे विसर्गके स्थानमें विकल्पसे 'स्' होता है ।

नोट—( १ ) तालव्य शकार के परे विसर्गके स्थानमें विकल्पसे दन्त्य सकार होता है और तदुपरान्त श्चुत्व होनेसे वह तालव्य शकार होजाता है ।

( २ ) मूर्धन्य पकार के परे विसर्गके स्थानमें विकल्पसे दन्त्य सकार होता है और तदुपरान्त षट्त्व होनेसे वह मूर्धन्य पकार होजाता है ।

( ३ ) दन्त्य सकार के परे विसर्गके स्थानमें विकल्पसे दन्त्य सकार मात्र होता है ।

उदाहरण—

१. हरिः + शेते = हरिश्शेते, हरिः शेते । शिशुः + शेते = शिशुश्शेते, शिशुः शेते ।

२. देवाः + षट् = देवाःषट्--देवाः पट् । चतुरः + षट्पदः = चतुरःषट्पदः--चतुरः पट्पदः ।

३. मनः + सुखम् = मनस्सुखम्—मनः सुखम् । प्रथमः + सर्गः = प्रथमस्सर्गः—प्रथमः सर्गः ।

( १४ ) ससजुषो रुः—

पदान्त सकार तथा सजुष् शब्दके षकारके स्थानमें रु ( र् ) होता है ।

( १४ ) अतोरोरप्लुतादप्लुते—

अप्लुत अत् के परे अप्लुन अत्से पर रु ( र् ) के स्थान में उकार होता है ।

नोट—उ होने पर अ × उ मिलकर गुण ओ होता है और पुनःओके अग्रवर्ती जो 'अ' रहता है उसे पूर्वरूप हो जाता है ।

उदाहरण—

शिवस् + अर्च्यः = शिवोऽर्च्यः । यशस् + अभिलाषी = यशोऽभिलाषी ।

देवस् + अयम् = देवोऽयम् । वेदस् + अधीतः = वेदोऽधीतः ।

( १५ ) हृशि च—

हृश्, (वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पञ्चम वर्ण अथवा य, र, ल, व, अथवा ह) के परे रहने पर भी अप्लुत अकार से पर रु सम्बन्धी र् को उ होता है ।

नोट—यहाँ उ होने के पश्चात् गुण मात्र ही होता है ।

उदाहरण—

१. रामस् + गच्छति = रामो गच्छति । पूर्णस् + घटः = पूर्णो घटः ।

अद्भुतस् + डकारः = अद्भुतो डकारः ।

२. कृष्णस् × जयति = कृष्णो जयति । मधुरस् + झङ्कारः = मधुरो झङ्कारः । ठस्येकस् + अश्च = ठस्येको अश्च ।

३. सुन्दरस् + डमरुः = सुन्दरो डमरुः । बालस् + डौकते = बालो डौकते ।

कसन्तेभ्यस् + णः = कसन्तेभ्यो णः ।

४. निर्वाणस् + दीपः = निर्वाणो दीपः । मृगस् + घावति = मृगो घावति ।

सुन्दरस् + नरः = सुन्दरो नरः ।

५. रामस् + ब्रवीति = रामो ब्रवीति । मनस् + भावः = मनो भावः ।

देवदत्तस् + मन्यते = देवदत्तो मन्यते ।

६. ( य-र-ल-व-ह ) नरस् + याति = नरो याति । मनस् + रथः =

मनोरथः । यशस् + लभते = यशो लभते । शिवस् + वन्द्यः = शिवो

वन्द्यः । बालस् + हसति = बालो हसति ।

नोट—सजात 'र्' से अतिरिक्त स्थलोंमें 'र्' के बादमें वर्गका तृतीय, चतुर्थ

या पंचम वर्ण रहे अथवा य, ल, व, या ह रहे तो र अग्रिमवर्ण की चोटी पर चला जाता है।

उदाहरण—

१. प्रातर् + गमनम् = प्रातर्गमनम् । पुनर् + धर्मः = पुनर्धर्मः ।
२. निर् + जलम् = निर्जलम् । दुर् + क्षतकारः = दुर्क्षतकारः ।
३. पुनर् + डीयते = पुनर्डीयते । अन्तर् + ढक्का = अन्तर्ढक्का ।
४. दुर् + दिनम् = दुर्दिनम् । अन्तर् + घत्ते = अन्तर्घत्ते । पुनर् + नमनम् = पुनर्नमनम् ।
५. भ्रातर् + याहि = भ्रातर्याहि । पुनर् + लब्धः = पुनर्लब्धः । जामातर् + वद = जामातर्वद । प्रातर् + हसति = प्रातर्हसति ।

( १६ ) भो-भगो-अघो-अपूर्वस्य योऽशि—

अच् के परे 'भो' पूर्वक, 'भगो' पूर्वक, 'अघो'पूर्वक और अवर्ण पूर्वक रु ( र् ) के स्थान में यकार आदेश होता है।

( १७ ) हलि सर्वेषाम्

'हल्' के परे भो, भगो, अघो और अवर्ण पूर्वक य् का लोप होता है।

उदाहरण—

१. भोस् + देवाः = भो र् + देवाः = भो य् + देवाः = भो देवाः । भगोस् + नमस्ते = भगोर् + नमस्ते = भगोय् + नमस्ते = भगो नमस्ते । अघोस् + याहि = अघोर् + याहि = अघोय् + याहि = अघोयाहि ।

२. देवास् + हसन्ति = देवार् + हसन्ति = देवाय् + हसन्ति = देवा हसन्ति । भक्त्याम् + भजन्ति = भक्त्यार् + भजन्ति = भक्त्याय् + भजन्ति = भक्त्या भजन्ति ।

नोट—१७ सूत्रमें 'सर्वेषाम्' कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि हल् के परे सभी के मत से यकार का नित्य लोप हो। किन्तु 'अच्' के परे अवर्ण पूर्वक पदान्त यकार का "लोपः शाकल्यस्य" (स्वरसन्धि-प्रकरण सू० ८) से विकल्पसे लोप हो।

उदाहरण—

देवास् + इह = देवार् + इह = देव य् × इह = देवा इह-देवायिह । ब्राह्मणात् + आगताः = ब्राह्मणार् + आगताः = ब्राह्मणाय् आगता = ब्राह्मणा आगताः-ब्राह्मणायागताः । देवास् + ऊचुः = देवार् + ऊचुः = देवाय् + ऊचुः = देवा ऊचुः-देवायूचुः । रामस् + एति = रामर् + एति = राम य् एति = राम एति रामयेति । एवं—देव इच्छति-देवयिच्छति इत्यादि ।

( १८ ) रो रि—

रेफ के परे रेफ का लोप होता है ।

( १९ ) ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः—

ढकार \* और रेफ लोपके निमित्त ढकार और रेफके परे पूर्व अणके स्थानमें दीर्घ आदेश होता है ।

उदाहरण—

पुनर् + रमते = पुन + रमते = पुना रमते । हरिर् + रम्यः = हरि + रम्यः = हरी रम्यः । शम्भुर् + राजते = शम्भु + राजते = शम्भू राजते । अन्तर् + राष्ट्रीयः = अन्त + राष्ट्रीयः = अन्ताराष्ट्रीयः । हरिर् + रक्षति = हरि + रक्षति = हरी रक्षति ।

( २० ) एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि—

नञ् समास † को छोड़कर—हल् के परे ककार ‡ रहित एतद् और तद् शब्द सम्बन्धी सु ( स् ) का लोप होता है ।

उदाहरण—

एसस् + विष्णुः - एष विष्णुः । सस् + शम्भुः = स शम्भुः । एषस् + चलति = एष चलति । एषस् + हसति = एष हसति ।

( २१ ) सोऽचि लोपेचेत्पादपूरणाम्—

लोप होने से ही यदि पादकी पूर्ति होती हो तो अच् के परे स ( तच्-शब्द ) सम्बन्धी सु स् का लोप होता है ।

\* ढकार लोपका उदाहरण निङ्ङन्तमें देखो ?—लिढ् + ढ = लि + ढ = लीढः । अलिढ् + ढ = अलि + ढ = अलीढ ।

† नञ्समासमें सकारका लोप नहीं आता । यथा—न सः असः, असस् + शिवः = अमः शिवः ।

‡ एतद् शब्दसे “अथयमवर्तमानामकच् प्राक् टेः” इस सूत्रसे अकच् होकर ‘एषकः’ रूप बनता है । वहाँ षच् के परे सकारका लोप नहीं होता इसी लिये ककार रहित कह गया है । उदाहरण यथा—एषकस् + रुद्रः = एषको रुद्रः । यहाँ लोप नहीं होकर रुत्व-उत्त्व-गुण हो जाता है ।

§ अत एव “सोऽहमाजन्मगुढानाम्” यहाँ लोप नहीं हुआ । क्योंकि लोप नहीं होने पर भी सकारको रुत्व, उत्त्व, गुण तथा पूर्वरूप होनेसे भी (प्रयोग सिद्ध होता है और) पादकी पूर्ति हो जाती है ।

उदाहरण—

सस् + इमामविड्ढि प्रभृतिम् = स + इमामविड्ढि प्रभृतिम् = सेमामविड्ढि प्रभृतिम् \* ( लोप होने पर गुण हो जाता है ) । सस् + एष दाशरथी रामः = स + एष दाशदथी रामः = सैष दाशरथी रामः † ( लोप होने पर वृद्धि हो जाती है )

सन्धि करो—

पुनर् + करोति । रामः + क्रुध्यति । यशः + करः । नमः + कारः । पूः + काम्यति । हविः + काम्यति । निः + फलम् । धनुः + खण्डितम् । धनुः × खण्डम् । गोपालः + शेते । रामः + अयम् । चन्द्रशेखरः + हसति । पुनः + हसति । भोः + नमस्ते । अन्तर् + रामः ।

शुद्ध करो—

रामो क्रुध्यति । श्रेयष्करः । अधिस्थाता, अहर्षु । हविकुण्डम् । सो रामः । बालो चलति । मनो सुखम् । एषो बालः । सूर्यो शोभते । हतो शत्रुः । मनो कल्पना । अज्ञो इन्द्रः । यशालंभते । प्रातो गमनम् । देवाः हसन्ति । अहोगतः । अन्तर्राष्ट्रीयः भ्रातः रमय । एषो विष्णुस्त्रिबो वा ।

इति सन्धि-प्रकरण समाप्त ।

\* 'सेमामविड्ढि प्रभृति य ईशिपे' यह वैदिक छन्द 'जगति' का एक पाद है । १२ अक्षर होने पर इस पादकी पूर्ति होती है । यदि यहाँ लोप नहीं होगा तो १३ अक्षर हो जायेंगे और उससे छन्दोभङ्ग हो जायगा ।

† संपूर्ण श्लोक इस प्रकार का है —

“सैष दाशरथी रामः, सैष राजा वृधिष्ठिरः ।

सैष ऋणो महात्यागी, सैष भीमो महाबलः ॥” इति ।

यह अनुष्टुप् छन्द है । इसके प्रति मात्रमे ८ अक्षर होते हैं । यहाँ सु का लोप नहीं होनेसे सकारको स्त्व, यत्वं तथा “लोप शकल्यस्य” से यकारका लोप हो जायगा और यलोपके अस्तित्व होनेसे फिर वृद्धि नहीं हो सकेगी । एवं च प्रत्येक पादमें ९ अक्षर हो जायेंगे जिसे पाद की पूर्ति न हो सकेगी ।



ग्रामं गच्छति” इस वाक्य में ग्राम कर्म है क्योंकि कृष्ण गमन क्रिया द्वारा ग्राम को प्राप्त करता है इसलिये ग्राम कर्म हुआ। इस कर्म के तीन भेद हैं—‘निर्वर्त्य’ ‘विकार्य’ और ‘प्राप्य’। ‘घटं करोति’ ‘तण्डुलं पचति’ ‘ग्रामं गच्छति’ ये क्रमशः तीनों के उदाहरण हैं।

‘तथायुक्तं चानीप्सितम्’ उक्तकर्म के और भी दो भेद हैं—‘उपेक्ष्य’ ( उदासीन ) और ‘द्वेष्य’। इच्छा के नहीं रहने पर भी कर्ता अपने व्यापार द्वारा जिसको आनुषङ्गिकरूप ( अनायास ) से प्राप्त कर लेता है उसे ही ‘अनीप्सित’ ( उपेक्ष्य और द्वेष्य ) कर्म कहते हैं। जैसे ‘ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति’ ‘ओदनं भुञ्जानो विषं भुंक्ते’ यहाँ पर ग्राम जाना ही कर्ता का अभिलषित है तृण का छूना तो यों ही हो जाता है। इसी तरह भात खाना ही कर्ता का इष्ट है, जहर खाना उसका इष्ट नहीं फिर भी धोखेसे चावलके साथ जहर भी खा जाता है इसलिये उक्त स्थलों में क्रमशः ‘उपेक्ष्य’ और ‘द्वेष्य’ कर्म के उदाहरण समझने चाहिये।

‘अकथितञ्च’—अपादान वगैरह कारकों की अविवक्षासे कर्मत्व रूप में ही वक्ता की विवक्षा होने पर अपादानादि भी कर्म हो जाते हैं। इसे ‘अकथित’ कर्म कहते हैं। जैसे ‘गां दोग्धि पयः’ बलि भिक्षते वसुधाम्’ ‘सृष्ट्वां क्षीरनिष्ठि मध्नाति’ ‘अजां ग्रामं नयति’ ‘गर्गान् शतं दण्डयति’ ‘माणवकं घर्मं क्षाम्नि’ इत्यादि।

नोट—कर्मलक्षण यथा—“कर्तृवृत्तिव्यापारप्रयोज्यफलवत्वप्रकारकेच्छानिरूपितविषयताश्रयत्वम्”

\* कर्मवाच्यमें कर्मकी प्रधानता होती है, और कर्मके अनुसार क्रियामें वचन पुरुषादिकी व्यवस्था होती है, जैसे ‘रामेण घटौ क्रियेते’ यहाँ पर दो घटरूप कर्मके प्राधान्य होने से क्रियामें भी द्विवचन एवं प्रथम सूत्र हुआ। परन्तु कर्मनाधान्य-स्थलमें कर्मके वचन होनेसे कर्ममें प्रथमा विक्रिय हो जाती है, और कर्तामें तृतीया विभक्ति हो जाती है क्योंकि उक्तवाक्यमें कर्ता अनुक्त है इसलिये “कर्तृकरणयोस्तृतीया” इससे अनुक्त कर्तामें तृतीया हुई। किन्तु कर्ताके उक्त होनेसे प्रथमा और कर्मके अनुक्त होने पर द्वितीया होती है जैसे ‘देव ओदनं पचति’। कर्मवाच्यमें घातसे आत्मनेपद ही आता है और मध्यमे दक् प्रत्यय लग जाता है। भाववाच्यमें क्रियाकी प्रधानता होती है और अकर्मक घातुस ही भावमें लकार होते हैं। इसलिये कर्ताके अनुक्त होनेसे तृतीया हो जाती है। और क्रियामें एकवचन और प्रथम पुरुषही होते हैं जैसे ‘त्वया, मया चैत्रेण वा भूयते’ इत्यादि। ( ३ ) ‘तिङ्ङन्तविचार’ देखो )



“साधकतमं करणम्”—जिसके व्यापार के अव्यवहित (तुरत) उत्तरकाल में क्रिया को निष्पत्ति होती है उसे करण कहते हैं और अनुक्त करण में तृतीया होती है। जैसे—“रामेण बाणेन हतो वाली” यहाँ पर बाण के व्यापार होने के अव्यवहित उत्तर काल में ही वाली का हनन हो जाता है इसलिए बाण करण है और उक्तस्थल में कर्म में क्त प्रत्यय होने से करण अनुक्त रहा इसलिए अनुक्त करण में “कतृकरणयोस्तृतीया” इससे तृतीया हुई। उक्तस्थल में राम कर्ता को करण नहीं कह सकते क्योंकि राम के व्यापार के अव्यवहित उत्तर क्षण में हनन क्रिया नहीं हो पाती है इसलिए कर्ता करण नहीं हो सकता परन्तु यह करण-त्वादि वक्ता के विवक्षाधीन माना गया है अर्थात् कर्तादि कारकों को भी जब वक्ता करणत्वेन विवक्षित कर देता है तब कर्तादि भी करण हो सकता है परन्तु ये सारी बातें वक्ता की विपक्षा के ऊपर निर्भर रहती हैं। भर्तृहरिने भी इस बात को पुष्ट किया है—‘क्रियायाः प-निष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम् । विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत् यदा स्मृतम् ।’ ‘वस्तुतस्तदनिर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम् । स्थाल्या पच्यते ह्येषा विवक्षा दृश्यते यतः ।’ इत्यादि ।

‘हेतौ’—हेतु में भी तृतीया होती है। जैसे ‘दण्डेन घटः’ पुण्येन दृष्टो हरिः’ यहाँ पर घटकार्य के प्रति दण्ड हेतु है एवं हरि दर्शन के प्रति पुण्य ( बर्म ) हेतु है। हेतु को करण नहीं कह सकते क्योंकि क्रिया मात्र का जनक एवं व्यापारवान् करण होता है, किन्तु द्रव्य गुणक्रियाओं का जनक व्यापारवान् और कहीं पर व्यापाराभाववान् भी हेतु होता है जैसे ‘दण्डेन घटः’ यहाँ पर दण्ड व्यापारवान् एवं घटरूपद्रव्य का जनक है, इसी तरह “पुण्येन दृष्टो हरिः” यहाँ पर पुण्य दर्शन-क्रिया का जनक होते हुए भी व्यापार वृत्त्य है इसलिए इन दोनों को करण नहीं कह सकते। “कुठारेण काष्ठं छिनत्ति” यहाँ पर कुठाराई करण है क्योंकि यह छेदनक्रिया मात्र का जनक और व्यापारवान् भी है। इसी तरह जिस अङ्ग के विकार से शरीरों के त्रैगुण्य व्यवहृत होता है उसे भी तृतीया होता है जैसे “अक्षणा बाणः” “पादेन खड्गः” इत्यादि ।

नोट—हेतु और करण के लक्षणों में विभिन्नता—१. द्रव्य-गुण-क्रिया-स्मककार्यत्रयनिरूपित-निर्व्यापार-सव्यापार-वृत्ति च यत्तद्वैतत्वम् ।  
२. “क्रियाजनकमात्रवृत्तिव्यापारवद्वृत्तिच यत्तत् करणत्वम्” ।

तृतीया कहां २ होती है इसके लिए निम्न कारिका स्मरण रखने योग्य है—

‘तृतीया करणे चैव कर्मवाच्यस्य कर्तरि ।

सहार्थेश्च तथा हेतौ प्रकृत्यादिभ्य एव च ॥

ऊनार्थे वारिणार्थेश्च सदृशार्थेस्तथैव च ।

अङ्गिनो विकृतिर्येन तृतीया स्यात्तदङ्गतः ॥

‘कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्’—दान क्रिया के कर्म के साथ जिसका सम्बन्ध स्थापित किया जाय उसे सम्प्रदान कहते हैं। जैसे ‘विप्राय गां ददाति’ यहां पर दान क्रिया के कर्म गो के साथ ब्राह्मण का स्वत्व ( अधिकार ) सम्बन्ध स्थापित किया गया है इसलिए ब्राह्मण सम्प्रदान-हुआ। और अनुक्त सम्प्रदान में चतुर्थी हो जाती है। ‘रजकाय वस्त्रं ददाति’ ऐसा वाक्य नहीं होता किन्तु ‘रजकस्य वस्त्रं ददाति’ ऐसा वाक्य ही शुद्ध माना गया है, क्योंकि जिस वस्तु से जब बिलकुल ही अपना अधिकार हट जाय और दूसरा ही व्यक्ति उसका मालिक हो जाय तभी चतुर्थी मानी जाती है। सम्प्रदान शब्द का अर्थ भी यही होता है कि सर्वथा अपना अधिकार हटाकर दूसरे का अधिकार स्थापित हो जाय, क्योंकि ‘स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक — परस्वत्वोत्पत्तिजनकव्यापार’ ही दा घातु का अर्थ माना गया है। कोई विद्वान् तो ‘परस्वत्वोत्पत्तिजनकव्यापार’ को ही दा घातव्य मानते हैं। उनकी विचार धारा से त्याग वाक्य में ‘हरये नमः’ इत्यादि स्थल में ‘इदं न मम’ ऐसा जोड़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन उक्त सिद्धान्त पक्ष में इस को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।

“नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंबपट्योगाच्च”—नमः प्रभृति शब्दों के योग में भी चतुर्थी होती है। जैसे ‘हरये नमः’ ‘प्रजाम्यः स्वस्ति’ ‘अग्नयेस्वाहा’ इत्यादि।

‘क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्’—जिसके उद्देश्य से कुछ क्रिया की जाती है उसे भी सम्प्रदान कहते हैं। जैसे ‘पत्ये पति’ इस वाक्य में पति के उद्देश्य से शयन क्रिया का विधान किया गया है इसलिए पति की सम्प्रदान संज्ञा और चतुर्थी हुई।

नोट —चतुर्थी के लिए निम्न कारिका स्मरण करने योग्य है—

सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात् यादृश्यं च क्रियायुते ।

रुच्यर्थानां प्रियमाणे नमो योगे च सा भवेत् ॥’

‘अवमपायेऽनादानम्’—जिससे किसी भी वस्तु का विश्लेष ( अलगाव )

होता है उसे अपादान ( ध्रुव ) कहते हैं, 'वृक्षात्पणं पतति' इस वाक्य में वृक्ष से पत्ते का वियोग होता है इसलिये वृक्ष अपादान हुआ । अर्थात् प्रस्तुत धात्वर्थव्यापार का जो आश्रय नहीं हो किन्तु विछुड़ाव में अवधि होता हो उसे ही ध्रुव या अपादान कहा गया है । और अनुक्त अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है । जिस से निदमानुसार विद्यादि ग्रहण किया जाता है उससे भी पञ्चमी, होती है जैसे 'गुरोरधीते' गुरु से नियमपूर्वक विद्या पढ़ता है । जिससे डरना या लुकना एवं त्राण चाहता हो उसमें भी पञ्चमी होती है जैसे 'चौराद् विभेति' 'मातुर्निलीयते' 'सिंहान् त्रायते' इत्यादि । जहां से जिसकी उत्पत्ति एवं अभिव्यक्ति होती है उससे भी पञ्चमी मानी गई है जैसे 'ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते' 'हिमवतं गङ्गा प्रभवति' इत्यादि ।

नोट—अपादाने ल्यवर्थे च योगे पूर्वादिभिस्तथा ।

उत्कर्षे पञ्चमी ज्ञेया हेत्वर्थे तु विभाषया ॥

ऋते विनादिभिर्योगे पञ्चमो च स्मृता बुधैः॥

'पष्ठो शेषे'—उक्त अर्थों से भिन्न स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध सामान्य में षष्ठी होती है । जैसे राज्ञःगुरुः' 'चैत्रस्य पुत्रः' इत्यादि । सम्बन्ध षष्ठी को कारक नहीं माना गया है क्योंकि सम्बन्ध में क्रिया जनकत्व रूप कारकत्व नहीं हो सकता । जैसे 'माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति' इस वाक्य में पिता त ही प्रश्नादि क्रिया की उपपत्ति हो जाने के कारण उसके प्रति माणवक अन्यथा सिद्ध हो जाता है । घट कार्य के प्राते दण्डादि का कारणत्व सर्वमत सिद्ध होने पर भी रासभ को कारण नहीं माना गया है, इसलिये कारणत्व के लक्षण में "अन्यथा-सिद्धिशून्यत्वे सति नियतपूर्ववृत्तित्वरूप" निवेश करना जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में रासभ अन्यथा सिद्ध होने से कारण नहीं हो सकता, इसी तरह प्रकृत में माणवक भा अन्यथा सिद्ध होने से क्रियाजनक नहीं हो सका । अतः कारकत्व भी सम्बन्ध षष्ठी को नहीं माना गया ।

नोट—पष्ठो भवति सम्बन्धे कृदन्ते कर्तृकर्मिणोः ।

तृतीया स्यात् तथा पष्ठो कृतानां कर्तृकारकः ।

तुल्यार्थयोगे पष्ठो स्यात् तृतीया च विभाषया ॥

'आधारोऽधिकरणम्'—कर्ता और कर्म के द्वारा तद्वृत्ति क्रिया का जो आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं । जैसे 'कटे आस्ते' 'स्थाल्यां पचति' यहाँ

पर चटाई और वटलोड़ी, देवदत्तादिकर्ता एवं तण्डुल कर्म के द्वारा उपवेशन एवं विकलेदन क्रिया का आधार होती हैं इसलिये इन्हें अधिकरण संज्ञा हुई और अनुक्त अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई। अधिकरण के तीन भेद हैं—‘औपदेशिक’ ‘वैपयिक’ और ‘अभिध्यापक’। क्रमशः तीनों के उदाहरण निम्न प्रकार समझने चाहिये ‘कटे वास्ते’ ‘मोक्षे इच्छास्ति’ ‘तिलेषु तैलम्’ इत्यादि।

नोट—आधारे च तथा भावे विभक्तिः सप्तमी भवेत्  
अनादरे च निर्धारे षष्ठी स्यात् सप्तमी तथा ॥

छः कारकों के उदाहरण एक ही साथ निम्न श्लोक में देखो :—

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे ।  
रामेणाभिहृता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ॥  
रामान्नारित परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् ।  
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हे राम मामुद्धर ।



## ( २ ) समास-विचार

‘समन्तं समासः’—संश्लेष को समास कहते हैं। अर्थात् बड़े वाक्य को छोटा करना ही समास का मुख्य उद्देश्य होता है। और विस्तार को व्यास कहते हैं। व्याकरण में विस्तृत वाक्य ही व्यास पद से लिया जाता है। लाघव के लिए किसी पदसमूह को छोटा करना हो तो वहाँ पर समास कर दिया जाता है जिससे वह पदसमूदाय छोटा हो जाता है, समास करने का यही प्रयोजन है।

ह्रदन्त-तद्धितान्त-समास—एकशेष और सान्निविद्वाद्वादा प्रत्ययान्तधातुरूप, ये पांच वृत्तियाँ मानी गयीं हैं। जैसे पाचक, औषगव, राजपुरुष, पितरौ पुत्रीयति इत्यादि, इन वृत्तियों में विविध (समुदाय) में ही अर्थवाचकशक्ति मानी गयी है, वह शक्ति दो प्रकार की है—‘एकार्थीभाव’ और ‘अपेक्षा’। तत्र ‘पृथगर्थानां पदानां समुदायगतत्वा विविधैरर्थोपस्थितिजनकत्वम्, एकार्थीभावत्वम्, पृथक् २ अर्थवाचकत्वों में समुदाय शक्ति से पानी में मिली हुई घूल की तरह मिले जुले अर्थों का ज्ञान कराने वाली वृत्ति को एकार्थीभाव कहते हैं, ‘अनेकार्थो हि एकार्थी भवति अनेनेति एकार्थीभावः’ अनेकार्थ जिससे मिलकर एकार्थ हो जाय उसे ही वास्तव में एकार्थीभाव कहते हैं। जिसके बदीलत उक्तस्थलों में जैसे ‘पितरौ’

कहने से माता और पिता इन दोनों का ही बोध होता है, प्रत्येक का अलग २ बोध नहीं होता यही बात उक्त पांचों वृत्तियों में मानी गयी है, इसके दो भेद हैं—‘जहत्स्वार्था’ और ‘अजहत्स्वार्था’ जहाँ पर प्रत्येकपद अपने २ अर्थों को छोड़कर विशिष्टार्थों को ही बतलाता है उसे जहत्स्वार्थावृत्ति कहते हैं। जैसे ‘प्रतिष्ठा’ ‘निष्ठा’ ‘कृष्णसर्पः’ इत्यादि स्थलों में अवयवों का कुछ भी अर्थ न होकर एक विलक्षण अर्थ ही ज्ञात होता है। जहाँ पर प्रत्येकपद अपने २ अर्थों के साथ २ समुदाय के अर्थ को प्रधान रूप से बतलाता है उसे ‘अजहत्स्वार्था’ वृत्ति कहते हैं। जैसे ‘पङ्कज’ कहने से कोचड़ से पैदा होने वाला कमल समझा जाता है इसलिये यहाँ पर अवयवार्थों के साथ ही विशिष्टार्थ कमल का बोध होने से अजहत्स्वार्था वृत्ति हुई। इसे ही योगरूढिबन्धित कहते हैं। यही वृत्ति प्रायः अधिक स्थलों में ली जाती है क्योंकि इसमें अवयवार्थों का भी ज्ञान होने से अधिक लाभ होता है। जहत्स्वार्था तो वहीं पर मानी जाती है, जहाँ पर अवयवार्थों का संग्रह नहीं हो सकता हो। कहा भी है—‘जहत्स्वार्था तु तत्रैव यत्र रुढिबन्धोधिनी’ इत्यादि। जहत्स्वार्था को ही रुढिबन्धित कहते हैं। जैसे—‘प्रतिष्ठा’ कहने से इज्जत या महत्ता का बोध होता है—प्रत्येकपद का अर्थ कुछ भी नहीं संगत होता।

‘स्वार्थपर्यवसायिनां पदानामाकांक्षादिबन्धात् यः परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा’ अपने २ अर्थों को बतलानेवाले पदों का जो अपेक्षावश आपस में अन्वय होता है उसे व्यपेक्षा कहते हैं। इस में अलग २ ही पदार्थों की उपस्थिति होती है। एकार्थीभाव का तरह मिले जुले दोनों पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती, केवल आकांक्षावश एकपदार्थ का दूसरे के साथ सम्बन्ध मात्र हो जाता है। यह शक्ति वाक्य में मानी गयी है। उक्त समास के पांच भेद बतलाये गये हैं—‘केवल समास’ ‘अवयवाभाव’ ‘तत्पुरुष’ ‘बहुव्रीहि’ और ‘द्वन्द्व’। तत्पुरुष के दो भेद हैं—‘कर्मधारय’ और ‘द्विगु’।

१. ‘विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः केवलसमासः प्रथमः’—जिसकी कोई विशेष संज्ञा न हो उसे केवल समास कहते हैं। यह समास कहीं पर सुबन्त को सुबन्त के साथ किया जाता है जैसे ‘पूर्व भूतः भूतपूर्वः।’ और कहीं पर तिङन्त के साथ भी किया जाता है जैसे ‘अनुव्यचलत्’ ‘पर्यभूषत्’ यह सारा कार्य ‘सह सुपा’ के सहारे पूरा किया जाता है। ‘इवेन समासो विभक्त्यलोपञ्च’ इव के साथभी यह समास होता है लेकिन इसमें समासमध्यवर्ती विभक्ति का लोप नहीं होता है,

जैसे 'वागर्थविब' 'जीमूतस्थेव' 'हरीतकीं भुंक्व राजन्' 'मातेव' हितकारिणीमित्यादि ।

२. 'पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः' । जिसमें प्रायः करके पूर्वपदार्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययीभाव समास कहने हैं । इस समास के पूर्वपद प्रायः अव्यय ही होते हैं । जैसे—उपकृष्णम् (कृष्ण के पास) । इसमें उप पूर्वपद अव्यय है और उनी का सामीप्य रूप अर्थ मुख्य रूप से प्रतीत होता है । यह नित्य समास होता है 'अविग्रहोऽस्वपदविग्रहो वा नित्यसमासः' जिसमें विग्रह वाक्य नहीं बनता हो या बना भी हो तो समास जिनके साथ होता है उससे भिन्न के साथ ही विग्रह किया जाता हो यही नित्य समास का चिह्न है जैसे—

'कृष्णमात्मीयम्' 'उपकृष्णम्' । यहाँ पर सामीप्य पद के साथ विग्रह किया गया है और उम के साथ समास होना है । यह समास अव्ययों के अधिकरण आदि विभक्त्यर्थ, सामीप्य, समृद्धि, विगतवृद्धि, अर्थोदात्त, अत्यन्त (ध्वंस, सम्प्रति (अभी) शब्दप्राप्तभाव, शब्दात्, यथार्थ, ( योग्यता, बीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्य ) आनुपूर्व्य, यौगपद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्त इत्यादि अनेकों अर्थों में समस्त होने से अत्यन्त ही व्युत्पत्ति बद्धक और चमत्कारजनक होता है जैसे— 'अबिहरि' हरि में 'उपकुम्भम्' घट के पास 'सुमद्रम्' मद्रों की समृद्धि 'दुर्यवनम्' यवनों की बद्रहालत 'निर्मक्षिणम्' मक्षिकाओं का अभाव 'अतिहिमम्' पालाओं का नाश 'अतिनिद्रम्' असमय में सोना अच्छा नहीं 'इतिहरि' हरि शब्द का प्रकाश 'अनुविष्णु' विष्णु के पीछे 'अनुरूपम्' स्वरूप के योग्य 'प्रत्यर्थम्' अर्थ अर्थ के प्रति 'यथाशक्ति' शक्ति के अनुसार—'सहरि' हरि का सादृश्य 'अनुज्येष्टम्' बड़ों के अनुक्रम से 'सचक्रम्' चक्र के एक साथ 'ससखि' मित्र के तुल्य 'सअत्रम्' क्षत्रियों की सम्पत्ति, 'सतुणम्' तिनकों के साथ ही 'साग्नि' अग्नि ग्रन्थ-पर्यन्त इत्यादि विलक्षण ही उक्त प्रयोगों के अर्थ हो जाते हैं । 'अनुगङ्ग' वाराणसी' गङ्गा के फैलाव के अनुसार काशी का फैलाव है । 'अर्म्यग्नि शलभाः पतन्ति' वाग की ओर पतंगों गिर रहे हैं । 'पारेगङ्ग' गङ्गा के पार 'मध्वेयमुनम्' यमुना के मध्य इत्यादि अनेक अर्थों में यह समास होता है । अव्ययीभाव को अव्यय संज्ञा हो जाती है और नपुंसकत्व भी हो जाता है इसलिये प्रायः करके अधिक प्रयोगों में अकारान्त को छोड़कर सभी जगह विभक्ति का श्रवण नहीं होता है । जैसे 'अबिहरि' 'यथाशक्ति' इत्यादि अकारान्त में पञ्चमी को छोड़कर सभी विभक्तियों का अम् आदेश हो जाता है और पञ्चमी अलुक् हो जाता है ।

परन्तु तृतीया सप्तमी में विकल्प में यह कार्य होता है ।। जैसे 'उपकृष्णम्' 'उपकृष्णात्' उपकृष्णेन' वा 'उपकृष्णे' वा । कहीं पर पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं भा होती है जैसे—'उन्मत्तगङ्गम्' लाहितगङ्गम्' इत्यादि ।

३. 'उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः'—जिसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता रहती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । जैसे—'राजपुरुषः' राजा का पुरुष (सिपाही वगैरह) ; यहाँ पर पुरुष अर्थ सूक्ष्मरूप से भासित होता है अतः इसे तत्पुरुष कहते हैं । इसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्त्यन्त पूर्वपदों के साथ समास होता है । जैसे 'कृष्णं श्वितः' 'कृष्णश्वितः' 'शङ्कुलया खण्डः' 'शङ्कुलाखण्डः' 'दण्डं दारु' 'दूधदारु' 'चौराद्भयम्' 'चौरभयम्' 'राज्ञो धनम्' 'राजधनम्' 'अक्षौष्य शौण्डः' अक्षशौण्डः इत्यादि । इसमें 'उपपद समास' 'गणितसमास' 'प्राक्समास' 'सव्यसपद-लोपो समास' 'उपमित समास' 'उपमान समास' और 'नश् समास' भी आ जाता है । जैसे—'कुम्भकारः' 'व्याघ्रः' 'अतिमालः' 'अन्धकौशान्बिः' 'शाकपार्थिवः' 'देवब्राह्मणः' 'पुरुषव्याघ्रः' 'घनश्यामः' अनश्वः' इत्यादि । 'तत्पुरुषविशेषः' 'कर्मधारयः' तत्पुरुषविशेष को कर्मधारय समास कहते हैं । तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्म-धारयः' विशेषण विशेष्यभाव से एकार्यप्रतिपादक समास को कर्मधारय कहते हैं । जैसे—'नीलोत्पलम्' 'महानवमी' 'मयूरव्यंसक' इत्यादि । कर्मधारय विशेष को द्विगु समास कहते हैं ।

'संख्यापूर्वो द्विगुः'—द्विगु समासमें संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में होता है । जैसे 'त्रिलोकी' 'पञ्चगवधनः' 'षाण्मातुरः' 'द्वैमातुरः' 'सप्तर्षयः' 'पञ्चगवम्' इत्यादि । कहीं पर उत्तर पद की प्रधानता नहीं भी होती है जैसे—'अर्ध-पिप्पली' 'पिप्पली' का आधा हिस्सा । यहाँ पर पूर्व पद 'अर्ध का अर्थ ही प्रधान रूप से भासित होता है । अकारान्त उत्तर पदक द्विगु स्त्रीलिङ्ग हो जाता है । जैसे 'पञ्चमूली' 'दशमूली' इत्यादि ।

'परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः'—द्वन्द्व और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की तरह लिङ्गव्यवस्था होती है । जैसे 'मयूरीकुक्कुटौ इमौ' कुक्कुटमयूरौ इमे' 'राज-कुमारो' इयम् । 'ब्राह्मणीपुत्रोऽयम्' । किन्तु—रात्रि, अह्नि और अहन् शब्दान्त द्वन्द्व और तत्पुरुष पुल्लिङ्ग हो जाता है जैसे—'अहोरात्रः' 'पूर्वाहणः' 'द्वयहः' इत्यादि । परन्तु संख्यावाचक शब्द पूर्व पद में रहने से रात्रि शब्दान्त उक्त समासनपुंसक होता है । जैसे—'द्विरात्रम्' 'त्रिरात्रम्' । अर्द्धर्चादिगणपठित शब्द पुल्लिङ्ग एवं नपुंसक भी होते हैं । जैसे—'अर्द्धर्चः' 'अर्द्धर्चम्' । सेना सुरा छाया शाळा

और निशा शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक और स्त्रीलिङ्ग हो जाता है। जैसे—ब्राह्मण-सेनम् 'ब्राह्मणसेना' इत्यादि। अमनुष्य पूर्वक राजादि और सभा शब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक हो जाता है। जैसे—'ईश्वरसमम्' 'इनसभम्' इत्यादि।

४. 'अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः'—जिसमें समासान्तवर्ती से कोई अन्य पदार्थ ही मुख्य रूप से जाना जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्तिपर्यन्त के अर्थ अन्य पदार्थ में लिए जाते हैं, किन्तु प्रथमान्तपदों का ही समास होता है। जैसे—प्राप्तमुदकं यं स 'प्राप्तोदको ग्रामः' ऊढो रथो येन स 'ऊढरथोऽनड्वान्' 'उपहृतपशूरुद्रः' 'उद्धृतौदनास्याली' 'पीताम्बरो हरिः' 'वीरपुरुषको ग्रामः' इत्यादि। इसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। कहीं पर सप्तम्यन्तादि और प्रथमान्तपदों का भी यह समास प्रयोजनवश माना जाता है। इसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे—कण्ठे कालो यस्य स 'कण्ठेकालः' पद्मं नाभौ यस्य स 'पद्मनाभः' दण्डः पाणी यस्य स 'दण्डपाणिः' इत्यादि।

तद्गुणसंविज्ञान और अतद्गुणसंविज्ञान के भेद से यह समास दो प्रकार का होता है। जहाँ पर आनयनादि क्रिया में अन्य पदार्थ के साथ २ समास मध्यवर्ती पदार्थों का भी विशेषणरूप से बोध होता है वहाँ उसे तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे—'लम्बकर्णपुरुषमानय' यहाँ पर आनयन क्रिया में पुरुष के साथ २ लम्बे कर्णों का भी अन्वय होता है इसलिए यह तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि कहलाता है और जहाँ क्रिया में अन्य पदार्थों के साथ २ समास के मध्यवर्ती पदार्थों का अन्वय नहीं जाना जाता हो वहाँ उसे अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे—'दृष्टसागर—पुरुषमानय'। यहाँ पर आनयन क्रिया में पुरुष के साथ २ समुद्र का अन्वय नहीं होता है वहाँ यह अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि कहलाता है। इस समास में सप्तम्यन्त और विशेषण वाचक शब्दों का पूर्वप्रयोग ही होता, जो ऊपर के उदाहरणों में स्पष्ट प्रतीत होता है। इसमें अन्य पदार्थों के लिङ्गों के अनुसार ही समास के मध्यवर्ती पदों का लिङ्ग हो जाता है, यह बात भी ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट ही प्रतीत हो रही है। इस समास में कहीं पर अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं भी रहती, जैसे 'द्वित्राः' पञ्चषा' त्रिचतुराः' ( दो या तीन, पाँच या छै, तीन या चार ) इन स्थलों में समास के मध्यवर्ती पदार्थों की ही प्रधानता देखी जाती है।



५. 'उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः'—'सर्वपदार्थप्रधानो वा द्वन्द्वः' जिसमें समासमध्यवर्ती सभी पदार्थ मुख्यरूप से जाने जाते हैं उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। जैसे 'घटपटौ' घड़ा और कपड़ा दोनों ही मुख्य रूप से प्रतीत होते हैं। 'हरिहरगुरव' (विष्णु, महादेव और गुरु) ये तीनों ही मुख्यरूप से जाने जाते हैं। चार्थ में यह समास होता है। चकार के निम्न चार अर्थ माने गये हैं—

(१) समुच्चय, (२) अन्वाचय, (३) इतरेतरयोग और (४) समाहार।

१. परस्परनिरपेक्षध्यानेकस्यैकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः—जहाँ पर एक क्रियापद की आवृत्ति करके उसमें पहिले असमस्थमान एक पदार्थ का अन्वय होता है, बाद में दूसरे का अन्वय होता है उसी को समुच्चय कहते हैं जैसे—'ईश्वरं गुरुञ्च भजस्व' यहाँ पर गुरु का च शब्द के साथ सम्बन्ध होने से ईश्वर सापेक्षत्व है किन्तु ईश्वरका गुरुसापेक्षत्व नहीं है क्योंकि ईश्वर के साथ च शब्द का सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये यहाँ एक ही च शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी दशा में 'ईश्वरं भजस्व' 'गुरुञ्च भजस्व' इस प्रकार से दो वाक्य बन जाते हैं। इसलिये यहाँ पर उत्करीति से ईश्वर गुरु को परस्पर निरपेक्ष होकर ही भजन क्रिया में क्रमसे कर्मरूपेण अन्वय होने के कारण परस्पर अन्वय नहीं होने से सामर्थ्य नहीं रहा, अतः समास भी नहीं हो सका क्योंकि तन्मर्थः पदविधिः इसके अनुसार परस्पर सामर्थ्य रहने पर ही समास होता है।

२. 'अन्यतरस्यानुपङ्गिकत्वेऽन्वाचयः'—जहाँ पर एक क्रिया में एक पदार्थ का अप्रधानत्वसे अन्वय होता है और दूसरी क्रिया में दूसरे का मुख्यरूप से अन्वय होता है उसे अन्वाचय कहते हैं जैसे—'भिक्षां गौं चानय' यहाँ पर भिक्षाप्राप्त करना जरूरी है किन्तु गौ का जाना कोई जरूरी नहीं मान्य पड़ता, हाँ इतना अवश्य जो कहीं मिल जाय तो गौ को भी लेते जाना, यही वक्ता का अभिप्राय है न कि उसके लिये कोई विशेष प्रयत्न करना जरूरी है, इसलिये यहाँ पर एक की प्रधानता और दूसरे की अप्रधानता होने से परस्पर अन्वय नहीं हो सकने के कारण सामर्थ्याभाव से समास नहीं होता है।

३. 'मिलितानामन्वये इतरेतरयोगः'—जहाँ पर परस्पर अपेक्षित समुदित का एक क्रिया में अन्वय होता है उसे इतरेतर योग कहते हैं। जैसे 'ध्वश्व खान्दिरश्चेति ध्वखद्विरो' छिन्धि, यहाँ पर समुदित ध्व और खद्विर का ही एक

साथ छेदन क्रिया में अन्वय होने से परस्पर साहित्य हो जाने के कारण सामर्थ्य रहने से समास हो जाता है और दोनों की प्रधानता होने से द्विवचन होता है ।

४. 'समूहः समाहारः'—समुदाय को ही समाहार कहते हैं । जैसे—'पाप्योः पादयोश्च समाहारः पाणिपादम्' यहाँ पर समुदाय में दो हाथ और दो पाद का एक साथ ही अन्वय होने से परस्पर साहित्य हो जाने से सामर्थ्य की क्षति नहीं हुई इसलिये समास ही गया । किन्तु इसमें समुदाय की प्रधानता और एकत्व होने से तपुंसकत्व और एक वचन ही आता है । जैसे—'संज्ञापरिभाषम्' 'मार्दङ्गिकपाणिभिरम्' 'रथिकाश्वारोहम्' इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है । इसमें अल्प स्वरवाले पदों का पूर्व प्रयोग होता है । जैसे—'शिवकेशवी' इत्यादि । पूज्यवानक शब्दों का भी पूर्व प्रयोग हो जाता है जैसे—'तापसपर्वती' इत्यादि । इकारान्त और उकारान्त प्रिसंज्ञकका भी पूर्व प्रयोग हो जाता है । जैसे—'हरिहरौ' इत्यादि । ब्राह्मणादिवर्गों में क्रमसे ही पूर्व प्रयोग होता है । जैसे—'ब्राह्मण क्षत्रियविट्शूद्राः' इत्यादि । लघु अक्षर का भी पूर्व प्रयोग होता है । जैसे—'कुशकाशम्' इत्यादि । आतृवाचक शब्दों में बड़ों का ही पूर्व प्रयोग होता है । जैसे—'युधिष्ठिरानुतौ' इत्यादि । समान अक्षरवाले ऋतु और नक्षत्र वाचक शब्दों में क्रम से ही पूर्व प्रयोग होता है । जैसे—'हेमन्तशिशिरवसन्ताः' कृत्तिकारोहिष्णौ' इत्यादि । अप्राणिवाचक जाति शब्दों का समाहार द्वन्द्व ही होता है । जैसे—'धाना शङ्कुलि' इत्यादि ।

## ( ३ ) तिङ्ङन्त-विचार—

प्रयोग कालमें घातुके उत्तर जो 'तिङ्' विभक्ति होती है; उस तिङ् विभक्तिके योगसे जो पद निष्पन्न होता है वह 'तिङ्ङन्त' कहलाता है ।

लट् लिट् लृट् लृट् लोट् लाट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ्—

कालका ज्ञान एवं विविध आदिकः अर्थज्ञान कराने के लिए घातुके बाद लडादि तिङ् विभक्तियों दश प्रकार की होती हैं । इनमें 'लिट्' का प्रयोग त्रैश्वमेय होता है ।

### १—वर्तमाने लट्—

वर्तमान क्रियावृत्ति घातु से लट् लकार होना है ।

नोट—जिसमें क्रिया का प्रारम्भ हो उसे 'वर्तमान' कहते हैं । वर्तमान सामीप्य रहने पर भूत और भविष्यत् कालमें भी 'लट्' होता है । यथा—'इदानीमेव आगच्छामि' ( अभी आया हूँ ) । 'अग्रमहं गच्छामि' ( मैं अभी जाऊंगा ) । 'स्म' के योगसे भूत कालमें भी 'लट्' का प्रयोग होगा है । यथा—'स पठतिस्म' ( उसने पढ़ा ) । यावत् के योगसे भविष्यत् कालमें भी 'लट्' का प्रयोग होता है । यथा—'स यावत् नागच्छति' ( वह जब तक नहीं आयागा ) ।

लकारके स्थानमें तिवादि विभक्तियां होती हैं ( पृ० ३० की टि० देखो ) विभक्तियोंमें ३ पुरुष होते हैं—प्रथम, मध्यम और उत्तम । क्रियाके साथ युष्मद् या अस्मद् शब्दसे भिन्न शब्दोंके प्रयोग रहने पर प्रथम पुरुष, युष्मद् शब्दके प्रयोग रहने पर मध्यम पुरुष और अस्मद् शब्दके प्रयोग रहने पर उत्तम पुरुष होता है, तथा कर्ता का जो बचन रहे वही क्रिया का भी बचन होता है । यथा—  
१. बालकः पठति । बालकौ पठतः । बालकाः पठन्ति । २. त्वं पठसि । युवां पठथः । यूयं पठथ । ३. अहं पठामि । आवां पठामः । वयं पठामः ।

### ३—परोक्षे लिट्—

भूत अनद्यतन और परोक्षार्थ वृत्ति जो घातु उससे 'लिट्' लकार होता है ।

नोट—अनद्यतन कालके दो भेद हैं—भूत और भविष्यत् । पूर्व दिन की आधी रात ( १२ बजे ) तक जो क्रिया हुई हो वह भूत अनद्यतन और आगामी ( आज ) रातके बारह बजेके बाद जो क्रिया होने वाली हो वह भविष्यत् अनद्यतन ( लृट् ) की क्रिया कही जाती है । लक्षण यथा—'अतीताया रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितौ दिवसोऽद्यतनः, तद्भिन्नोऽनद्यतनः ।'

‘परोक्ष’ उसको कहते हैं जिसमें वक्ताका प्रत्यक्ष नहीं हो। एवं च सिद्ध यह हुआ कि ‘परोक्ष’ और ‘अनद्यतन’ भूत कालमें ‘लिट्’ का प्रयोग हो। यथा—  
‘रामो बालिनं जाघान। स्मरण रहे कि चेतविक्षेपमें तथा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करने पर प्रत्यक्ष ( उत्तम पुरुष) में भी ‘लिट्’ का प्रयोग होता है।  
यथा—१. ‘सुप्तोऽहं किल विललाप’ २. ‘नाऽहं कलिङ्गां जगाम।

३—अनद्यतने लुट्—

भविष्यत् अनद्यतन अर्थमें घातुसे लुट् लकार होता है।

४—लट् शेषे च—

भविष्यत् अर्थमें घातुसे लृट् लकार होता है; त्रिव्यर्थकः क्रिया रहे या न रहे।

नोट—एक क्रिया यदि दूसरी क्रियाके लिये हो रही हो तो उस क्रियाको ‘क्रियार्थक क्रिया’ कहते हैं। यथा—‘पठितुं गच्छति’ इति—‘पठिष्यति’।

५—लोट् च—

विध्यादि अर्थोंमें घातुसे लोट् लकार होता है।

६—आशिषि लिङ्लोटौ—

आशीर्वाद अर्थ में घातुसे लिङ् और लोट् लकार होता है।

७—अनद्यतने लङ्—

अनद्यतन भूतार्थवृत्ति घातुसे ‘लङ्’ लकार होता है।

८—विधिनमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्—

विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना अर्थोंमें घातुसे ‘लिङ्’ लकार होता है।

नोट—विध्यादि अर्थोंमें लोट् का भी विधान हो चुका है। अब यहाँ दोनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—विधिः=प्रेरणम्; भृत्यादेर्निष्ठस्य प्रवर्तनम्। जैसे—‘भवान् वस्त्रं क्षालयतु, क्षालयेद्वा। निमन्त्रणं=नियोगकरणम्, आवश्यके श्राद्धभोजनादी दौहित्रादेः प्रवर्तनम्। जैसे—‘इह मातामहश्राद्धे दौहित्रादयो भवन्तः भुञ्जताम् वा भुञ्जीरन्। आमन्त्रणं=कामचारानुज्ञा। जैसे—मत्पुत्रोत्सवे भवान् आगच्छतु, आगच्छेद्वा। अधीष्टः=सत्कारपूर्वको व्यापारः। जैसे—मदात्मजं चन्द्रशेखरं गोपालं वा भवान् अध्यापयतु अध्यापयेद्वा। सम्प्रश्नः—सम्प्रधारणम्। जैसे—किं भोः व्याकरणं भवान् अधीयीत, उत तर्कम्? प्रार्थनं = याच्या। यथा—भवान् मे फलं ददातु दद्याद्वा।

६—माङि लुङ्—

‘माङ् उपपद रहने पर धातुसे लुङ् लकार होता है।

१०—लिङ् निमित्तो लृङ् क्रियातिपत्तौ —

भविष्यत् अर्थ में विद्यमान धातुसे हेतुहेतुमद्भावादि ( कार्यकारणभावादि )  
‘अर्थमें ‘लृङ्’ लकार होता है, क्रियाकी अतिष्पत्ति यदि गम्यमान रहे।

११—लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः—सकर्मक धातुसे कर्म और  
कर्तामें उदा अकर्मक धातुसे भाव ओर कर्तामें लकार होता है।

नोट—१ कर्तृवाच्यमें कर्ता प्रथमान्त और कर्म द्वितीयान्त तथा क्रिया के  
पुरुष-वचन कर्ताके अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यथा—‘इन्दुमती पुष्पं चिनोति’।  
एवं कर्म वाच्यमें कर्ता तृतीयान्त और कर्म प्रथमान्त तथा क्रिया के पुरुष-वचन  
कर्मके अनुसार होते हैं। यथा—‘गोपालेन वेदाः पठ्यन्ते’। एवं भाव वाच्यमें  
कर्ता कर्म वाच्यवत् तृतीयान्त होता है पर कर्म नहीं होता तथा क्रिया सर्वैव प्रथम  
पुरुष का एक वचनान्त ही होती है। यथा—‘अस्मानिः स्थीयते’। तथाहि-

‘प्रयोगे कर्तृवाच्यस्य कर्तरि प्रथमा भवेत् ।

द्वितीयाः कर्मणि तथा क्रिया कर्तृपदान्विता ॥

प्रयोगे कर्मवाच्यस्य तृतीया स्यात् कर्तरि ।

कर्मणि प्रथमा चैव क्रिया कर्मानुसारिणी ॥

कर्ताभावः सदा भावे तृतीया चैव कर्तरि ।

प्रथमः पुरुषश्चैकवचनं च क्रियापदे ॥’

१२—भावकर्मणोः—

भाववाच्य और कर्मवाच्य में लकारके स्थानमें आत्मनेपद होता है।

१३—सार्वधातुके यक्—

भाववाची ओर कर्मवाची सार्वधातुकके परे धातुसे ‘यक् प्रत्यय होता है।

नोट—भाव क्रियाको कहते हैं। वह भावार्थक लकारसे अनूचित होता है।  
भावमें प्रत्यय करनेपर ‘तिङ्’ के साथ युष्मद् अस्मद् शब्द एकार्थवाचक नहीं होते,  
अतः धातुसे प्रथम पुरुष ही होता है। कर्तामें प्रत्यय करनेपर तिङ्, और युष्मद्-  
अस्मद् शब्द कर्तारूप एकार्थके वाचक होते हैं, अतः धातुसे मध्यम—उत्तम पुरुष  
होते हैं) तिङर्थ क्रियाके द्रव्यरूप न होनेसे द्वित्व, बहुत्व संख्याकी प्रतीति नहीं  
होती। इसलिये द्विवचन बहुवचन नहीं होते, किन्तु स्वाभाविक एकवचन ही होता

है । भावमें प्रत्यय होनेपर कर्त्तिके अनुक्त होनेसे कर्त्तसे तृतीया विभक्ति होती है । जैसे—‘त्वं भवसि’ इस अर्थमें ‘त्वया भूयते’ इत्यादि ।

फल और व्यापार घातुके अर्थ होते हैं—‘फलव्यापारयोधतिः’ व्यापारका आश्रय कर्त्ता और फलका आश्रय कर्म होता है । जिसका फल और व्यापार भिन्न २ अश्रयमें हो उसे सकर्मक कर्त्ते हैः—‘फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्’ । यथा—‘देवदत्तः तण्डुलं पचति’ यहाँ विक्रिप्ति रूप फल तण्डुलमें और पाकरूप व्यापार देवदत्तमें है, अतः ‘पच्’ घातुको सकर्मक समझना चाहिए । जिसका फल और व्यापार एक ही आश्रयमें हो उसे अकर्मक कहते हैं—‘फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वम्’ । यथा—‘गोपालः शेते’ यहाँ विश्राम रूप फल और चक्षुनिमीलनादि रूप व्यापार भी गोपालमें हैं, अतः ‘शीङ्’ घातु अकर्मक है ।

[सामान्यनियमः—साकार्षित क्रिया ‘सकर्मक’, यथा—पठति, खादति आदि २ । क्या पढ़ता है ? क्या खाता है ? । एवं निराकार्षित क्रिया ‘अकर्मक’, यथा—जागता है हंसता है । यहाँ क्या जागता है, क्या हंसता है, इत्यादि आकांक्षा ही नहीं उठती । ]

विशेष नियम—

‘घातोरथान्तरे वृत्तेषत्वर्थेनोपसंग्रहात् ;

प्रसिद्धेरवि वक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया’ ॥

यहाँ पर प्रत्येक वाक्यका अर्थ इस प्रकार है—

१. सकर्मक घातु यदि अर्थान्तर (अकर्मक क्रियारूप अर्थान्तर) को कहने लगे तो वह अकर्मक हो जाती है । यथा ‘भारं वहति=प्रापयति’ यहाँ प्राणार्थक ‘वह’ घातु सकर्मक है, परन्तु यही अर्थान्तर (स्यन्दतेरूप अर्थ) में प्रवृत्त होकर कहीं अकर्मक होती है । यथा ‘नदी वहति=स्यन्दते-प्रस्रवति’ ।

२. यदि कर्मका घात्वर्थसे उपसंग्रह हो जाय तो घातु अकर्मक हो जाती है । यथा ‘जीवति’ नृत्वति’ यहाँ ‘जीव’ का प्राणधारण करना और ‘नृत्’ का अङ्गविक्षेप करना अर्थ है । परन्तु दोनों जगह प्राण और अङ्ग रूप कर्मका घात्वर्थ में ही अन्तर्भाव हो जाता है अतः ये दोनों घातु सकर्मक नहीं होते ।

३. कहीं प्रसिद्ध कर्म रहने पर भी घातु अकर्मक हो जाती है । है यथा ‘मेघो’

वर्षति' अर्थात् मेघो जलं वर्षति । यहां पर जलकर कर्म प्रसिद्ध है, क्योंकि मेघ जल ही वर्षाता है आग वगैरह नहीं । इसलिये घातु अकर्मक कही जाती है ।

४. कर्मकी अविचक्षा करने पर भी घातु अकर्मक हो जाती है, यथा—  
'हितान्न यः संश्रुणुते स किं प्रभुः' ( हितात् हितपुरुषात् यः न संश्रुणुते = स्वहितं न मन्यते, स किं प्रभुः, कृत्स्न इत्यर्थः ) यहां पर स्वहितरूप कर्मकी अविचक्षा करने पर घातु अकर्मक हो जाती है ।

'अकर्मकोप्युत्सर्गवशात्सकर्मकः'—अकर्मक घातु भी उत्सर्गवशात् सकर्मक हो जाती है । यथा—'अनुभूयते आनन्दश्चैत्रेण' इत्यादि । यहां अनुपूर्वक भूषातु अनुभवार्थक होनेसे सकर्मक हो गया और उससे कर्ममें भी प्रत्यय सिद्ध हुआ : कर्म उक्त होनेपर कर्मसे प्रथमा और कर्ता अनुक्त होनेपर कर्तासे तृतीया विभक्ति होती हैं । एवं कर्मके एकवचन रहनेपर क्रिया प्रथम पुरुषके एकवचन, द्विवचन रहनेपर द्विवचन और बहुवचन रहनेपर बहुवचन होती है । देवल युष्मद् कर्म रहनेपर मध्यम पुरुषकी और अस्मद् कर्म रहनेपर उत्तम पुरुषकी क्रिया होती है । यथा—गोपालेन आनन्दः अनुभूयते, गोपालेन आनन्दां अनुभूयते गोपालेन आनन्दाः अनुभूयन्ते । एवं गोपालेन त्वस् अनुभूयसे, गोपालेन युवाम् अनुभूयेथे, गोपालेन यूयम् अनुभूयध्वे । गोपालेन अहम् अनुभूये, गोपालेन आवाम् अनुभूयावहे, गोपालेन वयम् अनुभूयामहे ।

( इसीप्रकार अन्यत्र भी समझना ) ।

नोट—अकर्मक घातु प्यन्त होनेपर भी सकर्मक हो जाता है और सकर्मक होनेपर उससे कर्ममें भी प्रत्यय होने लगता है तथा कर्मातुसार क्रिया होती है । यथा कर्ताभिः—गोपालः भवांत चन्द्रशेखरः तं प्रेरयति, इति चन्द्रशेखरः गोपालं भावयति । कर्मभिः—चन्द्रशेखरेण गोपालः भाव्यते, गोपालौ भाव्येते गोपालाः भाव्यन्ते । एवं—चन्द्रशेखरेण त्वं भाव्यसे, युवां भाव्येथे, यूयं भाव्यध्वे । अहं भाव्ये, आवाम् भाव्यावहे, वयम् भाव्यामहे ।

द्विकर्मक घातुओंके किञ्च कर्ममें लकार होगा इसकी व्यवस्था निम्न है:-

'गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम् ।

बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया ॥

प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां प्यन्तानां लादयोः मताः ॥

अर्थात् हुह्, याच्, पच्, दण्ड, रुषि, प्रच्छि, चि, ब्रू, शासु, जि, मन्थ, मुष् इन घातुओं के ( अकथितञ्चेति सूत्रविहित ) गौणकर्ममें लकार होता है । ( इसलिये गौण कर्मसे ही प्रथमा विभक्ति होती है, यथा 'गौदुह्यते पयः' । नी, ह, कृप्, तथा वह घातुओंके ( 'अकथितञ्च' से भिन्न सूत्रविहित ) प्रधान कर्ममें लकार होता है, ( इस लिये प्रधान कर्मसे प्रथमा विभक्ति होती है ) यथा 'अजा ग्रामं नीयते' । बुद्धार्थक, भक्षार्थक, और शब्दकर्मक घातुओंके ( 'गतिबुद्धि' सूत्रविहित गौण या तदतिरिक्त सूत्रविहित प्रधान ) दोनों कर्मोंमें स्वेच्छासे लकार होता है ( इसलिये प्रधानाऽऽप्रधान ह्यय कर्मसे प्रथमा विभक्ति होती है ) यथा- 'बोध्यते माणवकं धर्मः, माणवको धर्मस्' इति वा । अन्येषां—पूर्वात्तोसे अन्य अर्थात् प्यन्त जो गत्यर्थक, अकर्मक तथा 'हृक्कोरन्यतरस्याम्' इव सूत्रोपात्त हृञ् और कृञ् घातुओंके प्रयोज्य कर्ममें लकार होता है ( अतः प्रयोज्य कर्मसे प्रथमा विभक्ति होती है ) यथा—मात्तमास्यते माणवकः, हार्यते कार्यते वा भृत्यः कटं गोपालेन ।

### १४—कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः—

कर्मस्था ( कर्ममें वर्तमान ) जो क्रिया उसके समान ही क्रिया है जिसकी ऐसा जो कर्ता, वह कर्मवत् हो, इससे यगादि होते हैं । ( जहां कर्ममें क्रियाकृत विलक्षणता दिखाई पड़े वहां कर्मस्था क्रिया होती है । जैसे पके ओदनमें । )

नोट—कर्म ही यदि कर्ता हो अर्थात् क्रियाका कर्तृत्व यदि कर्ममें आरोपित हो तो 'कर्म कर्ता' हो जाता है और प्रायः सकर्मक सभी घातु अकर्मक हो जाते हैं, इसलिये भाव और कर्ता में लकार होता है । भाव वाच्य में कर्म कर्ता से तृतीया हो जाती है । जैसे—भिद्यते काष्ठेन' इत्यादि और कर्तृवाच्यमें कर्म-कर्तासे प्रथमा विभक्ति होती है. अन्य कर्म पद नहीं रहता तथा क्रियाका रूप कर्मवाच्यकी क्रियाके तुल्य होता है । यथा—'काष्ठं भिद्यते स्वयमेव' । कार्य करनेके समय जो 'कर्मकारक' कर्ताके सुखकर निग्रगुणोंके स्वयं ही सिद्ध होता है, उसे 'कर्मकर्ता' कहते हैं । कहा भी हैः—

'क्रियमाणं तु यत् कर्म स्वयमेव प्रसिध्यति ।  
सुकरैः स्वैर्गुणैः कर्तुः 'कर्मकर्ते'ति तद्विदः ॥'



## ( ४ ) कृदन्त-विचार—

‘कृत्’ प्रत्यय धातुके अन्तमें प्रयुक्त होते हैं और उनके योद्धसे बड़े शब्द ‘कृदन्त’ कहलाते हैं। कर्तृवाच्यमें कृदन्त की क्रिया कर्त्तृका विशेषण और कर्म वाच्यमें कर्मका विशेषण होती है तथा भाववाच्यमें नपुंसकलिंगका एक वचनान्त होती है। यथा—

कर्तृवाच्य—स अस्मान् उक्तवान् ।

कर्मवाच्य—तेन वयमुक्ताः ।

भावाच्य—तेन उक्तम् ।

कृदन्तके निम्न मुख्य पांच प्रत्ययों पर ध्यान दो—

१. तव्य-अनीयर्—इनके प्रयोगमें कर्त्तृसे तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। सकर्मक धातुसे ये प्रत्यय होनेपर तीनों लिङ्ग और तीनों वचन होते हैं, और अकर्मक धातुसे होनेपर केवल नपुंसक लिंग और एक वचन ही प्रयुक्त होते हैं। यथा—‘तेन ( तस्य वा ) पाठः पठितव्यः’। त्वयेदं कर्त्तव्यम्, करणीयं वा’ ‘तेन आसितव्यम्’। प्रायः ‘विधि’ अर्थमें ही इसका प्रयोग होता है।

२. क्त—‘क्त’ प्रत्यय भूतकालमें होता है और ‘क्त’ प्रत्ययान्त क्रिया के कर्त्तृसे तृतीया और कर्मसे प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्मके लिंगके अनुसार ही क्तप्रत्ययान्त पदका लिंग होना है। जैसे—‘तेन माजा निर्मिता। मया फलं भक्षितम्’। अकर्मक धातुसे भावमें ‘क्त’ प्रत्यय प्रायः नपुंसक लिंगमें होता है। जैसे—‘मया हसितम्’। कुछ धातु ऐसी भी हैं जिनसे ‘क्त’ प्रत्यय कर्त्ता में भी होता है। जैसे—‘गन्तव्यं अकर्मक, शिष्य, शोड, स्या, आस, वस, जन, रह और जृ, धातु। उदाहरण यथा—‘व्रतं गतो रामः’। इत्यादि।

२. क्तवतु—‘क्तवतु’ प्रत्यय भी भूतकालमें होता है, परन्तु यह कर्त्तृमें ही होता है और कर्तृवाच्यके अनुसार कर्त्ता और कर्मसे विभक्तिगं भी होती हैं। जैसे—‘अहं पुस्तकं पठितवान्। तौ पुस्तकं पठितवन्तौ’।

४. क्त्वा—जब एक क्रियाके बाद दूसरी क्रिया को जाती है तब प्रथम कालिक क्रियासे ‘क्त्वा’ प्रत्यय किया जाता है और क्त्वा प्रत्ययान्त क्रिया अव्यय

रूपसे प्रयुक्त होती है तथा कर्मआदि मुख्य (द्वितीय) क्रियाके अनुसार ही होते हैं ।  
यथा—‘शत्रून् जित्वा निवर्तते रामः’ । ‘क्त्वा’ प्रत्ययान्त क्रियाके पूर्व यदि कोई उपसर्ग रखा जाय तो ‘क्त्वा’ के स्थान पर ‘य’ हो जाता है । जैसे—  
विजित्य, निहत्य, आदि ।

५. तुमुन्—जब एक क्रिया करनेके लिये दूसरी क्रिया की जाती है, तब प्रथम क्रियासे ‘तुमुन्’ प्रत्यय होना है और तुमुन्प्रत्ययान्त अव्यय हो जाता है । ‘तुमुन्’ प्रत्ययान्त क्रियाके कर्मादि प्रथम क्रियाके साथ संबद्ध होते हैं । परन्तु कर्ताका संबन्ध मुख्य क्रियासे ही होता है ।

जैसे—‘इन्द्रियाणि जेतुमुपक्रमते’ । ।

### ( ५ ) संख्याओंका गणनाक्रम—

१ = एकन्	९ = नव	१८ = अष्टादश
२ = द्वे	१० = दश	ऊनविंशतिः एकोनविंशतिः
३ = त्रीणि	११ = एकादश	
४ = चत्वारि	१२ = द्वादश	१९ = एकात्रिंशतिः एकाद्विंशतिः
५ = पञ्च	१३ = त्रयोदश	२० = विंशतिः
६ = षट्	१४ = चतुर्दश	२१ = एकविंशतिः
७ = सप्त	१५ = पञ्चदश	२२ = द्वविंशतिः
८ = अष्टौ अष्ट	१६ = षोडश	२३ = त्रयोविंशतिः
	१७ = सप्तदश	

( १, ३ ) ‘द्व्यष्टनः संख्यायाः बहुव्रीह्योः’ = द्विशब्दस्य अष्टन् शब्दस्य च संख्या  
वाचके उत्तर पदे परे आत्स्यात्, न तु बहुव्रीहौ, अशीतिपरे चेत्यर्थः । बहुव्रीहौ निषेधात्  
द्वौ वा त्रयो वेति विग्रहे ‘संख्याव्यये’ नि बहुव्रीहौ द्वित्राः’ इत्यत्र आत्वं न भवति ।  
अशीतिपरे आत्वंनेत्यस्योदाहरणन्तु अनुपदमेव ‘द्व्यशीति इति शक्यामः । ( ४ ) एकेन  
न विंशतिः इति विग्रहः । ‘एकादिश्चैकस्य चादुक’ इति नमः प्रकृतिभावे अदुभागमेव दीर्घे  
अनुनासिको विकल्पः । ( २, ५ ) त्रैस्त्रयः’ = प्राक्शतात् संख्याशब्दे उत्तरपदे परतः  
त्रि शब्दस्य त्रयस्वादेशः स्यात् न तु बहुव्रीहौ, अशीतिपरे चेत्यर्थः । एवञ्च त्रयसादेशो रत्वे

२४ = चतुर्विंशतिः  
 २५ = पञ्चविंशतिः  
 २६ = षड्विंशतिः  
 २७ = सप्तविंशतिः  
 २८ = अष्टाविंशतिः  
 २९ { ऊनत्रिंशत्  
 { एकोनत्रिंशत्  
 ३० = त्रिंशत्  
 ३१ = एकत्रिंशत्  
 ३२ = द्वात्रिंशत्  
 ३३ = त्रयस्त्रिंशत्  
 ३४ = चतुस्त्रिंशत्  
 ३५ = पञ्चत्रिंशत्  
 ३६ = षट्त्रिंशत्  
 ३७ = सप्तत्रिंशत्  
 ३८ = अष्टत्रिंशत्  
 ३९ { ऊनचत्वारिंशत्  
 { एकोनचत्वारिंशत्  
 ४० = चत्वारिंशत्  
 ४१ = एकचत्वारिंशत्  
 ४२ { द्वाचत्वारिंशत्  
 { द्विचत्वारिंशत्  
 ४३ { त्रयश्चत्वारिंशत्  
 { त्रिचत्वारिंशत्  
 ४४ = चतुश्चत्वारिंशत्  
 ४५ = पञ्चचत्वारिंशत्  
 ४६ = षट्चत्वारिंशत्

४७ = सप्तचत्वारिंशत्  
 ४८ { अष्टाचत्वारिंशत्  
 { अष्टचत्वारिंशत्  
 ४९ { ऊनपञ्चाशत्  
 { एकोनपञ्चाशत्  
 ५० = पञ्चाशत्  
 ५१ = एकपञ्चाशत्  
 ५२ { द्विपञ्चाशत्  
 { द्वापञ्चाशत्  
 ५३ { त्रयःपञ्चाशत्  
 { त्रिपञ्चाशत्  
 ५४ = चतुःपञ्चाशत्  
 ५५ = पञ्चपञ्चाशत्  
 ५६ = षट्पञ्चाशत्  
 ५७ = सप्तपञ्चाशत्  
 ५८ { अष्टपञ्चाशत्  
 { अष्टपञ्चाशत्  
 ५९ { ऊनषष्टिः  
 { एकोनषष्टिः  
 ६० = षष्टिः  
 ६१ = एकषष्टिः  
 ६२ { द्विषष्टिः  
 { द्वाषष्टिः  
 ६३ { त्रयषष्टिः  
 { त्रिषष्टिः  
 ६४ = चतुःषष्टिः  
 ६५ = पञ्चषष्टिः  
 ६६ = षट्षष्टिः

६७ = सप्तषष्टिः  
 ६८ { अष्टाषष्टिः  
 { अष्टषष्टिः  
 ६९ { ऊनसप्ततिः  
 { एकोनसप्ततिः  
 ७० = सप्ततिः  
 ७१ = एकसप्ततिः  
 ७२ { द्विसप्ततिः  
 { द्वासप्ततिः  
 ७३ { त्रयःसप्ततिः  
 { त्रिसप्ततिः  
 ७४ = चतुःसप्ततिः  
 ७५ = पञ्चसप्ततिः  
 ७६ = षट्सप्ततिः  
 ७७ = सप्तसप्ततिः  
 ७८ { अष्टासप्ततिः  
 { अष्टसप्ततिः  
 ७९ { अनाशीतिः  
 { एकोनाशीतिः  
 ८० = अशीतिः  
 ८१ = एकाशीतिः  
 ८२ = द्व्यशीतिः  
 ८३ = त्र्यशीतिः  
 ८४ = चतुरशीतिः  
 ८५ = पञ्चाशीतिः  
 ८६ = षड्शीतिः  
 ८७ = सप्ताशीतिः  
 ८८ = अष्टाशीतिः

आगुक्तम् (द्वि-अष्टनोरात्वं, त्रिशब्दस्य त्रयसादेशश्च) वा स्यात् चत्वारिंशत्शतौ परे  
इत्यर्थः ।

(४-६) 'द्वयगुनः संख्यायाम बहुत्रोहो, इति सूत्रे, त्रैस्त्रयः' इति सूत्रे च न तु

५६	{ ऊननवतिः एकोननवतिः	६४ = चतुर्णवतिः	६६	{ नवनवतिः ऊनशतम् एकोनशतम्	
६० =	नवतिः	६५ = पञ्चनवतिः	१०० =	शतम्	
६१ =	एकनवतिः	६६ = षण्णवतिः	१०१ =	एकशतम्	
६२	{ द्वावनवतिः द्विनवतिः	६७ = सप्तनवतिः	१०२ =	द्विशतम्	
१३	{ त्रयोनवतिः त्रिनवतिः	६८ =	{ अष्टानवतिः अष्टनवतिः	१०३ =	त्रिशतम्,

इत्यादि ।

अथ संख्यायाः कुत्र विश्राम इत्याह—

“एकं दश शतञ्चैव सहस्रमयुतं तथा ।  
लक्षञ्च नियुतञ्चैव कोटिरबुद्धमेव च ॥  
वृन्दं खर्वो निखर्वत्र शङ्खः पद्मश्च सागरः ।  
अस्त्यं मध्वं परार्द्धश्च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् ॥”

अशीता वियुक्तत्वात् द्वयगुनशब्दोरात्वं, त्रिशब्दस्य त्रयसादेशश्चऽत्र न भवत्  
इत्यवधेयम् ।

(१) एकञ्च शतञ्चेति समाहारद्वन्द्वः । (२-३) द्वे च शतञ्च, त्रीणि च  
शतं च इति समाहारद्वन्द्वः। 'द्वयगुनः' इति सूत्रे 'त्रैस्त्रयः' इति सूत्रे च प्राक् शतादिति  
वक्तव्यम्' इत्युक्तत्वात् शतशब्दे परे द्विशब्दस्य आत्वं, त्रिशब्दस्य त्रयसादेशो न  
भवतीति । कर्नधारये तु 'द्विशतम्' इत्यस्य २००, 'त्रिशतम्' इत्यस्य ३००  
इत्यर्थो भवतीति दिक् । (४) एतन् संख्याः क्रमो नेदानीं व्यवहारे दृश्यते ।

एकम् = एकाई	.... १
दश = दहाई	.... १०
शतम् = सैकड़ा	.... १००
सहस्रम् = हजार	.... १०००
दशसहस्रम् = दश हजार	... १००००
लक्षम् = लाख	... १०००००
दशलक्षम् = दस लाख	.... १००००००
कोटिः = कड़ोर	... १०००००००
दशकोटिः = दश करोड़	... १००००००००
अर्बुदम् = अरब	... १०००००००००
दशार्बुदम् = दश अरब	... १००००००००००
खर्वः = खरब	.... १०००००००००००
दशखर्व = दश खरब	... १०००००००००००००
नीलम् = नील	... १००००००००००००००
दशनीलम् = दश नील	... १०००००००००००००००
पद्म = पद्म	.... १०००००००००००००००
दशपद्म = दश पद्म	... १०००००००००००००००००
शंखः = शंख	.... १०००००००००००००००००
महाशंख = दश शंख	.... १००००००००००००००००००

## ( ६ ) गुप्ताऽशुद्धिप्रदर्शनम्

१ पतिना रक्षिता २ सर्वा ३ दारा भवति ४ शोभना ५

सर्वा ६ विधिगृहानां ७ सा ८ करोति ९ मतिना १० मुदा ।। १ ।।

ते ११ गृहः १२ कुत्र १३ मित्रा इस्ति द्रक्ष्यामि १४ १५ सखेरह १६ ।

१. पत्या । पति शब्द को समास में ही विसंज्ञा होने से नाभाव नहीं होता ।
२. रक्षिताः । दारशब्द के 'दाराः पुंसि च भूमि एव' इस नियम से पुंलिङ्ग और नियत बहुवचनान्त होनेसे उसके विशेषण 'रक्षित शब्द भी वैसा होगा ।
३. सर्वे । दारशब्दका विशेषण होनेसे सर्वशब्द भी पुंलिङ्ग बहुवचनान्त होगा ।
४. भवन्ति । दाररूप कर्ता के अनुसार भवनक्रिया से बहुवचन होगा ।
५. शोभनाः । पूर्वोक्तनियमानुसार दारविशेषण शोभन से भी बहुवचन होगा ।
६. सर्वम् । 'स्यन्तो वुः' इसलिङ्गानुशासन क्रम से क्प्रत्ययान्त विधि शब्द के पुंलिङ्ग होने से उसका विशेषण सर्व शब्द भी पुंलिङ्ग होगा ।
७. गृहाणाम् । 'अङ्कुवाङ्' से णत्व हो जायगा ।
८. ते । तत् शब्द प्रस्तुत वृद्धिविषय के प्राङ्क होने के कारण उनस्थित दारा अर्थ का बोध क होने से पुंलिङ्ग बहुवचनान्त होगा ।
९. कुर्वन्ति । कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया में वचन और पुरुष की व्यवस्था होने से यहाँ बहुवचनान्त होगा ।
१०. मत्या । स्त्रीलिङ्ग में नाभाव का निषेध है अतः ना आदेश नहीं होगा ।
११. तव । 'अनुदात्तं सर्वमपादादौ' ऐसा सूत्र है अतः यहाँ पादके आदिमें रहनेसे तव को ते आदेश नहीं होगा ।
१२. गृहम् । 'गृहाः पुंसि च भूम्येव' इस नियम से एकत्व संख्या अर्थ में गृह शब्द से नपुंसक में एकवचन होना ही समुचित है ।
१३. मित्रा इ ! इस्ति । सम्बोधन में प्लुत होनेसे प्रकृतिभाव होगा ।
१४. द्रक्ष्यामि । दृष्धातुको अनिट् होनेसे लृट् में स्य प्रत्ययको इट् नहीं होगा ।
१५. सख्युः । सखि शब्द को विसंज्ञाका निषेध होनेसे 'धेङिति' से गुण न होकर यण् और 'ख्यत्यात्वरस्य' इस सूत्रसे उत्त्व हो जायगा ।
१६. अहम् । हल्के परे न होनेसे "मोऽनुस्वारः नहीं होगा ।

विहित्वा<sup>१</sup> सर्वकार्यानि<sup>२</sup> विप्र<sup>३</sup> दद्यां बहु<sup>४</sup> धनम् ॥२॥

प्रभुक्त्वा<sup>५</sup> त्वं गृहेगाद्य<sup>६</sup> आगतो<sup>७</sup> सखिता<sup>८</sup> सह ।

<sup>९</sup> भ्रातृत्वदीयमित्रोऽत्र<sup>१०</sup> नागत<sup>११</sup> केन हेतुना ॥ ३ ॥

तव<sup>१२</sup> नाकं गमिष्येऽङ्<sup>१३</sup> तोत्रेन् प्रेमस्थ<sup>१४</sup> बन्धने<sup>१५</sup> :

मरिष्ये<sup>१६</sup> नात्र संदेहस्तत्र जिष्यामि<sup>१७</sup> अनु<sup>१८</sup> निजम् ॥४॥

१. विधाय । 'नमासेऽनन्पूर्व' क्त्वा से क्त्वा का ल्यप् हो जानेपर तकरादिके परमें नहीं रहनेसे 'दधानेहि' से हि आदेश नहीं होगा ।
२. कार्याणि । रेफ के उत्तर नकार को 'अदृक्त्वाङ्' से णकार हो जायगा ।
३. विप्राय । दाघातु के योग में सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी हो जायगा ।
४. बहु । धन शब्दके विशेषण होनेसे बहुसे भी नपुंसकत्व होगा ।
५. प्रभुज्य । 'समासेऽनन्पूर्व' से ल्यप् हो जायगा ।
६. गृहान् । अपाय अर्थ भासित होनेपर ध्रुवने अभादानमें पञ्चमी हो जाती है ।
७. आगतः । 'वा शरि' इस सूत्रसे शर् परे रहने पर विकल्प से विसर्गको विसर्ग हो जाता है । पञ्चान्तरमें विसर्गको सकार हो जायगा ।
८. सख्या । मन्त्रि शब्द को चिन्त्रा नहीं होती अतः टाको ना नहीं होगा ।
९. भ्रातृत्वदीयम् । 'विसर्जनीयस्य सः' से विसर्ग को सकार हो गया ।
१०. मित्रम् । मन्त्रिवाचक मित्रशब्द नपुंसक ही माना गया है ।
११. नागतम् । नपुंसक मित्र का विशेषण होने से नपुंसक ही होगा ।
१२. तव्या । सहार्थवाचक शब्दके योगमें 'सहयुक्तोऽप्रधाने' से तृतीया होगी ।
१३. गमिष्यामि । गम्घातु परस्मैपदी है अतः तङ् नहीं होगा ।
१४. प्रेमन् प्रेमन् शब्द नकारान्त है इस लिये अदन्तत्व के अभाव होने से 'टाङ्'सङ्ज्ञामिनात्स्याः' इस सूत्र से ङ् को स्य आदेश नहीं होगा ।
१५. बन्धनात् । हेतु अर्थ में 'हेतौ' इस सूत्र से पञ्चमी हो जाती है ।
१६. मरिष्यामि । मृघातु को लुङ् लिङ् और शित्प्रत्यय में 'त्रियतेर्लुङ् लिङ्' लोश्च' इस सूत्र से आत्मने पद होनेसे लृट् में परस्मैपद ही होगा ।
१७. त्यक्ष्यामि । त्यज् घातुको अतिट् होने से इडागम नहीं हुआ ।
१८. असून् । असु शब्द बहुवचनान्त है । ( पुंसि भूश्चसवः प्राणाः' )
१९. निजान् । बहुवचनान्त असु के विशेषण होनेसे बहुवचनान्त होगा ।

वर्त्मनानेन<sup>१</sup> गच्छन्तः कर्म<sup>२</sup> कुर्वन्ति ये नरः<sup>३</sup> ।  
 नमस्कृत्वा<sup>४</sup> प्रभुं यान्ति मरित्वा<sup>५</sup> ते न संशयः ॥ ५ ॥  
 गुरुणा<sup>६</sup> श्रुतिमधीते नाधीती शब्दानुशासनम्<sup>७</sup> ।  
 न्यायशास्त्रमधीयन्तो<sup>८</sup> नो बिभ्यन्ति<sup>९</sup> केनचित्<sup>१०</sup> ॥ ६ ॥  
 ये नो ददन्ति<sup>११</sup> नो भुञ्जते<sup>१२</sup> पुनर्रमन्ति<sup>१३</sup> योषितैः<sup>१४</sup> ।

१. वर्त्मना । वर्त्मन् शब्द नान्त है अतः टाको इन आदेश नहीं हुआ ।
२. कर्म । कर्मन् शब्द नकारान्त नपुंसक है इसलिये 'स्वमोर्नपुंसकात्' से ङम् विभक्ति का लुक् होकर नकार का भी लोप हो जायगा ।
३. नराः । नर शब्द को अदन्त होने से जस् विभक्ति में 'प्रथमयोः' से दीर्घ हो जाता है । ऋकारान्त नृ शब्द के ग्रहण पक्ष में 'नरः' का प्रयोग ठीक ही है ।

४. नमस्कृत्य । गति संज्ञक नमः शब्द के साथ "कृत्वा" को "कुगति-प्रादयः" से समास होने पर "समासेऽनङ्पूर्वे" से क्त्वा को ल्यप् हो जायगा ।
५. मृत्वा । मृषातु अन्टि है इसलिये इडागम नहीं होना और कित् होने से "क्ङिति च" से गुण का निषेध भी हो जायगा ।
६. गुरोः । "आख्यातोऽयोगे च" से नियम पूर्वक जिससे विद्या ग्रहण करें उससे अपादान संज्ञा द्वारा पञ्चमी हो जाती है ।
७. शब्दानुशासने । "क्तस्येन्विपत्य कर्मण्युपसंख्यानम्" से सप्तमी होगी ।
८. अधीयानः । इङ्घातु आत्मनेपदी है इसलिये शानच् प्रत्यय होगा ।
९. बिभ्यति । भीषातु अभ्यस्त संज्ञक है इसलिये 'अदभ्यस्तात्' । से भि प्रत्यय का अत् आदेश हो जायगा ।
१०. कस्माच्चित् । भयार्थक घातु के योग में "भीत्रार्थानां भयहेतुः" से भय के हेतु वाचक शब्द के अपादान संज्ञा द्वारा पञ्चमी हो जाती है ।
११. ददति । दाघातु भी अभ्यस्त संज्ञक है अतः अदादेश होगा ।
१२. भुञ्जते । कर्ता के बहुत्व होने से बहुवचनकी क्रिया होगी ।
१३. पुनारमन्ते । रम् घातु आत्मनेपदी है इसलिये भ्रप्रत्यय का अन्त आदेश होकर "रोरि" इस से रेफ का लोप होने पर दीर्घ हो जायगा ।
१४. योषिभिः । योषित् शब्द तकारान्त है अतः ऐसा देश नहीं होगा ।



जहित्वा<sup>१</sup> सर्वं ते जान्ति<sup>२</sup> जगतेऽस्मिन्<sup>३</sup> विनिन्दितः ॥ ७ ॥  
 सन्धिवस्त्वया न कर्तव्या<sup>४</sup> महतो<sup>५</sup> रिपुणा सह ।  
 प्राप्ते<sup>६</sup> विपत्तौ धीरत्वं नो जहन्ति<sup>७</sup> महज्जनाः<sup>८</sup> ॥ ८ ॥  
 फले इमेऽतिमधुरे<sup>९</sup> बाला जक्षन्ति<sup>१०</sup> हृषिताः<sup>११</sup> ।  
 क्रीडन्ते<sup>१२</sup> च अहोरात्रं<sup>१३</sup> रोदन्ति<sup>१४</sup> न कदाचनः<sup>१५</sup> ॥ ९ ॥

- 
१. हात्वा । क्त्वा प्रत्यय आर्षं धातुक है इसलिये श्लु प्रत्यय नहीं होने से द्वित्व नहीं होगा ।
२. यान्ति । या धातु यकारादि है इसलिये जकारादी अशुद्ध है ।
३. जगति । जग्त् शब्द तान्त है अतः डिविभक्ति में गुण नहीं होगा ।
४. कर्तव्यः । सन्धि शब्द पुंलिङ्ग है अतः उसका विशेषण पुंलिङ्ग ही होगा
६. प्राप्तायाम् । विपत्तिशब्द 'क्तिन्नन्तं स्त्रियाम्' इस नियमसे स्त्रीलिङ्ग है । अतः उसका विशेषण होनेसे यह भी स्त्रीलिङ्ग हो जायगा ।
७. जहति । 'अदम्यस्तात्' से भिप्रत्ययको अत् आदेश होगा ।
८. महाजनाः । महत् शब्दको 'आन्महतः से आत्व होगा ।
९. इमे अतिमधुरे । 'इद्वेद्वद्विवचनम्' से प्रगृह्य होकर प्रकृतिभाव होगा ।
१०. जक्षति । 'जक्षित्यादयः षट्' से भिप्रत्ययका अत् आदेश होगा ।
११. हृषिताः । हृष्धातु अनिट् है अतः क्तप्रत्ययको इडागम और कित् होनेसे गुण नहीं हुआ ।
१२. क्रीडन्ति । क्रीडधातु परस्मैपदी है अतः आत्मनेपद नहीं होगा ।
१३. चाहोरात्रः । श्लोकनादके मध्यमें रहनेसे सन्धि और "रात्राहृनाहः पुंसि" से पुंस्त्व हो जायगा ।
१४. रोदन्ति । भिप्रत्ययको 'सार्वधातुकमपित्' से डित् होनेसे गुण नहीं होगा ।
१५. कदाचन । 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' से अव्यय होनेसे विभक्ति नहीं होगी ।

नीचाऽपि<sup>१</sup> ये नमस्यन्ति विष्णवे<sup>२</sup> कुप्यन्ति नो नवा ।  
प्राप्तवा<sup>३</sup> महत्वमाप्तास्ते वञ्चयन्ति<sup>४</sup> न सज्जनान् ॥ १० ॥

### (७) उपसर्ग-विचार—

उपसर्गको गति तीन प्रकारकी होती है। कोई उपसर्ग धातुके मुख्यार्थको बाधकर नवीन अर्थका बोध कराता है, कोई धात्वर्थका ही अनुवर्तन करता है और कोई विशेषण होकर उसी धात्वर्थको और भी स्फुटित कर देता है।

तदुक्तम्—

धात्वर्थ बाधते कश्चित्कश्चित्तमनुवर्त्तते ।  
विशिनष्टि तमेवाऽर्थमुपसर्गगतिस्त्रिधा ॥

अन्यञ्च—

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।  
प्रहाराऽऽहार-संहार-विहार-परिहारवत् ॥

विविध उपसर्गके बलसे धात्वर्थ भी विविध अर्थमें परिवर्तित होता है ।  
( निम्न परिशिष्ट नं० = देखो ) ।

- 
१. नीचा अपि । यलोप की असिद्धता होनेसे दीर्घ नहीं होगा ।
  २. विष्णुम् । कर्मत्व होनेसे कर्म में द्वितीया होगी ।
  ३. प्राप्य । 'समासेऽनञ्पूर्वे' से क्त्वा प्रत्ययका ल्यप् आदेश होगा ।
  ४. वञ्चयन्ते । 'गृधिवञ्च्योः' से आत्मनेपद होजायगा ।
-

## ( ८ ) अनुवादोपयोगिघात्वर्थ—

### अञ्चु-- गतिपूजनयोः—

- १ अञ्चति—जाता या पूजता है।
- २ प्राञ्चति—उन्नत होता है।
- ३ पराञ्चति—लौटता है।
- ४ न्यञ्चति—नीचे जाता है।
- ५ प्रत्यञ्चति—अवनति प्राप्त करता है।
- ६ उदञ्चति—ऊपर जाता है।
- ७ सहाञ्चति—साथ जाता है।
- ८ अवाञ्चति—अधोमुख होता है।
- ९ पर्युदञ्चति—पैचा लेता है।
- १० समञ्चति—अच्छीतरह जाता या पूजता है।

११ तिरोञ्चति—टेढा जाता है।

### अय गतौ—

- १ अयते—जाता है,
- २ प्लायते—भागता है,
- ३ पलायते—
- ४ उदयते—उदय लेता है,
- ५ व्ययते—खर्च करता है,
- ६ निरयते—निकलता है,
- ७ दुरयते—दुःखी होता है,
- ८ निलयते—विलीन होता है,
- ९ दुलयते—कौपता है,

### अर्थ उपयाञ्चयाम्—

- १ अर्थयते—मांगता है,
- २ समर्थयते—अनुमोदन करता है,
- ३ अभ्यर्थयते—अनुमोदन करता है,
- ४ प्रार्थयते—प्रार्थना करता है,
- ५ व्यर्थयते—विफल करता है,
- ६ अन्वर्थयते—अर्थानुकूल करता है,

### असु क्षेपणे—

- १ अस्यति—फेंकता है,
- २ अपास्यति—दूर करता है,
- ३ अघ्यस्यति—आरोग करता है,
- ४ वन्यस्यति—स्थापित करता है,
- ५ न्यस्यति—सौंपता है,
- ६ अभ्यस्यति—कण्ठस्थ करता है,
- ७ निरस्यति—हटाता है,
- ८ व्युदस्यति—निकालता है,
- ९ परास्यति—परास्त करता है,
- १० व्यत्यस्यति—उलटपलट करता है,

११ विपयस्यति—विपर्यास करता है,

१२ समस्यति—संक्षिप्त करता है,

### आप्ठु व्याप्तौ—

- १ आप्नोति—प्राप्त करता है,
- २ व्याप्नोति—

{	व्याप्त करता है,
	फँलता है,
- ३ समाप्नोति—

{	समाप्त करता है,
	समाप्त होता है,
- ४ अवाप्नोति—प्राप्त करता है,
- ५ पर्याप्नोति—

{	पर्याप्त करता है,
	पर्याप्त होता है,

### आस उपवेशने—

- १ आस्ते—बैठता है,
  - २ उदास्ते—उदासीन होता है,
  - ३ उपास्ते—ध्यान करता है,
  - ४ अध्यास्ते—रहता है,
  - ५ अन्वास्ते—पाँछे, बैठता है,
- इण् गतौ—
- १ एति—जाता है,
  - २—इत्येति—विश्वास करता है,

- ३ अत्येति—नष्ट होता है।  
 ४ अन्वेति—बीछे मिलता है।  
 ५ विपयेति—उलटा समझता है।  
 ६ उपेति—पास जाता या आता है।  
 ७ अभ्येति—सामने आता है।  
 ८ व्यत्येति—उलट पलट करता है।  
 या व्रीतता है।  
 ९ व्येति—खर्च करता है।  
 १० अवति—जानता है।  
 ११ अपैति—दूर होता है।  
 १२ समवेति—सम्बद्ध होता है।  
 १३ समन्वेति—समन्वय करता है।  
 १४ अभिप्रैति—इष्ट करता है।  
 १५ उदेति—उदित होता है।  
 ईह चेष्टायाम्—  
 १ ईहते—चेष्टा करता है।  
 २ समीहते—चाहता है।  
 ३ निरीहते—निःस्पृह होता है।  
 ईक्षादर्शने—  
 १ ईक्षते—देखता है।  
 २ अपेक्षते—इच्छा करता है।  
 ३ उपेक्षते—लापरवाही करता है।  
 ४ वीक्षते—देखता है।  
 ५ प्रतीक्षते—प्रतीक्षा करता है।  
 ६ परीक्षते—परीक्षा करता है।  
 ७ निरीक्षते—निगरानी करता है।  
 ८ समीक्षते—विमर्श करता है।  
 ९ उत्प्रेक्षते—सम्भावना करता है।  
 १० अन्वीक्षते—चिन्तन या मनन करता है।  
 ऊह वितके—  
 १ ऊहते—विचार करता है।  
 २ अपोहते—छोड़ता है।  
 ३ उपोहते—सूक्ष्मविचार करता है।

- ४ समूहते—शोधित करता है।  
 ५ प्रत्यूहते—विष्ण डालता है।  
 ६ व्यूहते—संगठित करता है।  
 ७ दुरूहते—कठिनाई से जानता है।  
 (डु) कृञ् करणे—  
 १ करोति—करता है।  
 २ अनुकरोति—नकल करता है।  
 ३ अपकरोति—हानि करता है।  
 ४ विकुरुते—उच्चारण करता है।  
 ५ विकुर्वते—विकार प्राप्त करता है।  
 ६ उपकुरुते—सेवन करता है।  
 ७ अधिकुरुते—क्षमा या पराभव करता है।  
 ८ तिरस्करोति—तिरष्कार करता है।  
 ९ निराकरोति—हटाता है।  
 १० परिष्करोति—परिष्कृत करता है।  
 ११ आविष्करोति—प्रकट करता है।  
 १२ संस्करोति—संस्कार करता है।  
 १३ उत्कुरुते—चुगली करता है।  
 १४ उदाकुरुते—भ्रष्टता है।  
 १५ प्रकुरुते—जबर्दस्ती करता है।  
 १६ उपकुरुते—दूसरे का गुण ग्रहण करता है।  
 १७ अलं करोति—भूषण पहनता है।  
 १८ उप करोति—भलाई करता है।  
 १९ प्रति करोति—प्रतिकार करता है।  
 २० अपाकरोति—खण्डन करता है।  
 २१ प्रत्युपकरोति—प्रत्युपकार करता है।  
 क्रमुपाद विक्षेपे—  
 १ क्रामति—चलता है।  
 २ क्रमते—उत्साह करता है।  
 ३ उपक्रमते—आरम्भ करता है।  
 ४ प्रक्रमते—  
 ५ विक्रमते—आगे बढ़ता है।  
 ६ पराक्रमते—अप्रतिहत होता है।

- ७ आक्रमते—उदय लेता है ।  
 ८ अतिक्रामति—उल्लंघन करता है ।  
 ९ परिक्रामति—प्रदक्षिण करता है ।  
 १० निष्क्रामति—निकलता है ।  
 ११ अपक्रामति—हटता है ।  
 १२ संक्रामति—संक्रान्त होता है ।  
 १३ अनुक्रामति—अनुक्रम करता है ।  
 १४ आक्रामति ऊपर जाता है ।

गम्लु गतौ—

- १ गच्छति—जाता है ।  
 २ आगच्छति—आता है ।  
 ३ संगच्छते—संगत होता है ।  
 ४ निर्गच्छति—निकलता है ।  
 ५ अनुगच्छति—पीछे जाता है ।  
 ६ अवगच्छति—जानता है ।  
 ७ अधिगच्छति—प्राप्त करता है ।  
 ८ अभ्यागच्छति—सामने आता है ।  
 ९ प्रतिगच्छति—लौटता है ।  
 १० अभ्युगच्छति—स्वीकार करता है ।  
 ११ उदगच्छति—ऊपर जाता है ।  
 १२ अपगच्छति—दूर हटता है ।

ग्रह-उपादाने—

- १ गृह्णाति—लेता है ।  
 २ आगृह्णाति—आग्रह करता है ।  
 ३ अनुगृह्णाति—कृपा करना है ।  
 ४ दुरागृह्णाति—हठ करता है ।  
 ५ प्रतिगृह्णाति—दान लेता है ।  
 ६ विगृह्णाति—लड़ाई करता है ।  
 ७ निगृह्णाति—कैद करता है ।  
 ८ संगृह्णाति—इकट्ठा करता है ।  
 ९ परिगृह्णाति—आसक्ति करता है ।

चर गतिभक्षणयोः—

- १ चरति—धूमता या खाता है ।

- २ उच्चरते—उल्लंघन करता है ।  
 ३ उच्चरति—ऊपर जाता है ।  
 ४ विचरति—विचरण करता है ।  
 ५ आचरति—आचरण करता है ।  
 ६ परिचरति—सेवा करता है ।  
 ७ उपचरति—उपचार करता है ।  
 ८ अनुचरति—अनुसरण करता है ।  
 ९ संचरते—भ्रमण करता है ।  
 १० दुराचरति—दुरा आचरण करता है ।  
 ११ अतिचरति—जादा गमन करता है ।  
 १२ व्यभिचरति—व्यभिचार करता है ।  
 १३ अपचरति—विपरीत करता है ।

चिञ् चयने—

- १ चिनोति—चुनता है ।  
 २ परिचिनोति—पहचानता है ।  
 ३ निचिनोति—इकट्ठा करता है ।  
 ४ उपचिनोति—बढ़ाता है ।  
 ५ अपचिनोति—घटाता है ।  
 ६ संचिनोति—जमा करता है ।  
 ७ निश्चिनोति—निश्चय करता है ।  
 ८ समुच्चिनोति—अधिक करता है ।  
 ९ अन्वाचिनोति—आनुपाङ्गिकता है ।  
 १० अवचिनोति—इकट्ठा करता है ।

ज्ञा अवबोधने—

- १ जानाति—जानता है ।  
 २ जानीते—प्रवृत्त होता है ।  
 ३ अपजानीते—छिपाता है ।  
 ४ प्रतिजानीते—प्रतिज्ञा करता है ।  
 ५ अनुजानाति—अनुमति देता है ।  
 ६ अभ्यनुजानाति—स्वीकार करता है ।  
 ७ त्यभिजानाति—प्रत्यक्ष का स्मरण करता है ।  
 ८ अभिजानाति—पहचानता है ।

- १ उपजानाति—आरम्भ करता है ।  
 १० संजानीते—देवता है ।  
 ११ अवजानाति—अपमान करता है ।  
 १२ विजानाति—निन्दा करता है ।

### णीञ् प्रापणे—

- १ नयति—लेजाता है ।  
 २ विनयति—विनय करता है ।  
 ३ विनयते—गिनता या खर्चकरता है ।  
 ४ अनुनयति—मनाता है ।  
 ५ परिणयति—विवाह करता है ।  
 ६ निर्णयति—निर्णय करना है ।  
 ७ अभिनयति—अभिनय करता है ।  
 ८ उपनयति—पासमें लाता है ।  
 ९ अपनयति—हटाता है ।  
 १० आनयति—लाता है ।  
 ११ प्रणयति—प्रेम करता है ।  
 १२ उन्नयते—ऊपरले जाता है ।

### वृ प्लवनतरणयोः—

- १ तरति—तैरता है ।  
 २ अवतरति—उतरता है ।  
 ३ वितरति—देता है ।  
 ४ उत्तरति—जबाव देता है ।  
 ५ संतरति—ऊपर तैरता है ।

### दिश अतिसर्जने—

- १ दिशति—देता है ।  
 २ आदिशति—आशा देता है ।  
 ३ निर्दिशति—बतलाता है ।  
 ४ उद्दिशति—उद्देश करता है ।  
 ५ उपदिशति—उपदेश करता है ।  
 ६ निदिशति—अनुमति देता है ।  
 ७ संदिशति—संदेश कहता है ।  
 ८ व्यपदिशति—मुख्यव्यवहारकरता है ।  
 ९ अतिदिशति—काल्पनिक व्यवहार करता है ।

- १० अपदिशति—वहाना करता है ।  
 ११ प्रतिनिद्दिशति—विधेयकोबतलाता है  
 (डु) घाञ्—धारणपोषणयोः—  
 १ दधाति—धारण करता है ।  
 २ विदधाति करता है ।  
 ३ अनुसंदधाति—अनुसंधान (खोज) करता है ।

- ४ अन्तर्घत्ते—छिपता है ।  
 ५ तिरोघत्ते—” ”  
 ६ अभिघत्ते—बोलता है ।  
 ७ अवघत्ते—ध्यान देता है ।  
 ८ पिघत्ते—ढाँकता है ।  
 ९ अपिघत्ते—” ”  
 १० संघत्ते—मेलकरता है ।  
 ११ परिघत्ते—पहनता है ।  
 १२ आघत्ते—स्थापित करता है ।  
 १३ निघत्ते—रखता है ।  
 १४ प्रणिघत्ते—ध्यानकरता है ।  
 १५ प्रतिनिघत्ते—प्रतिनिधिकरता है ।

### पल् वृ पतने—

- १ पतति—गिरता है ।  
 २ प्रणिपतति—प्रणाम करता है ।  
 ३ निपतति—गिरता है ।  
 ४ उत्पतति—उड़ता है ।  
 ५ प्रपतति—गिरता है ।

### पद गतौ—

- १ पद्यते—जाता है ।  
 २ उत्पद्यते—पैदा होता है ।  
 ३ विपद्यते—मरता है ।  
 ४ संपद्यते—सुखी होता है ।  
 ५ उपपद्यते—युक्त होता है ।  
 ६ आपद्यते—घोद लगता है ।

- ७ प्रपद्यते—शरण में जाता है ।  
 ८ निष्पद्यते -- निष्पन्न होता है ।  
 ९ प्रतिपद्यते -- आज्ञा मांगता है ।  
 १० व्युत्पद्यते—व्युत्पन्न होता है ।

वन्ध बन्धने —

- १ बध्नाति—बांधता है ।  
 २ प्रबध्नाति—प्रबन्ध करता है ।  
 ३ निबध्नाति—रचता है ।  
 ४ प्रतिबध्नाति—रोक लगाता है ।  
 ५ सम्बध्नाति—जोड़ता है ।  
 ६ उद्बध्नाति—फांसी लगाता है ।  
 ७ निर्बध्नाति—प्रेम करता है ।

भू सत्तायाम —

- १ भवति —होता है ।  
 २ अनुभवति -- अनुभव करता है ।  
 ३ अभिभवति—दबाता है ।  
 ४ पराभवति—पराभव करता है ।  
 ५ परिभवति—तिरस्कार करता है ।  
 ६ उद्भवति—उत्पन्न होता है ।  
 ७ आविर्भवति — प्रकट होता है ।  
 ८ प्रादुर्भवति — ” ” ”  
 ९ सम्भवति हो सकता है ।  
 १० तिरोभवति—छिपाता है ।  
 ११ अन्तर्भवति—” ” ”  
 १२ प्रभवति—समर्थ या पैदा होता है ।

मनु-अवबोधने—

- १ मन्यते—मानता है ।  
 २ अवमन्यते — तिरस्कार करता है ।  
 ३ अनुमन्यते—सलाह देता है ।  
 ४ संमन्यते —सन्मान करता है ।  
 ५ विमन्यते—उपेक्षा करता है ।  
 ६ अभिमन्यते—बमण्ड करता है ।

युजिर यांगे —

- १ युनक्ति—जोड़ता है ।

२ अभियुनक्ति—अभियोगकरता है ।

३ उद्द्युनक्ति—उद्योग करता है ।

४ संयुनक्ति—संयुक्त करता है ।

५ प्रतियुनक्ति—स्पर्धा करता है ।

६ अनुयुनक्ति—पूछता है ।

७ पर्यनुयुनक्ति—प्रत्युत्तर देता है ।

८ उन्मयनक्ति—उपयोग करता है ।

९ वियुनक्ति—वियुक्त करता है ।

१० नियुनक्ति—नियुक्त करता है

रह बीजजन्मनि—

१ रोहति - जमता है ।

२ प्ररोहति - उत्पन्न होता है ।

३ अधिरोहति - चढ़ता है ।

४ अवरोहति—उतरता है ।

५ आरोहति—चढ़ता है ।

६ संरोहति - मिलता है ।

लप लपने—

१ लपति—बोलता है ।

२ विलपति—विलाप करता है ।

३ प्रलपति—बकवास करता है ।

४ आलपति—बोलता है ।

५ संलपति—वार्तालाप करता है ।

६ अपलपति—छिपाता है ।

वद व्यक्तायां वाचि—

१ वदति—बोलता है ।

२ अपवदते—छोड़ता है ।

३ अपवदति—दूषित करता है ।

४ अनुवदति—अनुवाद करता है ।

५ उपवदते—प्रार्थना करता है ।

६ विवदते—भगडता है ।

७ संप्रवदन्ते—मिलकर बोलता है

८ अनुवदते—तुल्य बोलता है ।

९ विप्रवदन्ते—विरुद्ध बोलता है ।

१० प्रतिवदति—जवाब देता है।

११ संवदति—बात करता है।

वृत्तु वर्तने—

१ वर्तते—है।

२ प्रवर्तते—प्रवृत्त होता है।

३ निवर्तते—लौटता है।

४ परिवर्तते—धूमता है।

५ अनुवर्तते—पीछे चलता है।

६ निवर्तते—शान्त होता है।

७ दुर्वर्तते—दुरा आचरण करता है।

८ विवर्तते—बदलता है।

९ आवर्तते—दुहराता है।

षट्क विशरणगत्यवसादनेषु—

१ सोदति—ठहरता या दुःखी होता है।

२ प्रसोदति—खुश होता है।

३ विषोदति—खिन्न होता है।

४ निषोदति—ठँठता है।

५ अवसोदति—थकता है।

६ पर्यवसोदति—समाप्त होता है।

७ उपसोदति—पास में बैठता है।

ष्टा गतिनिवृत्तौ—

१ तिष्ठति—ठहरता है।

२ प्रतिष्ठते—प्रस्थान करता है।

३ उपतिष्ठते—उपस्थान करता है।

४ उत्तिष्ठति—उठता है।

५ अनुतिष्ठति—करता है।

६ संतिष्ठते—मरता है।

७ अवतिष्ठते—स्थिर होता है।

सृ गतौ—

१ सरति—जाता है।

२ अनुसरति—अनुसरण करता है।

३ प्रसरति—फैलता है।

४ अभिसरति—निकलता है।

५ निःसरति—निकलता है।

६ अपसरति—हटता है।

७ परिसरति—धूमता है।

८ संसरति—सम्बद्ध होता है।

९ उत्सरति—अलग होता है।

१० उपसरति—पास जाता है।

ह्रस्व हरणे—

१ हरति—ले जाता है।

२ अपहरति—चुराता है।

३ अनुहरति—निकल करता है।

४ परिहरति—छोड़ता है।

५ आहरति—लाता है।

६ व्याहरति—बोलता है।

७ व्यवहरति—व्यवहार करता है।

८ अभ्यवहरति—खाता है।

९ प्रहरति—मारता है।

१० संहरति—नाश करता है।

११ उपसंहति—उपसंहार करता है।

१२ विहरति—विहार करता है।

१३ समाहरति—इकट्ठा करता है।

१४ उद्धरति—निकालता है।

१५ उपहरति—उपहार देता है।

१६ उपाहरति—लाता है।

१७ उदाहरति—उदाहरण देता है।

१८ प्रत्युदाहरति—दूसरा उदाहरण देता है।

क्षिप प्रेरणे

१ क्षिपति—फेंकता है।

२ निक्षिपति—नीचे फेंकता है। सौंपता है।

३ प्रक्षिपति—प्रक्षेप करता है।

४ आक्षिपति—दोष लगाता है।

५ अधिक्षिपति—दोष लगाता है।

६ संक्षिपति—छोटा करता है।

७ उत्क्षिपति—ऊपर फेंकता है।

८ अधः क्षिपति—नीचे फेंकता है।

९ विक्षिपति—विक्षिप्त होता है।



## ( ६ ) व्याकरणादिलक्षणम्

### १—व्याकरणम्

व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति—शब्दज्ञानजनकं व्याकरणम्, तच्च सूत्रम् । जिससे साधु शब्दका ज्ञान हो उसी का नाम व्याकरण है । (व्याकरणका इतवृत्त मेरी 'इन्दुमती' टीकायुत 'लघुकांमुदी' की प्रस्तावनामें पढ़िये

### २—सूत्रलक्षणम्

अल्पाक्षरमत्तन्दिग्धं सारवद्विध्वतो मुखम् ।

अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥

सूत्रोंके मेद—सञ्ज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च ।

अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् ॥

१. संज्ञानूत्रं यथा—वृद्धिरादैच्, अदेङ्गुणः, इत्यादि ।

२. परिभाषासूत्रम्—( कुव्यवस्थायां सुव्यवस्थासम्पादकं सूत्रम् )

यथा—आदेः परस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इत्यादि )

३. विधिसूत्रं यथा—इकोणचि, एचोऽयवायावः इत्यादि ।

४. नियमसूत्रं यथा—कृतद्वितसमासारच, रात्सस्य, इत्यादि ।

५. अतिदेशसूत्रं यथा—'स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ, तृज्वत्क्रोष्टुः, इत्यादि ।

६. अधिकारसूत्रं यथा—अद्याप्रतिपदिकात्, आर्धधातुके, इत्यादि ।

### ३—वार्तिकलक्षणम्

उक्ताऽनुक्तदुरुक्तानां विन्ता यत्र प्रवर्तते ।

तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः ॥

### ४—भाष्यलक्षणम्

सूत्रार्थो वर्यते यत्र वर्णैः सूत्रानुसारिभिः ।

स्वपदानि च वर्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥

### ५—व्याख्यानलक्षणम् ।

पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना ।

आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम् ॥

## ( १० ) विद्यार्थी-शिक्षासूत्रम्

छात्राणामुपकाराय हितमुपदिशाम्यहम् ।  
येन जीवनमेषामुन्नतिप्रवर्णं भवेत् ॥ १ ॥

छात्रों के उपकारार्थ मैं कुत हित बात बतलाता हूँ । जिससे उनका जीवन उन्नतिशील हो ॥ १ ॥

इन्द्रियाणि वशीकृत्य समाधाय मनस्तथा ।  
प्रत्यहं प्रातस्तथाय प्रभुं वन्देदतन्द्रितः ॥ २ ॥

सबसे पहले इन्द्रियोंको अपने वशमें कर और मनको एकाग्र बनाकर प्रति-  
रोज सबेरे उठकर आलस्य छोड़कर ईश्वर की वन्दना करे ॥ २ ॥

शौचस्नानादिकं कृत्वा सन्ध्याहवनमाचरेत् ।  
पूर्वं पठितपाठानामावृत्तिं निव्यशश्चरेत् ॥ ३ ॥

शौच दन्तधावन स्नान आदि शारीरिक पवित्रता सम्पादन कर सन्ध्या  
(परमात्मचिन्तन) और हवन करें । तदुपरान्त पढ़े हुए पाठों का आवर्तन करें ॥

ततो गुरुमुखाद्ग्रन्थमाद्योपान्तं पठेन्मुदा ।  
गुरुशुश्रूषणं कृत्वा सततं पाठमभ्यसेत् ॥ ४ ॥

तदनन्तर गुरु मुखसे अपने-२ पाठों को पढ़े । बादमें गुरुकी यथोचित सेवाकर  
हमेशा पाठ का अभ्यास करें ॥ ४ ॥

परीक्षोत्तार्णतार्थाऽपि योग्यता परमौचितो ।  
अर्जनीया सदा शिष्यैर्वर्ध्या व्युत्पत्तिरन्ततः ॥ ५ ॥

परीक्षामें सफलता प्राप्त्यर्थ उचित योग्यता हासिल करते हुये आन्तरिक  
व्युत्पत्ति बढ़ाने की भी चेष्टा करें ॥ ५ ॥

व्युत्पत्तिमन्तरा नैव प्रतिपत्स्यात् कथंचन ।  
अतो व्युत्पत्सुभिर्भाव्यं छात्रैजिज्ञासुभिस्तथा ॥ ६ ॥

व्युत्पत्तिके बिना कुछ भी पदार्थोंका वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये  
द्विद्यार्थियों को व्युत्पत्ति की जिज्ञासा अवश्य रखनी चाहिये ॥ ६ ॥

समयस्य महामूल्यमज्ञात्वा य उपेक्षते ।

जीवनं यस्य व्यत्येति व्यर्थमेव न संशयः ॥ ७ ॥

जो विद्यार्थी समय की कीमत को नहीं जानकर (पढ़ने में) लापरवाही करता उसका जीवन निःसन्देह व्यर्थ (कंटकाकीर्ण) हो जाता है ॥ ७ ॥

परीक्षां दातुकामो वै लेखशक्तिं विवर्धयेत् ।

अल्पेनापि सुलेखेन परीक्षोत्तीर्यते ध्रुवम् ॥ ८ ॥

परीक्षा देनेवालोंको चाहिये कि लिखने की शक्तिको अच्छी तरह बढ़ावें क्योंकि थोड़े भी सुन्दर लेखोंसे निश्चितरूपेण परीक्षामें सफलता मिलती है ॥ ८ ॥

लेखशक्तिवर्धनेन बहुश्रमयुताऽपि वा ।

परीक्षामुत्तारितुं हा ! पर्यते न कथंचन ॥ ९ ॥

उत्तम लेख करनेमें कमजोर छात्र अधिकसे अधिक मेहनत करने पर भी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते ॥ ९ ॥

परीक्षा भवनं गत्वा मनश्चाञ्चल्यमुत्सृजेत् ।

निर्भीकतां समासाद्य शान्तचित्तो भवेज्जनः ॥ १० ॥

परीक्षाभवनमें जाकर मनकी चञ्चलता का दूर कर हृदयसे भयको विलकुल हटाकर प्रसन्नचित्त हो जाना चाहिये ॥ १० ॥

प्रश्नपत्रं गृहीत्वादौ प्रश्नान् सर्वान् निभाल्य च ।

उत्तरं विदितं सम्यगादौ लेख्यं सविस्तरम् ॥ ११ ॥

पहले प्रश्नपत्र लेकर सब प्रश्नोंको अच्छी तरह हृदयङ्गम करके सबसे पहिले जिस प्रश्न का उत्तर खूब उत्तम रूपसे आता हो उसीको लिखें ॥ ११ ॥

कालानुपातमाश्रित्य सारगर्भेण सत्वरम्

संक्षेपेणैव लेखेन प्रश्नानामुत्तरं लिखेत् ॥ १२ ॥

परीक्षा समयके आसत को ध्यानमें रखकर संक्षेपमें ही सारगर्भित लेखसे अनिवार्य प्रश्नोंका उत्तर लिखना चाहिये ॥ १२ ॥

समयस्य समाप्तेः प्राक् स्वासनं परिहाय च ।  
केन्द्रान्न बहिर्गच्छेदनुतापोऽन्यथा भवेत् ॥ १३ ॥

समयके समाप्त होनेसे पहिले आसनको परित्याग कर केन्द्र भवनसे बाहर नहीं निकले, नहीं तो बड़ी हानि होगी ॥ १३ ॥

सिंहावलोकनन्यायात् शोधयेल्लिखितोत्तरम् ।  
गच्छतः स्खलनन्यायात् जाता त्रुटिर्विनश्यति ॥ १४ ॥

अन्तमें लिखित उत्तरोंको पीछेकी एक निगाह डालकर संशोधित करलें, जिससे भ्रमवश लेखकी भूलचूक दूर हो जायगा ॥ १४ ॥

— — —